

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 27—जुलाई 3, 2015 (आषाढ़ 6, 1937)

No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 27—JULY 3, 2015 (ASADHA 6, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून 2015

रक्षा (एम एस)

सं. 154, दिनांक 5 जून 2015—भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 नवम्बर 2014 से निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

अवैतनिक थल सेना ए डी सी

पैदल सेना

आईसी-30702एन ले जन फिलीप कम्पोज, अविसेमे**, विसेमे

आईसी-30503ए ले जन जे पी नेहरा, पविसेमे, अविसेमे**

(सेवानिवृत्त) के स्थान पर

तोपखाना रेजिमेंट / सेना वायु रक्षा कोर (4:1)

आईसी-30710एम ले जन ए के मिश्रा, अविसेमे, तोपखाना रेजिमेंट

आईसी-30408एन ले जन वी के नरूला, अविसेमे, सेमे, तोपखाना रेजिमेंट

(सेवानिवृत्त) के स्थान पर

भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में दिनांक 01 मार्च 2015 से निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

अवैतनिक थल सेना ए डी सी

कवचित कोर

आईसी-31348 डब्ल्यू ले. जन राजन बख्शी, पविसेमे, उयुसेमे

आईसी-31324 एम ले जन के सुरेन्द्रनाथ, पविसेमे, अविसेमे**, सेमे., विसेमे

(सेवानिवृत्त) के स्थान पर

रेवती रमन

अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 155, दिनांक 5 जून 2015—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों की सहर्ष नियुक्ति करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

लै0 बनाया जाता है

विनीत कुमार	(टीए-42956)	(इन्फैन्ट्री)	06 दिसम्बर 2014
कुलदीप राना	(टीए-42957)	(इन्फैन्ट्री)	16 दिसम्बर 2014
मनीवसागन टी	(टीए-42958)	(इन्फैन्ट्री)	23 दिसम्बर 2014
अभीजीत महाजन	(टीए-42959)	(इन्फैन्ट्री)	06 जनवरी 2015

भारत भूषण जोशी

अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 156, दिनांक 8 जून 2015—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

लै0 कर्नल बनाया जाता है

मेजर नीधिकांत ध्यानी	(टीए-42441)	(इन्फैन्ट्री)	09 मार्च 2015
मेजर निर्देश साह	(टीए-42447)	(इन्फैन्ट्री)	30 मार्च 2015
मेजर कुलदीप सिंह चौहान	(टीए-42449)	(इन्फैन्ट्री)	30 मार्च 2015

भारत भूषण जोशी

अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 157, दिनांक 8 जून 2015—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले. कर्नल

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विसिज	ले. कर्नल दिनांक से
56175	सुमित कुमार	ए ओ सी	21 अक्टूबर 2013
65107	अमित शर्मा	ए ई सी	02 मई 2014

एस सी सं.	नाम	आर्म	ले. कर्नल दिनांक से
00397	सुरेन्द्र सिंह	ए ए डी	08 दिसम्बर 2014
00398	वेंकटेशन आर	ई एम ई	08 दिसम्बर 2014
00399	ग्नाना शेखर के	ए सी	08 दिसम्बर 2014
00400	संजय कुमार	सिग्नलस	08 दिसम्बर 2014
00401	सुंदर बहादुर चेतरी	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 2014
00402	दिनेश कुमार पाठक	ए ओ सी	08 दिसम्बर 2014
00404	राज कपुर	सिग्नलस	08 दिसम्बर 2014
00405	रविंदर सिंह	ए ए डी	08 दिसम्बर 2014
00407	सतपाल सिंह	ए एस सी	08 दिसम्बर 2014
00409	सतविंदर सिंह	इंट	08 दिसम्बर 2014
00410	बालम सिंह	ए ओ सी	08 दिसम्बर 2014
00411	सैथिल कुमार आर	आर्टी	08 दिसम्बर 2014
00412	सुरेन्द्र सिंह नेगी	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 2014
00413	धरमवीर सिंह	आर्टी	08 दिसम्बर 2014
00416	तोंदुप वांगेल	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 2014
00417	जोशी पदमादत्त भुषण	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 2014
00418	सुनील कुमार त्यागी	इंजीनियर्स	08 दिसम्बर 2014
00419	एन त्यागाराजन	सिग्नलस	08 दिसम्बर 2014
00420	अब्दुल रहीम	ए एस सी	08 दिसम्बर 2014
00421	विवेक मॉय गोस्वामी	इंफैंट्री	08 दिसम्बर 2014
00426	सुनील कुमार जी आर	आर्टी	08 दिसम्बर 2014
00427	अशोक कुमार तोमर	ई एम ई	08 दिसम्बर 2014
00431	गुरींदर सिंह संधु	ई एम ई	08 दिसम्बर 2014

—08 दिसम्बर 2014—

कप्तान से मेजर

आई सी सं	नाम	आर्म
70778	अभिषेक गर्गमुख	इंफैंट्री
70779	अतुल कुमार राय	ए सी
70780	कुंदन कुमार	इंफैंट्री
70781	अजीत सिंह नेगी	इंफैंट्री
70782	उदित पंत	इंफैंट्री
70783	भवेश रंजन	इंफैंट्री
70784	आदित्य शर्मा	आर्टी
70785	जसकरन सिंह	आर्टी
70786	अभिनव मारवल	इंजीनियर्स
70787	ललित मोहन पलारिया	इंफैंट्री

आई सी सं	नाम	आर्म
70789	शेठे उमेश बंदोपंत	इंफैन्ट्री
70790	एस पी दीपक	आर्टी
70791	कुमार वैभव	ए ए डी
70792	सांतनू बौरी	इंफैन्ट्री
70793	गौरव ग्रेवाल	ई एम ई
70794	अंकित खत्री	इंफैन्ट्री
70795	आनंद कुमार एन	आर्टी
70796	जीवन सिंह	इंफैन्ट्री
70797	शैलेन्द्र सिंह चौधरी	आर्टी
70798	विशाल नंदा	इंफैन्ट्री
70799	विनय राय	इंफैन्ट्री
70800	अभिनीत कुमार गौर	ई एम ई
70801	श्रीनिवासन एस	मैक इंफैन्ट्री
70802	लक्ष्य	इंफैन्ट्री
70803	अरुण अबेय मैथ्यू	इंफैन्ट्री
70804	भूपिन्दर सिंह, एस सी	इंफैन्ट्री
70805	अभिनव श्रीवास्तवा	ए ए डी
70806	सुमित शोरन	ए सी
70807	पंकज दहिया	इंजीनियर्स
70808	बंधे राजेश श्रीराम	इंफैन्ट्री
70809	शौर्य राणा	इंफैन्ट्री
70810	अलौकिक डोगरा	इंफैन्ट्री
70811	अबुसईद जी पटेल	आर्टी
70812	विकास कुमार सिंह	इंफैन्ट्री
70813	अमित डी वारंग	इंफैन्ट्री
70814	दीपक भट्ट	इंफैन्ट्री
70815	प्रिस बी रमेश	इंजीनियर्स
70817	आशुतोष कुमार पांडे	इंफैन्ट्री
70818	प्रमोदा पी प्रभु	इंफैन्ट्री
70819	वधेकर सुधाकर रामदास	इंफैन्ट्री
70820	अशोक भारद्वाज	मैक इंफैन्ट्री
70822	अक्षय किशोर देखाने	इंफैन्ट्री
70823	शरद चंद्र सिंह	आर्टी
70824	अजीत कुमार प्रधान	इंफैन्ट्री

आई सी सं	नाम	आर्म
70825	हरमालकर निखिल प्रकाश	ए ए डी
70826	अखिलेश चौहान	इंफैन्ट्री
70827	हरप्रीत सिंह	इंजीनियर्स
70828	दलवी जीतेन्द्र खांडू	ए सी
70829	रवि कांत कुशवाहा	इंफैन्ट्री
70830	अंबरीश कुमार उपाध्याय	इंफैन्ट्री
70831	सचिन कुमार	ए एस सी
70832	प्रत्युश कुमार सिंह	ई एम ई
70833	भानू तेजा ए	ए ए डी
70834	अविनाश कुमार सिंह	इंफैन्ट्री
70835	मार्टिन अरविन्द एस	आर्टी
70836	सी ए अमित प्रसाद	ए सी
70837	अमित सेमवाल	इंफैन्ट्री
70838	दीपक मेहता	आर्टी
70839	जीतेन्द्र प्रजापति	इंफैन्ट्री
70840	संदीप धुल	मैक इंफैन्ट्री
70841	भूपेश सिंह चुफल	ए ए डी
70842	कल्याण बाबू मैमोमचा	इंफैन्ट्री
70843	विपिन चंद्र दांद्रियाल	इंफैन्ट्री
70844	अनिल कुमार	इंफैन्ट्री
70845	दलवी नकुल जयंत	इंफैन्ट्री
70846	अवनीश आनंद झा	ए ए डी
70847	संदीप भारतीय	इंफैन्ट्री
70848	गौरवजीत चावला	ई एम ई
70849	आलोक कुमार मंडल	आर्टी
70850	अनुप वी	इंफैन्ट्री
70851	अभिषेक कुलकर्णी	इंजीनियर्स
70852	शैलेन्द्र सिंह पटेल	ए एस सी
70853	संदीप शर्मा	इंफैन्ट्री
70854	माकन इंद्रप्रताप सिंह निर्मल सिंह	ए सी
70855	आशीष अवस्थी	इंफैन्ट्री
70856	राजीव कुमार	आर्टी
70857	जगप्रीत सिंह सोढी	आर्टी
70858	रोहित शोरन	इंफैन्ट्री

आई सी सं	नाम	आर्म
70859	प्रशांत प्रियदर्शी	आर्टी
70860	दीपक कुमार सामल	आर्टी
70861	अंकित मिश्रा	आर्टी
70862	रामाश्याम साई अनवेश	इंफैन्ट्री
70863	संदीप कुमार	आर्टी
70864	डी आर संदीप	आर्टी
70865	विश्वनाथ सिंह	आर्टी
70866	विनीत जगदेव	इंफैन्ट्री
70867	विककी गेहलयान	इंफैन्ट्री
70868	नवप्रीत सिंह बाथ	इंफैन्ट्री
70869	अमित भारद्वाज	इंजीनियर्स
70870	प्रियंक सतीश निम्बालकर	इंफैन्ट्री
70871	बलराज सिंह रंधावा	इंजीनियर्स
70872	सतीष कुमार सिंह	ए एस सी
70873	कुमार सौरभ	आर्टी
70874	पारितोष नाथ शुक्ला	आर्टी
70875	एस प्रोबीर सिंघा	इंफैन्ट्री
70876	प्रशांत किशोर मिश्रा	ए सी
70877	रजनीश मेहता	इंफैन्ट्री
70878	नंदलाल	आर्टी
70879	पवन कुमार सिंह	ए ए डी
70880	अनुप प्रताप सिंह	आर्टी
70881	गणेश नटराजन	मैक इंफैन्ट्री
70882	साहिल	आर्टी
70883	विजय कुमार	ए ए डी
70884	देबदुलाल मैती	आर्टी
70885	दीपक रस्तोगी	इंफैन्ट्री
70886	विकास शर्मा	इंफैन्ट्री
70887	यशवंत ए अभयंकर	आर्टी
70888	नरहरि वी	आर्टी
70889	प्रभात कुमार	आर्टी
70890	अशोक कुमार सिंह	इंजीनियर्स
70891	दीपक कुमार मुलिया	इंफैन्ट्री
70893	विनीथ वी	इंफैन्ट्री

आई सी सं	नाम	आर्म
70894	दिनेश सिंह	इंफैन्ट्री
70895	दीपक मिश्रा	आर्टी
70896	कुलकर्णी आदित्य दत्तात्रेय	इंफैन्ट्री
70898	अजीथ नायर	आर्टी
70899	अजय सिंह बरवाल	ई एम ई
70900	सौरभ केशरी	इंजीनियर्स
70901	मो अलि आरजू शानवज	आर्टी
70902	आदित्य मल्होत्रा	ए सी
70903	यशवीर	इंफैन्ट्री
70904	मधु मनीष	आर्टी
70905	नरेन्दर सिंह	इंफैन्ट्री
70907	सुभाष चंद्रन नायर बी	ए ए डी
70908	तुषार सिंह	ई एम ई
70909	वैभव उपासनी	इंजीनियर्स
70910	मनीष कुमार कादियान	इंफैन्ट्री
70911	चंद्र प्रकाश सिंह	इंफैन्ट्री
70912	इरागवारापु वी एस रंगनाथ	आर्टी
70913	के पार्थीबन	आर्टी
70914	वाई आशीष कुमार	इंफैन्ट्री
70915	राहुल महाजन	इंफैन्ट्री
70916	आर एस ओबेद	ए एस सी
70917	संजय बिश्ट	इंफैन्ट्री
70918	अंगद कुमार	आर्टी
70919	इशीताब वशिष्ट	ए सी
70920	नीरज बेनीवाल	इंफैन्ट्री
70921	संदीप कुमार नेहरा	इंफैन्ट्री
70922	नीलाभ भारद्वाज	इंफैन्ट्री
70923	सौरभ सिरोही	इंफैन्ट्री
70924	विवेक कुमार	आर्टी
70925	राहुल चंद्रन	आर्टी
70926	विश्वनाथ	आर्टी
70927	सुजीत कुमार	आर्टी
70928	आशुतोष शर्मा	आर्टी
70929	नरेश कुमार महला	आर्टी

आई सी सं	नाम	आर्म
70930	विक्रम गौर	इंफैन्ट्री
70931	रोहित रतन	इंफैन्ट्री
70932	एस एस बाबू	ए सी
70933	रमन कुमार	इंफैन्ट्री
70934	रोहन थंपी	इंफैन्ट्री
70935	राजीव देमरा	इंफैन्ट्री
70936	रूपक कुमार ठाकुर	इंफैन्ट्री
70937	श्रीधर हीरेमथ	इंफैन्ट्री
70938	सुमित सरदाना	आर्टी
70939	जानी ए सी	आर्टी
70940	रविन्दर सिंह बिष्ट	इंफैन्ट्री
70941	विशाल द्विवेदी	इंफैन्ट्री
70944	पुलकेश रॉय	ए ई सी
70945	राकेश चंद्र भट्ट	ई एम ई
70946	अनुभव थापा	इंफैन्ट्री
70947	अवनीश शुक्ला	इंफैन्ट्री
70948	विकास राना	आर्टी
70949	अखिल सुहाग	इंफैन्ट्री
70950	दीपक खुरान	ए ए डी
70951	नवीन शर्मा	ए ओ सी
70952	करन कालरा	ए सी
70953	संदीप कुमार यादव	आर्टी
70954	राहुल सेठ	इंफैन्ट्री
70955	अनवर रजा काजमी	आर्टी
70956	वैखोम हेमंत सिंह	ए ओ सी
70957	रविन्द्रा नेगी	ई एम ई
70958	कुणाल पाल	सिगनल्स
70959	मुकेश नेगी	मैक इंफैन्ट्री
70960	बिजेन्दर सिंह	ए एस सी
70961	अरोरा अभिजीतसिंह महेन्दरसिंह	इंफैन्ट्री
70962	चरणजीत सिंह	इंफैन्ट्री
70963	के एल राघवेन्द्र	आर्टी
70964	सिद्धार्थ सौरभ	आर्टी
70965	ज्योतिष कुमार मंगलम	इंफैन्ट्री

आई सी सं	नाम	आर्म
70966	उदय सिंह परमार	इंफैन्ट्री
70967	तपाडिया आकाश अशोक	इंफैन्ट्री
70968	पुष्पेन्द्र सिंह राजपूत	मैकइंफैन्ट्री
70969	अनिल कुमार	आर्टी
70970	गौरव शर्मा	आर्टी
70971	देशमुख विक्रान्त अजीत	इंफैन्ट्री
70972	चंदन कुमार	आर्टी
70973	अमृतेश विक्रम	इंजीनियर्स
70974	हर्ष वर्द्धन	ए ए डी
70975	प्रशांत सावंत	इंजीनियर्स
70976	कुमार गौरव	इंफैन्ट्री
70977	पुलकित देवन	ई एम ई
70978	अरुण डी एस	आर्टी
70979	हर्ष जी आर	ए सी
70980	कुमार गौरव	आर्टी
70981	विजय थापा	इंफैन्ट्री
70982	मनमथ खंडूआल	आर्टी
70983	राहुल राना	इंफैन्ट्री
70984	रोहित कुमार बारिक	ए सी
70985	धर्मेन्द्र सिंह	ए ओ सी
70986	बिरंची नारायण त्रिपाठी	ए ए डी
70987	मोहित कुमार जैन	आर्टी
70988	विरेन्द्र सिंह	इंफैन्ट्री
70989	राज कुमार	इंफैन्ट्री
70990	लिंगन लॉरेन्स	इंफैन्ट्री
70991	तुषार शर्मा	आर्टी
70992	गुटी बालाजी निरंजन	आर्टी
70993	एस श्याम शशिथर	इंजीनियर्स
70994	प्रियंक श्रीवास्तवा	इंफैन्ट्री
70995	रायपुरे विशाल भगवान	मैक इंफैन्ट्री
70996	दीपक नंदल	इंफैन्ट्री
70997	सौरभ सिंह	इंफैन्ट्री
70998	अमरबीर सिंह भिंडर	इंफैन्ट्री
70999	रमन भारद्वाज	आर्टी

आई सी सं	नाम	आर्म
71000	रूपक कुमार	आर्टी
71001	श्वेतांक शरण	ए सी
71002	सुदिप्तो साहा	इंजीनियर्स
71003	अल्फी येल्लोड के	ए ए डी
71005	टी आर स्वम्यदास	आर्टी
71006	गौरव नेगी	इंफैन्ट्री
71007	राहुल	आर्टी
71008	दिलीप सिंह शेखावत	इंफैन्ट्री
71010	जपेन्दर पाल सिंह	इंफैन्ट्री
71011	वरुण कुमार चौधरी	आर्टी
71012	रणबीर सिंह	आर्टी
71013	आर नवीन कुमार	इंफैन्ट्री
71014	अश्वनी कुमार	ई एम ई
71015	दीपक सिंह मनहास	ए ए डी
71016	मनीष कुमार पांडे	आर्टी
71017	अनुज कुमार	ए सी
71018	अविनाश कुमार	इंफैन्ट्री
71019	अनुपम शर्मा	ए एस सी
71020	राना रविन्दर सिंह	इंजीनियर्स
71021	शिंदे धनराज दिलीप	आर्टी
71022	गोथे सौरभ अनिल	इंफैन्ट्री
71023	एस प्रवीण कुमार	ए सी
71024	विक्रम शेखावत	इंफैन्ट्री
71025	निखिल राठौर	इंफैन्ट्री
71026	नागेश परासर	इंजीनियर्स
71027	पियूष कौशल	ए ए डी
71028	हिमांशु यादव	इंफैन्ट्री
71029	हिमांशु आले	इंफैन्ट्री
71030	दिवेश पोसवाल	इंफैन्ट्री
71031	अनिल कुमार लूहच	ए एस सी
71032	उल्लास कुमार वी	इंफैन्ट्री
71033	राजबीर	इंफैन्ट्री
71034	अतुल दिनेश मिधा	मैक इंफैन्ट्री
71035	श्वेतेज	इंफैन्ट्री

आई सी सं	नाम	आर्म
71036	अभिनीत	इंफैन्ट्री
71037	लोकेन्द्र सिंह शेखावत	इंफैन्ट्री
71038	संतोष नेगी	इंफैन्ट्री
71039	सुनील सांगवान	इंफैन्ट्री
71040	वरुण कुमार गुंडावारापु	ई एम ई
71041	पवनीत नरुला	ए ए डी
71042	दीपक सिंह बिष्ट	इंफैन्ट्री
71043	प्रशांत सांवल	इंफैन्ट्री
71044	अनिमेश रावत	इंफैन्ट्री
71045	लोकेश चौहान	आर्टी
71046	रविन्दर सिंह मनहास	इंफैन्ट्री
71047	शिशान्क शर्मा	ए सी
71048	ध्रुव राजन	इंफैन्ट्री
71049	आकाश पांडे	इंफैन्ट्री
71050	राहुल कुमार राय	इंफैन्ट्री
71051	अमित सक्सेना	ए ए डी
71052	शशि किशोर	आर्टी
71053	सोनम कुमार जयसवाल	ई एम ई
71054	अनुराग उपाध्याय	आर्टी
71055	प्रवीर गोगोई	इंफैन्ट्री
71056	राजीबलोचन प्रधान	आर्टी
71057	कुलदीप शर्मा	इंफैन्ट्री
71058	सक्षम शर्मा	इंफैन्ट्री
71059	विकास कुमार	आर्टी
71060	अरुणदीप सिंह	इंजीनियर्स
71061	विजय कुमार शर्मा	आर्टी
71062	गौरव बिष्ट	आर्टी
71063	विष्णु दत्त त्रिवेदी	इंफैन्ट्री
71064	शैलेन्द्र सिंह मेहता	इंजीनियर्स
71065	जितेन्द्र सिंह	इंजीनियर्स
71066	हर्षवर्द्धन दधिच	इंफैन्ट्री
71067	रवि कुमार	इंफैन्ट्री
71068	तनुज नौटियाल	इंफैन्ट्री
71069	रोहित पोरवाल	आर्टी

आई सी सं	नाम	आर्म
71070	लीबू अब्राहम	आर्टी
71071	आशीष मिश्रा	आर्टी
71072	कमल थवानी	ए सी
71074	राजेश जोशी	ए ए डी
71075	साहिल खुराना	आर्टी
71076	विकास कटोच	इंफैन्ट्री
71077	आलोक कुमार पांडे	मैक इंफैन्ट्री
71079	भूपिन्दर सिंह उज्जवल	ए सी
71080	अंकित नेगी	इंफैन्ट्री
71081	विपिन कुमार गौर	इंफैन्ट्री
71082	प्रवीण कुमार पारेख	आर्टी
71083	सुरेन्द्र सिंह	इंफैन्ट्री
71084	अश्विन साह	इंफैन्ट्री
71085	अनोघ कुमार चंदा	इंफैन्ट्री
71086	जगदीश सोमप्पा रचन्नावर	इंजीनियर्स
71087	वंकुल शर्मा	इंफैन्ट्री
71088	एस गौतम	आर्टी
71089	विक्रम सिंह कादियान	इंफैन्ट्री
71090	शिवेश सिंह थापा	इंफैन्ट्री
71091	सिद्धार्थ सिंह	ए सी
71092	अतुल यादव	इंफैन्ट्री
71093	क्षितिज शुक्ला	ए ए डी
71094	अमित कुमार	इंफैन्ट्री
71095	विजेन्द्र सिंह शेखावत	आर्टी
71096	दलजीत सिंह ढिल्लों	इंफैन्ट्री
71097	निशांत कुमार	इंफैन्ट्री
71098	उमेश चंद्र जोशी	आर्टी
71099	हरीश शर्मा	आर्टी
71100	हरीश कुमार विजेन्द्रन	इंफैन्ट्री
71101	आशीष रंजन दुबे	इंफैन्ट्री
71102	श्रीकांत एल	इंजीनियर्स
71103	गाडगिल सचिन श्रीकांत	आर्टी
71104	वी एम विक्रम वीराराघवन	आर्टी
71105	उपकार तिवारी	आर्टी

आई सी सं	नाम	आर्म
71106	तरुण कुमार	मैकइफैन्ट्री
71107	राघव खंडूरी	इफैन्ट्री
71108	यादविंदर सिंह भाउ	ए सी
71109	सप्तर्षि सरकार	ए ए डी
71110	सूरज आर	आर्टी
71111	डब्ल्यू मिश्रा	ई एम ई
71112	राधेश्याम यादव	ई एम ई
71113	सुरेन्द्र सिंह बिष्ट	इंजीनियर्स
71114	देओ अमेय गजानन	सिगनल्स
71115	मल्लीनाथा	सिगनल्स
71116	त्रिभूवन बिष्ट	ई एम ई
71117	गौरव पंत	इंजीनियर्स
71118	शेबिन बी कुट्टी	ई एम ई
71119	सरेथ वी आर	ई एम ई
71120	प्रियेश श्रीवास्तवा	इंजीनियर्स
71121	रविन्दर भखेर	ई एम ई
71122	चंदन विश्वकर्मा	इंजीनियर्स
71123	मधुर मलिक	सिगनल्स
71124	संदीप कुमार	ई एम ई
71125	आशीष धनकर	सिगनल्स
71126	विवेन्द्र केशरी	सिगनल्स
71127	कुलदीप सिंह	इंजीनियर्स
71128	नीलकांत कुमार	सिगनल्स
71129	दक्ष दीप विश्नोई	इंजीनियर्स
71130	एम सुरेन्द्र कुमार	ई एम ई
71131	गौरव राज	सिगनल्स
71132	अर्शदीप सिंह गिल	सिगनल्स
71133	विवेक नेगी	ई एम ई
71134	दीपांशु बालूनी	इंजीनियर्स
71135	विशाल ममगैन	सिगनल्स
71136	रिजेश जयाराजन	ए ए डी
71137	एस कोचेलवन	ई एम ई
71138	हिमांशु रावत	ई एम ई
71139	वरुण शर्मा	सिगनल्स

आई सी सं	नाम	आर्म
71140	आनंद बी	ई एम ई
71141	राहुल हरमन	सिगनल्स
71142	विराज गुलाटी	ई एम ई
71143	जुगल शर्मा	इंजीनियर्स
71144	लक्ष्य जैन	इंफैन्ट्री
71145	अनिरुद्ध रमेश कुमार सुंकारा	इंफैन्ट्री
71146	नायर साईनाथ सोमनाथन	इंजीनियर्स
71147	अभिषेक राणाडे	ए एस सी
71148	श्रीराम एस वी	सिगनल्स
71149	रजत बहल	इंजीनियर्स
71150	आशीष साह	ई एम ई
71151	गगनदीप मिश्रा	इंजीनियर्स
71152	लक्ष शर्मा	सिगनल्स
71153	मोहित कुमार शर्मा	सिगनल्स
71154	सुयश रघुवंशी	ई एम ई
71155	अनुराग कुमार	ई एम ई
71156	रोनाल्ड डैनियल डीसूजा	इंजीनियर्स
71157	नामराम अशोककूमार मैतेई	इंजीनियर्स
71158	अंकुर गुप्ता	ई एम ई
71159	एम कृष्णा चैतन्या	ई एम ई
71160	मनीष नायर	इंजीनियर्स
71161	संकल्प सोनी	सिगनल्स
71162	प्रशांत नेमा	सिगनल्स
71163	दीपक जैन	सिगनल्स
71164	पा अप्पाचा	सिगनल्स
71165	अभिनीत कुमार	सिगनल्स
71166	शोभित मेहता	सिगनल्स
71167	हिमांशु सिंह	सिगनल्स
71168	अभिषेक बिश्वास	ई एम ई
71169	सुशील कुमार	सिगनल्स
71170	सिंधम जीवन सिंह	इंजीनियर्स
71171	विक्रम जीत सिंह दाहिया	ई एम ई
71172	अंकित बुधराजा	सिगनल्स
71173	अरुणभास्कर के	ई एम ई

आई सी सं	नाम	आर्म
71174	आर वामसी कृष्णन	इंजीनियर्स
71175	क्षेत्रीमयुम चंगखोम्बा	इंजीनियर्स
71176	ओ जोतिन कुमार	आर्टी
71177	विप्लव भट्टाचार्य	ई एम ई
71178	दीपक सिंह	इंजीनियर्स
71179	दीपांजन बंधोपाध्याय	ई एम ई
71180	पाटिल गुरुराज प्रलहाद	इंजीनियर्स
71181	विवेक सुब्रमनियन	ई एम ई
71182	काले विकांत खादेराव	आर्टी
71183	सत्येन कुमार	ई एम ई

—13 दिसम्बर 2014—

आई सी सं	नाम	आर्म
75233	कपागाते सचिन किशन	ई एम ई
75234	भागवत रोहित राजन	आर्टी
75235	संदीप धवन	इंजीनियर्स
75236	अरुण कुमार	ई एम ई
75237	रमणदीप सिंह	ई एम ई
75238	सौरभ जोशी	इंजीनियर्स
75239	अभिमन्यु सिंह	सिगनल्स
75240	विवेक कुमार पांडे	इंजीनियर्स
75241	पिल्ले फ्रैंकलिन विलियम	इंजीनियर्स
75242	पुनीत शर्मा	ए ए डी
75243	प्रमोद कुमार दुबे	इंजीनियर्स
75244	राजेश राना	इंजीनियर्स
75246	आनंद सिहाग	इंफैन्ट्री
75247	बिक्रमजीत सिंह शाहिद	ई एम ई
75248	करन पंवर	इंजीनियर्स
75249	देवेन्द्र सिंह	ए सी
75250	गुरविक्रम सिंह सरना	ई एम ई
75251	अजय सलारिया	सिगनल्स
75253	अभिमन्यु जोशी	ई एम ई
75254	दिनेश नायक	ई एम ई
75255	भवेश कुमार	इंजीनियर्स
75256	चंदन सोबती	इंजीनियर्स

आई सी सं	नाम	आर्म
75258	सर्वेश कुमार स्वर्णकार	इंजीनियर्स
75259	करमिन्दर सिंह	इंफैन्ट्री
75260	आशीष दलाल	इंफैन्ट्री
75261	मनदीप सिंह दिलावरी	सिगनल्स
75262	विक्रम अर्नेस्ट पवार	इंजीनियर्स
75263	अभिषेक मिश्रा	ई एम ई
75264	रविन्द्र कुमार	इंजीनियर्स
75265	बकोरे समीर प्रदीप	सिगनल्स
75266	अशीत कुमार राना	इंजीनियर्स
75267	अभिजीत मोहापात्रा	इंजीनियर्स
75268	अग्रवाल आकाश सुशील	इंजीनियर्स
75269	अभिषेक अग्रवाल	इंजीनियर्स
75270	आशीष नेगी	ई एम ई
75271	अरुण एस नायर	इंजीनियर्स
75272	देशमुख उपेन्द्र दीपक	आर्टी
75273	कसरबदा रवितेजा	आर्टी
75274	नागरकर करन नितीन	इंजीनियर्स
75275	विश्वनाथ वी एस	इंजीनियर्स
75276	अनुभव सिन्हा	सिगनल्स
75277	सुमित कुमार तिवारी	इंजीनियर्स
75278	श्याम के एम	इंजीनियर्स
75279	राहुल बरेजा	इंजीनियर्स
75280	कार्थिक राजकुमार ए	इंजीनियर्स
75281	अरुण कुमार मिश्रा	इंजीनियर्स
75282	सौरभ गर्ग	इंजीनियर्स
75283	करन सिंह	ई एम ई
75284	मोहम्मद आयुब सुबेदार	ई एम ई
75285	राहुल व्यास	इंफैन्ट्री
75286	शुक्ला सुधांशु	इंजीनियर्स
75287	ऋषभ बाजपेई	इंजीनियर्स
75288	अर्जुन सूद	इंजीनियर्स
75289	राहुल नायर	ई एम ई
75290	मृणाल अग्रवाल	इंजीनियर्स
75291	शिवानंद सी हिप्पारागी	ई एम ई

आई सी सं	नाम	आर्म
75292	चिन्मय नायर	सिगनल्स
75293	निपुन सिरौही	ई एम ई
75294	रुपिदमन सिंह	ई एम ई

—14 दिसम्बर 2014—

आई सी सं	नाम	आर्म	मेजर दिनांक से
72959	अमृत पाल सिंह	इंफैंट्री	18 अक्टूबर 13
72960	राजीन्दर राठौर	आर्टी	18 अक्टूबर 13
72961	भास्कर जोशी	ए ओ सी	18 अक्टूबर 13
72962	सी एच जैकब	इंफैंट्री	18 अक्टूबर 13
72963	गुरमार सिंह	ए ए डी	18 अक्टूबर 13
72964	किशोर सिंह	आर्टी	18 अक्टूबर 13
72965	श्रीनिधि सी जे	ए ए डी	18 अक्टूबर 13
72966	सुनील कुमार	इंफैंट्री	18 अक्टूबर 13
72967	अंशुमन शर्मा	इंफैंट्री	18 अक्टूबर 13
72968	गिंसोनलाल तोनसिंह	इंफैंट्री	18 अक्टूबर 13
72969	महेन्दर सिंह	आर्टी	18 अक्टूबर 13
72970	अरुण कुमार वशिष्ट	ए सी	18 अक्टूबर 13
72972	नायर राजीव शशिधरन	इंफैंट्री	18 अक्टूबर 13
72973	योगेश लाड	इंफैंट्री	18 अक्टूबर 13
72974	ललित मोहन शर्मा	इंफैंट्री	18 अक्टूबर 13
72975	सुमित जोशी	ए एस सी	18 अक्टूबर 13
72976	उदयवीर सिंह सांगवान	ए ओ सी	18 अक्टूबर 13
73578	विक्रम मेहरा	आर्टी	22 अक्टूबर 14
73635	सत्य शरण आत्माराम	ई एम ई	20 अक्टूबर 12

स्पेशल कमीशन

कप्तान से मेजर

एसी सी सं	नाम	आर्म
00550	विजय फेड्रिक्स	आर्टी
00551	ब्रिजेश कुमार	ए सी
00552	प्रलय गंगोपाध्याय	सिग्नल्स
00553	विकास कुमार राणा	इंफैंट्री
00554	महेन्दर सिंह गौर	ए ए डी
00555	संजय कुमार	मैक
00556	राजीव के एस	आर्टी
00557	रवि रावत	इंफैंट्री
00558	विनय कुमार बी एम	आर्टी

एसी सी सं	नाम	आर्म
00559	राजेश कुमार पाल	ई एम ई
00560	उमेद सिंह राणा	इंफैन्ट्री
00561	संजय कुमार टी	आर्टी
00562	विरेन्द्र सिंह	इंफैन्ट्री
00563	राजीव कुमार सिंह	इंजीनियर्स

—07 जून 2014—

00564	राजेश कुमार सिंह चौहान	इंफैन्ट्री
00565	अश्वनी कुमार	इंफैन्ट्री
00566	कोप्पुला सत्यनारायणा	ए ए डी
00567	प्रदीप एम	इंजीनियर्स
00568	रुप सिंह नेगी	इंफैन्ट्री
00569	राजीव रंजन	ई एम ई
00570	श्रीजेश एस	आर्टी
00571	विनोद कादियान	ए सी
00572	आश्रम प्रसाद शर्मा	सिगनल्स
00573	आनंद जी पनीक्कर	इंजीनियर्स
00574	मोहन चंद्रा	इंफैन्ट्री
00575	हरप्रीत सिंह	आर्टी
00576	रविन्द्र सिंह तंवर	इंजीनियर्स
00577	अमर नाथ	आर्टी
00578	मधु ए टी	ई एम ई
00579	जडेजा भागीरथ	ई एम ई
00580	राज किशोर कनवासी	आर्टी
00581	सोमेन्द्र कुमार शर्मा	इंफैन्ट्री
00582	सौरभ चक्रवर्ती	इंफैन्ट्री
00583	दुर्लव कुमार मेधी	आर्टी
00584	मूरकनानीथील एंथोनी जॉय	इंफैन्ट्री
00585	राजकुमार शर्मा	मैक

—13 दिसम्बर 14—

अल्पकालीन सेवा कमीशन

कप्तान से मेजर

एए एस सं	नाम	आर्म	प्रारंभिक वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	मेजर दिनांक से
44255	मंजू देवी	सिगनल्स	21 सितम्बर 08	एस एस सी डब्ल्यू-04 (टेक)	21 अक्टूबर 08	21 अक्टूबर 14

स्थायी कमीशन
ले. से कप्तान

आई सी नं.	नाम	आर्म	कप्तान दिनांक से
72959	अमृत पाल सिंह	इन्फैन्ट्री	18 अक्टूबर 2009
72960	राजेन्द्र राठौर	आर्टी	18 अक्टूबर 2009
72961	भास्कर जोशी	ए ओ सी	18 अक्टूबर 2009
72962	सी एच जेकब	इन्फैन्ट्री	18 अक्टूबर 2009
72963	गुरअमर सिंह	ए ए डी	18 अक्टूबर 2009
72964	किशोर सिंह	आर्टी	18 अक्टूबर 2009
72965	श्रीनिधि सि जे	ए ए डी	18 अक्टूबर 2009
72966	सुनील कुमार	इन्फैन्ट्री	18 अक्टूबर 2009
72967	अन्शुमान शर्मा	इन्फैन्ट्री	18 अक्टूबर 2009
72968	गिनसोनलाल तोनसिंग	इन्फैन्ट्री	18 अक्टूबर 2009
72969	महेन्द्र सिंह	आर्टी	18 अक्टूबर 2009
72970	अरुण कुमार वशिष्ठ	ए सी	18 अक्टूबर 2009
72972	नायर राजीव शशिधरन	इन्फैन्ट्री	18 अक्टूबर 2009
72973	योगेश लाद	इन्फैन्ट्री	18 अक्टूबर 2009
72974	ललित मोहन शर्मा	इन्फैन्ट्री	18 अक्टूबर 2009
72975	सुमित जोशी	ए एस सी	18 अक्टूबर 2009
72976	उदयवीर सिंह सांगवान	ए ओ सी	18 अक्टूबर 2009
73578	विक्रम मेहरा	आर्टी	22 अक्टूबर 2010
73635	सत्य शरण आत्माराम	ई एम ई	20 अक्टूबर 2008
73640	तकदीर सिंह	इन्फैन्ट्री	20 अप्रैल 2011
73641	राकेश शाह	इन्फैन्ट्री	20 अप्रैल 2011
73649	कविन्दर गुरुंग	इन्फैन्ट्री	20 अप्रैल 2011
73661	विशाल गुलेरिया	इन्फैन्ट्री	20 अप्रैल 2011
73695	अंकुश सिंह	आर्टी	20 अप्रैल 2011
73701	अभिषेक भूटानी	आर्टी	20 अप्रैल 2011
73716	अतुल कुमार	मेक	20 अप्रैल 2011
73747	राहुल कुमार	इंजिनियर्स	20 अप्रैल 2011

आई सी सं.	नाम	आर्म
77078	विक्रम	इन्फैन्ट्री
77079	सुदीप कुमार	इन्फैन्ट्री
77080	धर्मपाल सिंह	इन्फैन्ट्री

आई सी सं.	नाम	आर्म
77081	अविनाश पाण्डेय	इन्फैन्ट्री
77082	कृष्णकान्त जोशी	एविएशन
77083	निशीत डोगरा	एसी
77084	प्रवीन कुमार सिंह	ईएमई
77085	दिग्विजय शर्मा	इंजिनियर्स
77086	कल्ला राम सिंह	एएससी
77087	दुष्यंत बक्शी	आर्टी
77088	राहुल गौतम	मैक
77089	मुकेश कुमार शर्मा	एओसी
77090	प्रीतम सिंह रावत	आर्टी
77091	चन्द्रकान्त सिंह मलड़ा	एसी
77092	नरेन्द्र राणा	आर्टी
77093	अलंकार थोरात	आर्टी
77094	सुनील पटेल	आर्टी
77095	कपिल कुमार फौगाट	सिग्नल्स
77096	महेन्द्र गौड के	इन्फैन्ट्री
77097	दीपक रेडू	इन्फैन्ट्री
77098	आकाश शेखावत	आर्टी
77099	नवीन कुमार	एएससी
77100	सुनील श्योराण	इन्फैन्ट्री
77101	विश्व विजय शर्मा	इंजिनियर्स
77102	हाउ लिअन पाउ सुअन्ते	इन्फैन्ट्री
77103	कोलेकर प्रवीन गोवर्धनराव	एसी
77104	नवीन कुमार	इन्फैन्ट्री
77105	शशी कुमार	इन्फैन्ट्री
77106	सुभाष चन्द्र	आर्टी
77107	धीरेन्द्र सिंह राठौड़	आर्टी
77108	अरुण कुमार	इंजिनियर्स
77109	दिवेकर सौरभ सदानंद	आर्टी
77110	राजू सिंह	इन्फैन्ट्री
77111	अरुणोदय कुमार सिंह	एएससी
77112	श्याम कृष्णन एस	सिग्नल्स
77113	सुरेन्द्र सिंह राठौड़	आर्टी

आई सी सं.	नाम	आर्म
77114	प्रदीप कुमार	मैक
77115	पंकज सिंह	इन्फैन्ट्री
77116	सनी कुमार अत्री	इंजिनियर्स
77117	हरमन दीप सिंह	एएडी
77118	चन्द्र भूषण उपाध्याय	आर्टी
77119	हिमांशु सिंह बिष्ट	एओसी
77120	रवि कान्त गौरव	इन्फैन्ट्री
77121	प्रकाश मीणा	सिग्नल्स
77122	दीपक कुमार मलिक	ईएमई
77123	अनुभव वत्सायन	इन्फैन्ट्री
77124	ब्रजेश कुमार	आर्टी
77125	ईशान सिंह डौड	आर्टी
77126	विकास उपाध्याय	इंजिनियर्स
77127	हरविन्दर भारद्वाज	इन्ट
77128	सोनार श्वेतल देविदास	एएडी
77129	विक्रम देव सिंह	एएससी
77130	अमित	इन्फैन्ट्री
77131	मनोज कुमार माकोर	एसी
77132	नितिन थपलियाल	आर्टी
77133	कुमार गौरव डोगरा	इन्फैन्ट्री
77134	शिलादित्य सिंह राणावत	इन्फैन्ट्री
77135	असद खान एम एच	आर्टी
77136	जय सिंह	आर्टी
77137	सचिन परमार	इन्फैन्ट्री
77138	रमेश सागवॉन	इन्फैन्ट्री
77139	मोहित दत्त सिंह	आर्टी
77140	भानू प्रताप कपिलाश्रमी	इन्फैन्ट्री
77141	सिवाकुमार रेड्डी ए	ईएमई
77142	कुलकर्णी सुरज राघवेंद्र	आर्टी
77143	अभिषेक कुमार	इन्ट
77144	मनोज भंडारी	मैक
77145	मंयक शुक्ला	इन्फैन्ट्री
77146	अप्पय्या एम सी	इन्फैन्ट्री

आई सी सं.	नाम	आर्म
77147	जनक सुहाग	एओसी
77148	चिराग जैन	आर्टी
77149	मोहित मलिक	इंजिनियर्स
77150	अरमान वरन ओहरी	एसी
77151	बलजिन्दर सिंह	इन्फैन्ट्री
77152	करनपुनित सिंह	इंजिनियर्स
77153	ओंकार सिंह	आर्टी
77154	ध्रुव मोहन ढींगरा	इन्फैन्ट्री
77155	उत्तेकर सचिन सुरेश	आर्टी
77156	गणेश मेहरा	आर्टी
77157	अजय चँद	एएससी
77158	मनोज गोदारा	एएससी
77159	ज्योतिष्क तिवारी	एएडी
77160	सुमित शर्मा	सिग्नल्स
77161	सागर विजय पाटील	आर्टी
77162	अभिमन्यू सिंह निर्वाण	इन्फैन्ट्री
77163	प्रदीप सिंह बनकोटी	इन्फैन्ट्री
77164	आदित्य भदौरिया	इन्फैन्ट्री
77165	अभिषेक शर्मा	आर्टी
77166	सि०ार्थ बोरा	एएडी
77167	आकाश त्रिपाठी	इन्फैन्ट्री
77168	राजेन्द्र कुमार यादव	एएडी
77169	तिवारी प्रवेशकुमार कमलाकान्त	एएससी
77170	रत्नेश कुमार सिंह	आर्टी
77171	सचिन लक्ष्मण राठौड़	आर्टी
77172	दीपेन्द्र सिंह खीची	आर्टी
77173	अम्बरीश राजा मिश्रा	इन्फैन्ट्री
77174	राजा राम	इंजिनियर्स
77175	विजय कुमार चौबे	इन्फैन्ट्री
77176	दिग्विजय सिंह चौहान	इन्फैन्ट्री
77177	दिग्विजय सिंह ठाकुर	मैक
77178	कौशल पन्त	ईएमई
77179	शेर सिंह राणावत	इन्फैन्ट्री

आई सी सं.	नाम	आर्म
77180	संदीप पठानिया	एओसी
77181	अर्पित गुलेरिया	सिग्नल्स
77182	दीपक कुमार सिंह	इंजिनियर्स
77183	मैनाक गांगुली	एएससी
77184	हरि प्रकाश	इन्फैन्ट्री
77185	पीयूष मट्टु	इन्ट
77186	बंडगर अजिंक्य राजाराम	आर्टी
77187	संदीप कुमार	एएडी
77188	संदेश सदाशिव मोरे	आर्टी
77189	कुणाल पाण्डे	एएडी
77190	गोविन्द शुक्ला	इन्फैन्ट्री
77191	प्रवीन कुमार यादव	आर्टी
77192	जयदीप रावत	इंजिनियर्स
77193	नितेश विज	एसी
77194	प्रशान्त	इन्फैन्ट्री
77195	बिन्दुशेखर सिंह	इन्फैन्ट्री
77196	शेखर थापा	एओसी
77197	राहुल यादव	आर्टी
77198	रंजीत कुमार सिंह	आर्टी
77199	प्रवीन कुमार	इन्फैन्ट्री
77200	शिवम मित्तल	एसी
77201	धर्मबीर सिंह	इन्फैन्ट्री
77202	आशुतोष कुमार	इंजिनियर्स
77203	राजमोहन आचार्य	आर्टी
77204	प्रवीण कुमार	आर्टी
77205	पूरन तमांग	आर्टी
77206	ईशान धीमान	इन्फैन्ट्री
77208	देवांश मिश्रा	एएससी
77209	विकास कुमार	इन्फैन्ट्री
77210	दीक्षांत कुमार गुप्ता	आर्टी
77211	कुलदीप सिंह	आर्टी
77212	अभिषेक	ईएमई

आई सी सं.	नाम	आर्म
77213	संतोष मुतुम	एएससी
77214	राहुल खजूरिया	इन्फैन्ट्री
77215	विवेक तोमर	इंजिनियर्स
77216	रमन ठाकुर	सिग्नल्स
77217	अभिषेक जयपाल बनवणे	एओसी
77218	अमित सिंह	आर्टी
77219	मोहिन नवाज	इन्फैन्ट्री
77220	सुमित शर्मा	इन्फैन्ट्री
77221	प्रिंस कुमार सिंह	इन्फैन्ट्री
77222	यमक भारद्वाज	एसी
77223	गुलजार अहमद मीर	मैक
77224	योगेन्द्र यादव	एएडी
77225	भूवनेश कर्मचन्दानी	आर्टी
77226	विक्रम सिंह	ईएमई
77227	सागर थापा	इन्फैन्ट्री
77228	योगेश कुमार	आर्टी
77229	नीरज भारद्वाज	आर्टी
77230	सुरज कुमार पांडा	इन्ट
77231	प्रीतम मिश्रा	एसी
77232	सजल कुमार यादव	ईएमई
77233	कुलदीप सिंह तंवर	इन्फैन्ट्री
77234	रणदीप सिंह	इन्फैन्ट्री
77235	बीरेन्द्र सिंह	इन्फैन्ट्री
77236	सुधाकर प्रसाद एस	आर्टी
77237	महेन्द्र सागर	आर्टी
77238	अनिश चन्द्रन सी	आर्टी
77239	कदम वैभव कृष्णा	इन्फैन्ट्री
77240	वीर विक्रम कसबाँ	इन्फैन्ट्री
77241	जयदीप	इन्फैन्ट्री
77242	विकरांत मेहता	आर्टी
77243	वीएस रवि	एएससी
77244	विक्रम कुमार झा	एएडी
77245	गौरव कौशल	एएडी

आई सी सं.	नाम	आर्म
77246	सब्यसाची पंडा	ईएमई
77247	अंकुर ठाकुर	इन्फैन्ट्री
77248	पवनदीप सिंह	एएससी
77249	मरुवाड़ा मानस	इन्फैन्ट्री
77250	दिग्विजय सिंह	मैक
77251	राम कुमार वी	इन्फैन्ट्री
77252	पाटील आकाश महादेव	इंजिनियर्स
77253	शिव परम सिंह	आर्टी
77254	वैसाख वी बी	सिग्नल्स
77255	कोना लक्ष्मी नारायण गंगाधर	आर्टी
77256	विजय सिंह	आर्टी
77257	प्रणित निवार	इंजिनियर्स
77258	पूरन सिंह	एओसी
77259	प्रथमेश प्रदीप जोशी	इंजिनियर्स
77260	रॉबिन एब्रहाम	इन्फैन्ट्री
77261	भुवनेश पाण्डेय	इन्फैन्ट्री
77262	श्रीकांत दत्तात्रे गोरे	इन्फैन्ट्री
77263	दिव्यांश सिंह	एएडी
77264	अजय	इन्फैन्ट्री
77265	विपिन कुमार यादव	आर्टी
77266	संजीव कुमार	आर्टी
77267	कुरहाडे सुमित उत्तम	आर्टी
77268	उज्जैन सुजीतसिंह रामबिलाससिंह	एओसी
77269	अखिलेश सिंह	सिग्नल्स
77270	प्रेम सिंह रावत	इन्फैन्ट्री
77271	धीरज सतीजा	इन्फैन्ट्री
77272	कण्व अरवारी	मैक
77273	किसलय राठौर	इन्फैन्ट्री
77274	ययॉक नैथानी	ईएमई
77275	अमित चौधरी	इन्फैन्ट्री
77276	साहिल भारद्वाज	सिग्नल्स
77277	बरुण कुमार	आर्टी
77278	मोहिते विजेन्द्र शान्ताराम	आर्टी

आई सी सं.	नाम	आर्म
77279	नवीन कुमार मलिक	एओसी
77280	राम लखन तेवतिया	इंजिनियर्स
77281	अविनाश कुमार	एएससी
77282	हरप्रीत सिंह	आर्टी
77283	बिजेन्द्र सिंह	एएससी
77284	नरेन्द्र सिंह वर्मा	आर्टी
77285	विश्रुत एस पगार	इन्फैन्ट्री
77286	जनार्दन गायकवाड़	इंजिनियर्स
77287	रोहन अय्यर	इन्फैन्ट्री
77288	गौरव सिंह	एसी
77289	प्रदीप रावत	इन्ट
77290	विकल नागपाल	आर्टी
77291	साहिल शर्मा	इन्फैन्ट्री
77292	दत्तात्रेय आर बिराजदार	एएससी
77293	अमन	इंजिनियर्स
77294	अजय कुमार	मैक
77295	संतोष एस आर	इन्फैन्ट्री
77296	गौरव सिंह	इन्फैन्ट्री
77297	शैलेश पाण्डेय	इन्फैन्ट्री
77298	सिद्धार्थ सरकार	आर्टी
77299	जयेश कुमार चन्देल	सिग्नल्स
77300	रोहित मसीह	इन्फैन्ट्री
77301	विक्रम दत्त	ईएमई
77302	हरेन्द्र सिंह चौहान	आर्टी
77303	आशीष सिंह चन्देल	एओसी
77304	नमन नरुला	इंजिनियर्स
77305	मनप्रीत सिंह	आर्टी
77306	उदयवीर सिंह राणा	आर्टी
77307	एम नागार्जुन रेड्डी	ईएमई
77308	ऋषभ राज	आर्टी
77309	सतेन्द्र कुमार	एओसी
77310	वी मनोज कुमार	इन्फैन्ट्री
77311	सुशील कुमार थापा	इन्फैन्ट्री

आई सी सं.	नाम	आर्म
77312	कार्तिकेय	इंजिनियर्स
77313	महेन्द्र सिंह	एएससी
77314	अंकुश राणा	एओसी
77315	शीतलेन्द्र प्रताप मिश्रा	इन्फैन्ट्री
77316	भीम राज भंडारी	इन्फैन्ट्री
77317	पंकज कुमार	आर्टी
77318	दीप करन बस्सी	इन्फैन्ट्री
77319	हरि नारायण पाल	इन्फैन्ट्री
77320	सूरज राणा	इन्फैन्ट्री
77321	जितेन्द्र कुमार मिश्रा	आर्टी
77322	आशीष शुक्ला	आर्टी
77323	अमरजोत सिंह	एसी
77324	अपूर्व तिवारी	आर्टी
77325	हीरा सिंह	एएससी
77326	अरुण राहड़	एएडी
77327	चंचल सिंह	आर्टी
77328	अनिल कुमार	आर्टी
77329	मुरली अल्लू	ईएमई
77330	काले पुष्कर नारायण	आर्टी
77331	कुन्दन कुमार	आर्टी
77332	एन कार्तिक रेड्डी	इंजिनियर्स
77333	पी मुरलीकृष्णा राव	मैक
77334	प्रसून शर्मा	इन्फैन्ट्री
77335	प्रवीण नायर	आर्टी
77336	आदित्य मलिक	इंजिनियर्स
77337	नवीन	इन्फैन्ट्री
77338	गौतम एस	एओसी
77339	राज कुमार थापा	एएससी
77340	सुखदीप सिंह	इन्फैन्ट्री
77341	अंकित राणा	इन्फैन्ट्री
77342	जतिन पब्बी	आर्टी
77343	राजा साकेत	इन्फैन्ट्री
77344	अपूर्व ए पाण्डेय	ईएमई

आई सी सं.	नाम	आर्म
77345	सपकाल प्रभूदास बलिराम	सिग्नल्स
77346	दीपक सिंगल	एओसी
77347	परम हंस	एएडी
77348	अच्युत आर नायर	आर्टी
77349	के वी वी एन वी जे रामा चरण तेजा	एएससी
77350	सिंह विवेककुमार कमलप्रताप	इंजिनियर्स
77351	किशोर सिंह	इन्फैन्ट्री
77352	श्रीनिधि जी	सिग्नल्स
77353	रोहित सिंह राठौड़	आर्टी
77354	दिगम्बर सिंह	इन्फैन्ट्री
77355	विनायक विजय	इन्फैन्ट्री
77356	विजय पँवार	एसी
77357	अमित लखेड़ा	मैक
77358	अजहर माजिद	इन्फैन्ट्री
77359	अरासर के देव जामवाल	आर्टी
77360	शुभाशिष पॉल योंगी	आर्टी
77361	मोहिन्दर प्रताप सिंह	एसी
77362	आशीष राणा	एएससी
77363	विशाल शर्मा	इन्फैन्ट्री
77364	किशोर जीत बरूआ	इन्फैन्ट्री
77365	निर्मल सिंह	इन्फैन्ट्री
77366	बोलगानि किरन कुमार	एएडी
77367	विवेक कुमार सिंह यादव	एविएशन
77368	नीरज पाठक	आर्टी
77369	राहुल बिस्वा	इन्फैन्ट्री
77370	वासनिक मनीष एकनाथराव	इंजिनियर्स
77371	उपिन्दर सिंह	इन्फैन्ट्री
77372	रोहित नय्यर	एसी
77373	चेतन प्रजापति	आर्टी
77374	सौरभ पाण्डेय	ईएमई
77375	धीरज सिंह हयॉकी	इन्फैन्ट्री
77376	शक्ति स्वरूप मिश्रा	एएडी
77377	अखिल राणा	इन्फैन्ट्री

आई सी सं.	नाम	आर्म
77378	नीलम प्रधान	इंजिनियर्स
77379	मिश्रा शीतल ललित	आर्टी
77380	सी0एच जे डी हरी कृष्णा	इंजिनियर्स
77381	धनन्जय सिंह	एएससी
77382	पीयूष शर्मा	आर्टी
77383	साठे आलोक प्रसन्ना	इन्फैन्ट्री
77384	सचिन कुमार	एएडी
77385	राम मोहन	एओसी
77386	नीरज कुमार	आर्टी
77387	परांजपे अजिक्थ सुनील	इन्फैन्ट्री
77388	दीपक सिंह नेगी	इन्फैन्ट्री
77389	सुधेन्दु द्विवेदी	आर्टी
77390	संदीप सिंह	इन्फैन्ट्री
77391	अमित कुमार	इन्फैन्ट्री
77392	सचिन कुमार शर्मा	आर्टी
77393	अभिमन्यु सिंह	मैक
77394	अरुण कुमार सिंह	इन्फैन्ट्री
77395	गगनदीप सिंह सोहल	इन्फैन्ट्री
77396	दुष्यन्त सिंह	एसी
77397	योगेश फगेडिया	एएससी
77398	विक्रांत	इन्फैन्ट्री
77399	तरुण	इंजिनियर्स
77400	हरमनदीप सिंह महल	एओसी
77401	बलेन्द्र कुमार पाण्डेय	आर्टी
77402	इन्दरप्रीत सिंह	इन्फैन्ट्री
77403	विवेक कुमार पंत	ईएमई
77404	गुरु दत्त	सिग्नल्स
77405	दूडपाका साई कृष्णा	आर्टी
77406	सुजान एस बेनर्जी	आर्टी
77407	सुमित सिंह	आर्टी
77408	कमल लोचन साहु	ईएमई
77409	अभिनव माहना	इन्फैन्ट्री
77410	अंकित थपलियाल	आर्टी

आई सी सं.	नाम	आर्म
77411	कँवलपाल सिंह कहलों	आर्टी
77412	रवि कुमार पेंटकोट	इंजिनियर्स
77413	प्रसून पाण्डे	इन्फैन्ट्री
77414	रोहित नायर	एसी
77415	लोकेन्द्र सिंह तोमर	ए एस सी
77416	योगेश कुमार	एएडी
77417	सौरभ वर्मा	एओसी
77418	प्रभात सिंह राघव	इन्फैन्ट्री
77419	लैहाओरुबम धनश्याम सिंह	आर्टी
77420	रुद्र बहादुर थापा	इन्फैन्ट्री
77421	गर्वित पाण्डे	इन्फैन्ट्री
77422	दीप कुमार थापा	इंजिनियर्स
77423	पारस कँवर	ईएमई
77424	विकास धौचक	इंजिनियर्स
77425	सूर्यया कान्त दास	आर्टी
77426	रमेश चन्द्र जोशी	इन्फैन्ट्री
77427	निपुण पराशर	सिग्नल्स
77428	दयानन्द नानगोथम्बम	इन्फैन्ट्री
77429	वेरी जॉय कप्फोह	इन्फैन्ट्री
77430	विजय सिंह राठौर	इन्फैन्ट्री
77431	रोहन शर्मा	एएससी
77432	प्रषिल पुरुषोत्तमन्	आर्टी
77433	कापशीकर विशाल शशांक	एएडी
77434	विवेक सोलंकी	इन्ट
77435	मनु पाण्डे	मैक
77436	धारपुरे मोहित आनन्द	मैक
77437	रबीश ए	आर्टी
77438	दलजीत सिंह	एसी
77439	अनिरुद्ध कुमार जैन	एओसी
77440	कुनाल कश्यप	आर्टी
77441	उत्सव सूर्यवंशी	इन्फैन्ट्री
77442	सलमान खान सलमानी	इंजिनियर्स
77443	अरुण सिंह	इन्ट

आई सी सं.	नाम	आर्म
77444	अमृत पाल सिंह राठौड़	इन्फैन्ट्री
77445	परमार चिंतन नरेन्द्र	आर्टी
77446	मनीष सिंह तनवर	सिग्नल्स
77447	हितेश कुमार सोनिक	आर्टी
77448	प्रवीन कुमार यादव	ईएमई
77449	सौरव सिंह जादौन	आर्टी
77450	गौतम एच एस	आर्टी
77451	आशीत आनन्द	आर्टी
77452	दिनकर सिंह नेगी	एविएशन
77453	आलोक कुमार सिंह	आर्टी
77454	अमरदीप त्यागी	इन्फैन्ट्री
77455	पुष्पेन्द्र कुमार	इन्फैन्ट्री
77456	संजय कुमार श्योराण	एसी
77457	विश्वास शर्मा	आर्टी
77458	निखिल चन्देल	एएससी
77459	चंदन सिंह नेगी	आर्टी
77460	पंकज कुमार	इन्फैन्ट्री
77461	जयन्त चौधरी	एएससी
77462	आनंद बुटोलिया	इन्फैन्ट्री
77463	जे एन नंदकुमार	इन्फैन्ट्री
77464	राजेश तिवारी	सिग्नल्स
77465	राजेन्द्र सिंह	एएडी
77466	साजिन एस	आर्टी
77467	नरेन्द्र कुमार	इन्फैन्ट्री
77468	सुरेश बाबू आर	आर्टी
77469	सिद्धार्थ हेग्ड़े	इन्फैन्ट्री
77470	उपेन्द्र सिंह	एसी
77471	रूपक कुमार राय	मैक
77472	प्रशान्त कुमार शुक्ला	इंजिनियर्स
77473	सिद्धार्थ भाटिया	इन्फैन्ट्री
77474	राहुल कुमार मिश्रा	इंजिनियर्स
77475	युवराज सिंह रावत	आर्टी
77476	सौरभ बासु	इन्फैन्ट्री

आई सी सं.	नाम	आर्म
77477	भुवन श्री राठौर	आर्टी
77478	केतन शर्मा	इंजिनियर्स
77479	डॉन बॉस्को फ्रान्सीस	एएडी
77480	अमन चोटानी	आर्टी
77481	अजय ई	इन्फैन्ट्री
77482	अमरदीप कुमार बरनवाल	इन्फैन्ट्री
77483	शिराज वर्मा	आर्टी
77484	भूपेन्द्र सिंह	ईएमई
77485	देवान्जन भट्टाचार्य	आर्टी
77486	नवीन नेगी	एएडी
77487	रोहित श्योराण	इन्फैन्ट्री
77488	हिम्मत सिंह	इन्फैन्ट्री
77489	लिजो जोस	इन्फैन्ट्री
77490	राजर्षी चौधरी	इन्फैन्ट्री
77491	खुन्दरकपम जोतिन सिंह	एएससी
77492	शान्तनू सिंह	आर्टी
77493	अमित सिंह	एएससी
77494	विवेक भट्ट	इन्फैन्ट्री
77495	ऋषभ भारद्वाज	एओसी
77496	राहुल दत्ता	आर्टी
77497	अमित कुमार ठाकुर	सिग्नल्स
77498	आशय पाल	एएडी
77499	सौरव शर्मा	आर्टी
77500	नरेन्द्र	एविएशन
77501	सुशील कुमार	इन्फैन्ट्री
77502	पंकज चौहान	ई एम ई
77503	नीरज कुमार	ई एम ई
77504	पुनीत शर्मा	इंजिनियर्स
77505	अनुज महंत	इन्फैन्ट्री
77506	इरेंगबम ग्रेगरी सिंह	ई एम ई
77507	मनीष कुमार	सिग्नल्स
77508	आनंद प्रकाश मिश्रा	इंजिनियर्स
77509	अमन कुमार	सिग्नल्स

आई सी सं.	नाम	आर्म
77510	सौरभ पाठक	ए सी
77511	सुशील कुमार यादव	इंजिनियर्स
77512	जयेश राणा	इंजिनियर्स
77513	अनिल कुमार	सिग्नल्स
77514	गिरीश चंद रमोला	इन्फैन्ट्री
77515	जीवितेश	इंजिनियर्स
77516	रवि सांगवान	इंजिनियर्स
77517	दमनदीप सिंह	सिग्नल्स
77518	अमित कुमार सिंह	ए ओ सी
77519	सचिन सिंह कुत्तल	ए ओ सी
77520	आशुतोष कुमार मिश्रा	ई एम ई
77521	टि राकेश	इंजिनियर्स
77522	रंधीर सिंह	इन्फैन्ट्री
77523	अनुपम तिवारी	सिग्नल्स
77524	अंकुश पान्डेय	मैक इन्फैन्ट्री
77525	आशीष रावत	सिग्नल्स
77526	उमेश कुमार राघव	ई एम ई
77527	डी वी कार्तिकेयन	ई एम ई
77528	विपुल कौशिक	मैक इन्फैन्ट्री
77529	अतुल भारद्वाज	इंजिनियर्स
77530	भानू प्रताप सिंह	सिग्नल्स
77531	अविनाश कुमार श्रीवास्तव	इंजिनियर्स
77532	सिद्धेश आर कुंभार	इंजिनियर्स
77533	वरुण शुक्ला	आर्टी
77534	अमित गुंडाप्पा कुंभार	इंजिनियर्स
77535	विनय कुमार ठाकुर	ई एम ई
77536	कौजेंबम बिजेन्द्र सिंह	ए ए डी
77537	बैकुण्ठ कौशिक	ई एम ई
77538	सागर गौतम	ई एम ई
77539	हर्ष टेंगर	इन्फैन्ट्री
77540	किशन मिश्रा	सिग्नल्स
77541	सुमित	सिग्नल्स
77542	महाजन ओंकार किरण	इंजिनियर्स

आई सी सं.	नाम	आर्म
77543	गुंजन कुमार	इंजिनियर्स
77544	शीतल सिंह	ई एम ई
77545	विकास चलोत्रा	सिग्नल्स
77546	गौरव तिवारी	इंजिनियर्स
77547	हिमान्शु यादव	ए ए डी
77548	दीक्षांत मान	ई एम ई
77549	कश्यप कुमार	ई एम ई
77550	विनय चन्द्रा	ई एम ई
77551	रितेश यादव	ई एम ई
77552	गुरजयोत सिंह देयोल	आर्टी
77553	पंकज मडाड	इंजिनियर्स
77554	रोहित कुमार	ई एम ई
77555	चन्दन कुमार	सिग्नल्स
77556	अकुर शर्मा	सिग्नल्स
77557	विश्वजीत राणा	ए ओ सी
77558	प्रमोद प्रसाद	इन्फैन्ट्री
77559	रवि कुमार शुक्ला	सिग्नल्स
77560	सानु मंडल	ई एम ई
77561	राहुल अरोडा	ए ए डी
77562	अनुज कुमार शर्मा	ई एम ई
77563	पंकज शर्मा	सिग्नल्स
77564	हरप्रीत सिंह	इंजिनियर्स
77565	अनूप सिंह गहल्याण	सिग्नल्स
77566	योगेश पाण्डेय	इंजिनियर्स
77567	निखिल धीमान	इंजिनियर्स
77568	त्रिलोक सिंह खेरवाल	इंजिनियर्स
77569	अनुग्रह कुकरेती	आर्टी
77570	शशि नाथ भगत	सिग्नल्स
77571	संदीप यादव	ई एम ई
77572	देशदीपक बहल	इंजिनियर्स
77573	युगल शर्मा	इन्फैन्ट्री
77574	अभिषेक आर	इन्फैन्ट्री
77575	अजीज खान	ए सी

आई सी सं.	नाम	आर्म
77576	अभिमन्यु सिंह शेखावत	सिगनल्स
77577	वरुण जीत सिंह	ई एम ई
77578	मुकेश खनका	इन्फैन्ट्री
77579	राजदीप कपूर	सिगनल्स
77580	दीपक कुमार यादव	ए ओ सी
77581	मनीष कुमार	ई एम ई
77582	पंकज धामी	सिगनल्स
77583	सायक मित्र	इंट
77584	एम वाहिद जानी	मैक इन्फैन्ट्री
77585	शेंडकर हेमंत सोपान	आर्टी
77586	उमेश शर्मा	इन्फैन्ट्री
77587	ठोसर अश्वजीत अभयकुमार	आर्टी
77620	हनुमानथु संतोश कुमार	ए ई सी

—08 दिसम्बर 2014 —

78126	गादिला सिद्धार्थ रेड्डी	सिगनल्स
78161	निलय कुमार	ए सी
78214	राहुल शर्मा	सिगनल्स
78237	राहुल धर्मावत	इंट
78270	नितिन बिष्ट	इंजिनियर्स
78271	गोविन्द धिनटाला	ई एम ई
78319	एस गुहान	सिगनल्स

&&10 tu 2014&&

78830	रतन सिंह	सिगनल्स
78831	दिनेष चंद	आर्टी
78832	हरदीप सिंह	इन्फैन्ट्री
78834	वासुदेवन वी इलायत	आर्टी
78835	अविनाश सहरावत	इंजिनियर्स
78838	अनुज कुमार	ईएमई
78839	विशाल शर्मा	इन्फैन्ट्री
78840	सूरज मिश्रा	ई एम ई
78841	अंकुर कुमार पाल	इन्फैन्ट्री
78842	आलोक प्रताप सिंह	ए ए डी
78843	जोतपाल सिंह चीमा	एसी
78844	विनीत रुहिल	सिगनल्स

आई सी सं.	नाम	आर्म
78845	प्रभजोत सिंह सैनी	इन्फैन्ट्री
78846	हरमीत सिंह रंधावा	इंजिनियर्स
78847	गौरव रघुवंशी	सिगनल्स
78848	ऋषभ पटियाल	सिगनल्स
78849	शैलेन्द्र कुमार	आर्टी
78850	विवेक सहरावत	सिगनल्स
78852	गौरव कुमार	एविएशन
78853	जसप्रीत सिंह जांगला	आर्टी
78854	अनुज चोपड़ा	इन्फैन्ट्री
78856	आलविन सगाया राज डी	इंजिनियर्स
78857	गौरव बापट	इन्फैन्ट्री
78858	मयंक गुप्ता	इंजिनियर्स
78859	रोहित कुमार सिंह	आर्टी
78860	आशीष हुड्डा	मैक इन्फैन्ट्री
78861	तारु अग्रवाल	इन्फैन्ट्री
78862	तेजेन्दर मलिक	ई एम ई
78863	राहुल धीमन	ई एम ई
78864	दीपक यादव	आर्टी
78865	कनोजिया भरत कल्लुलाल	इन्फैन्ट्री
78867	रवि त्रिपाठी	इंजिनियर्स
78868	दीपांकर मिगलानी	इन्फैन्ट्री
78869	बालगोपाल पी एम	ईएमई
78870	मो शहवाज आलम	इन्फैन्ट्री
78871	निपुण कुमार	इंजिनियर्स
78872	राहुल शर्मा	आर्टी
78873	केशव सिंह	इन्फैन्ट्री
78874	कंवरबीर सिंह धोत	एसी
78875	सचिव कश्यप बी के	आर्टी
78876	जयदेव सिंह चोपावत	इंजिनियर्स
78877	मयंक अशोक	ईएमई
78879	हविन्दर कुमार	ई एम ई
78880	साहिल चावला	सिगनल्स
78881	राहुल कुमार पांडे	इन्ट
78882	नीरज कुमार	इन्फैन्ट्री

आई सी सं.	नाम	आर्म
78883	जोशी मंगेश शरद	ई एम ई
78884	चेतन्य दलाल	एओसी
78885	संदीप मेहता	इन्फैन्ट्री
78886	सर्वेश आगार	ईएमई
78887	रोबिन त्यागी	एओसी
78888	विनित बिन्दाल	ए ओ सी
78889	बाबर लियाकत	सिगनल्स
78890	विक्रम सिंह	इंजिनियर्स
78891	करन शर्मा	एसी
78892	जगाती रुद्रा भुवन	आर्टी
78894	अनिल कुमार शर्मा	ए एस सी
78895	कमल स्वैन	इंजिनियर्स
78896	भुपिन्दर सैनी	ई एम ई
78897	अवतार सिंह नरवाल	एविएशन
78901	एस नरेश	ई एम ई
78902	इशान वशिष्ट	इंजिनियर्स
78903	हिमांशु चौधरी	एओसी
78904	प्रशान्त सिंह	सिगनल्स
78905	निखिल माधव सावंत	इंजिनियर्स
78907	परथ प्रबल	इंजिनियर्स
78908	चंदन सिंह मेहता	इन्फैन्ट्री
78909	प्रतीक श्रीवास्तव	ईएमई
78910	विवेक आनंद गुप्ता	इन्फैन्ट्री
78911	विकास राणा	आर्टी
78912	एजिलन टी	इन्फैन्ट्री
78913	अनुराग कुमार	इंजिनियर्स
78915	दिनेश कुमार यादव	आर्टी
78916	बिजौय कुमार चेतिया	एएससी
78917	पुनीत मौण	इंजिनियर्स
78918	प्रतीक सिंह राव	सिगनल्स
78919	निमित निरौला	ए ए डी
78920	गुरुचरण आर वी	इंजिनियर्स
78921	ऋशि राज मलिक	इन्फैन्ट्री
78922	तखेलमयुम शतीश	सिगनल्स

आई सी सं.	नाम	आर्म
78923	देसाई सलिल	आर्टी
78924	प्रभदीप सिंह	इंजिनियर्स
78925	नरेन्द्र के	इन्फैन्ट्री
78926	सुमन्तो लाहिड़ी	आर्टी
78927	प्रशांत नेनवानी	इन्फैन्ट्री
78928	लक्ष्य सचदेवा	मैक इन्फैन्ट्री
78930	रवदीप सिंह	आर्टी
78931	केआर अनुराज	सिगनल्स
78932	महिधर सिंह	ईएमई
78933	अधिन त्यागी	ई एम ई
78934	संचित किरपाल सिंह	सिगनल्स
78935	संजीव तिवारी	ए एस सी
78936	नकुल प्रताप पांडे	ईएमई
78937	साकेत	ईएमई
78938	कृष्णाउन्नी टी ई	आर्टी
78939	युवराज सुचिन्द्रा परांजपे	एएडी
78940	सक्षम शर्मा	सिगनल्स
78941	जतिन सिंह	एएससी

—14 दिसम्बर 2014—

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (एस.सी.)

ले. से कप्तान

एस सी सं.	नाम	आर्म
00716	अशोक कुमार	इन्फैन्ट्री
00717	सुरेन्द्र सिंह मेहरा	इंजिनियर्स
00718	अजय सिंह थापा	इन्फैन्ट्री
00719	बलदेव सिंह	ए एस सी
00720	ज्ञान बहादुर थापा	इन्फैन्ट्री
00721	राकेश राणा	इन्फैन्ट्री
00722	दीपक राज	आर्टी
00723	मुकेश सी	आर्टी
00724	सुधीश टी	इंजिनियर्स
00725	पाटिल सतीश कल्लानागौडा	इन्फैन्ट्री
00726	गुलाम दस्तागर	ए सी
00727	रामाकांत बेहेरा	ए ए डी

एस सी सं.	नाम	आर्म
00728	अनिल कुमार यादव	इन्फैन्ट्री
00729	भीशम देव	ए एस सी
00730	सत्य प्रकाश	आर्टी
00731	अजय शुक्ला	इन्फैन्ट्री
00732	नरेश कुमार सकलानी	ए एस सी
00733	बिनू जे	सिग्नल्स
00734	आगराहारापू नागेश्वर राव	आर्टी
00735	टी किशोर कुमार	आर्टी
00736	शिन्दे धनंजय विजय कुमार	इंजिनियर्स
00737	धर्मेन्द्र सिंह	ई एम ई
00738	रंजन सिंह	ए सी
00739	रनबीर सिंह	ए ओ सी
00740	पवन कुमार यादव	इन्फैन्ट्री
00741	प्रवेश कुमार सिंह	ई एम ई
00742	पूरन सिंह यादव	इन्फैन्ट्री
00743	जितेन्द्र सिंह	इंजिनियर्स
00744	मिश्रा ब्रिजेश कुमार त्रिलोकिनाथ	ई एम ई
00745	पाटिल दिगम्बर साखाराम	आर्टी
00746	सुरिन्दर कुमा शर्मा	इन्फैन्ट्री

—08 दिसम्बर 2014—

शंकर बसु
उप निदेशक
एम एस 8सी

सं. 158, दिनांक 9 जून 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं

नियमित सेना

कोर ऑफ इंजिनियर्स

मद्रास इंजिनियर ग्रुप

सूबेदार मेजर (लिपिक एस.डी.) के मूल पद में

पद	नाम	नम्बर	पदोन्नति की तिथि
सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	कदम दादासाहेब बान्दु	जे. सी. 308299 एल	02 अक्टूबर 2014#

सूबेदार (लिपिक एस.डी.) के मूल पद में

नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	रमेश बाबु सी पी	जे. सी. 309656 पी	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	विनोद कुमार वी	जे. सी. 309657 एक्स	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	वेलुचामी पी	जे. सी. 309658 ए	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	दिलिप कुमार सिंह	जे. सी. 309659 एच	01 अक्टूबर 2014

नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	सावाले दीलिप गनपत	जे. सी.	309660	एक्स	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	एम सेबसटिन सेलवा	जे. सी.	309662	एच	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	ए वेलुमुरुगन	जे. सी.	309663	एल	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	एम सेबसटियन	जे. सी.	309686	एम	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	सुधाकरन जी	जे. सी.	309687	पी	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	सोभनाथ यादव	जे. सी.	309688	एक्स	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	उतम कुमार सिन्हा	जे. सी.	309689	ए	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	पी तिरुपति	जे. सी.	309690	पी	04 अक्टूबर 2014@
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	ए विरप्पन	जे. सी.	309707	एक्स	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	पोन्नुसामी डी	जे. सी.	309708	ए	01 अक्टूबर 2014

सूबेदार मेजर (लिपिक एस.डी.) के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 जुलाई 2014 से दी गई है ।

@सूबेदार (लिपिक एस.डी.) के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी गई है ।

सूबेदार मेजर (लिपिक एस.डी.) के मूल पद में

सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	मोहन सिंह	जे. सी.	308339	एफ	12 अगस्त 2014@
सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	सुनिल कुमार सिंह	जे. सी.	308341	वाई	01 अगस्त 2014
सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	वासुदेव	जे. सी.	308348	एच	01 अगस्त 2014

सूबेदार (लिपिक एस.डी.) के मूल पद में

नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	कन्हैयालाल	जे. सी.	309200	डब्ल्यू	01 अगस्त 2014 #
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	दिलबाग सिंह	जे. सी.	309524	एफ	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	षीजु के के	जे. सी.	309525	के	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	षाजीष पी	जे. सी.	309529	ए	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	सुरेश बाबु पी	जे. सी.	309530	पी	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	एन एम गनेसन	जे. सी.	309531	एक्स	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	के प्रदीप कुमार	जे. सी.	309532	ए	01 अगस्त 2014

@ सूबेदार मेजर (लिपिक एस.डी.) के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी गई है ।

सूबेदार (लिपिक एस.डी.) के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 अप्रैल 2014 से दी गई है ।

सूबेदार मेजर (एस के टी) के मूल पद में

सूबेदार(एस के टी)	राजेन्द्र कुमार	जे. सी.	330752	एक्स	04 जुलाई 2014 \$
-------------------	-----------------	---------	--------	------	------------------

सूबेदार (एस के टी) के मूल पद में

नायब सूबेदार(एस के टी)	एस जया चन्द्रा कुरुपाथम	जे. सी.	331591	एम	02 जुलाई 2014 @
नायब सूबेदार(एस के टी)	डैसन के वी	जे. सी.	331741	एक्स	30 जुलाई 2014 #

\$नायब सूबेदार (एस के टी) के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी गई है ।

@नायब सूबेदार (एस के टी) के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी गई है ।

#नायब सूबेदार (एस के टी) के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी गई है ।

सूबेदार मेजर (लिपिक एस.डी.) के मूल पद में

सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	शंकर सिंह	जे. सी.	308351	एच	04 सितम्बर 2014@
सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	पदमेन्द्रा सिंह बिष्ट	जे. सी.	308376	पी	01 सितम्बर 2014

सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	दिलिप रॉय	जे. सी. 308377	एक्स	10 सितम्बर 2014@
सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	रोहतास सिंह	जे. सी. 308379	एच	03 सितम्बर 2014@

सूबेदार (लिपिक एस.डी.) के मूल पद में

नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	जे गनेश	जे. सी. 309562	एक्स	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	अरुन कुमार मिश्रा	जे. सी. 309563	ए	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	गोविन्दा प्रसाद सेन	जे. सी. 309566	एन	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	सिवा कुमार पी	जे. सी. 309567	डब्ल्यू	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	प्रदीप कुमार के	जे. सी. 309568	वाई	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	शेक शिराजुद्दीन अहमद	जे. सी. 309569	एफ	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	परमार गिरिश कुमार	जे. सी. 309570	डब्ल्यू	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	ए एस साजहन	जे. सी. 309571	वाई	08 सितम्बर 2014 #
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	वी राजादुराई	जे. सी. 309650	एन	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	मारी मुथु वी	जे. सी. 309651	डब्ल्यू	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	गौरन्गा खनडौला	जे. सी. 309652	वाई	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	के सेलवाम	जे. सी. 309653	एफ	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	परबोध सिंह	जे. सी. 309654	के	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार(लिपिक एस.डी.)	अरुन कुमार सिंह	जे. सी. 309655	एम	01 सितम्बर 2014

@ सूबेदार मेजर (लिपिक एस.डी.) के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 01 सितम्बर 2014 से दी गई है ।

सूबेदार (लिपिक एस.डी.) के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी गई है ।

सूबेदार मेजर (जी.डी.) के मूल रैंक में

सूबेदार (जी.डी.)	वी गोविन्दासामी	जे. सी. 308956	के	01 सितम्बर 2014
सूबेदार (जी.डी.)	गिरीसन ए पी	जे. सी. 308959	एक्स	01 सितम्बर 2014

सूबेदार मेजर (जी.डी.) के मूल रैंक में

सूबेदार (जी.डी.)	एम बी मनी	जे. सी. 308955	एफ	02 अगस्त 2014#
------------------	-----------	----------------	----	----------------

#सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी गई है ।

सूबेदार (जी.डी.) के मूल रैंक में

नायब सूबेदार (जी.डी.)	राजेश	जे. सी. 310180	ए	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	रनजीत कुमार जी	जे. सी. 310181	एच	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	सयाजु के	जे. सी. 310182	एल	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	एल चन्द्रा कान्त	जे. सी. 310184	डब्ल्यू	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	अर्जुन मराठी	जे. सी. 310185	वाई	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	माटी पोटुराजु	जे. सी. 310186	एफ	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	पुंडलिक चौपाडे	जे. सी. 310187	के	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	डी शिवापन्डी	जे. सी. 310206	के	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	देवदास सी बी	जे. सी. 310208	पी	01 अगस्त 2014

नायब सूबेदार (जी.डी.)	शुर्दुशनन नायर के	जे. सी. 310209	एक्स	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	आर सगादेवन	जे. सी. 310210	एम	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	रागेसन पडीयिल मनब्रोन	जे. सी. 310211	पी	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	चाको पी	जे. सी. 310212	एक्स	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	शोलेमोन मैथ्यू	जे. सी. 310214	एच	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	बिनो चेरियन	जे. सी. 310215	एल	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	जनीश इ टी	जे. सी. 310216	एन	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	माने चन्द्राकान्त भगवान	जे. सी. 310218	वाई	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	आर मुथूकृशनन	जे. सी. 310219	एफ	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	एस नारायना सामी	जे. सी. 310220	डब्ल्यू	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	धन्डापानी बी	जे. सी. 310221	वाई	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	ए जगदेश्वरा राव	जे. सी. 310222	एफ	01 अगस्त 2014

सूबेदार (जी.डी.) के मूल रैंक में

नायब सूबेदार (जी.डी.)	शनमुगम जी	जे. सी. 310224	एम	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	मन्नीवन्नन	जे. सी. 310225	पी	03 सितम्बर 2014*
नायब सूबेदार (जी.डी.)	गणेशन टी	जे. सी. 310226	एक्स	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	एम रवी	जे. सी. 310227	ए	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	कावल्ला भीमा राव	जे. सी. 310228	एच	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	आर किशणा मुंती	जे. सी. 310229	एल	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	पी एस श्याम प्रसान्थ	जे. सी. 310230	ए	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	के शंकर	जे. सी. 310231	एच	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	प्रवीण कुमार टी के	जे. सी. 310241	एम	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	डी एनथॉनी	जे. सी. 310242	पी	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	टारागर मोहम्मदअली	जे. सी. 310243	एक्स	05 सितम्बर 2014*
नायब सूबेदार (जी.डी.)	एस मुरली मोहन रेड्डी	जे. सी. 310247	एन	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	विनोद कुमार टी	जे. सी. 310259	एच	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	के शतीश कुमार	जे. सी. 310260	एम	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	अशोक कुमार बफशला	जे. सी. 310261	ए	02 सितम्बर 2014*
नायब सूबेदार (जी.डी.)	बाबु पी	जे. सी. 310263	एल	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	रावाडा श्रीनीवाशा राव	जे. सी. 310264	एन	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	पी श्रीनीवाश राव	जे. सी. 310265	डब्ल्यू	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	ए काशी वेंकटा रतनाम	जे. सी. 310266	वाई	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	राधाकृशना गरुडा	जे. सी. 310278	एन	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	माल्लाना गौंड पी	जे. सी. 310279	डब्ल्यू	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	शंकर एस	जे. सी. 310281	एन	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार (जी.डी.)	एम डी खाजा रफीउद्दीन	जे. सी. 310282	डब्ल्यू	01 सितम्बर 2014

* सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी गई है ।

अनुराग शर्मा
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 159, दिनांक 9 जून 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं

नियमित सेना

पायनियर कोर्

स्थायी सूबेदार मेजर (जीडी)

रैंक	नाम	जेसी नम्बर	पदोन्नति दिनांक
सुबेदार (जी डी)	मलि खान सिंह	जेसी 829410 ए	01 अक्टूबर 2013
सुबेदार (जी डी)	पी मल्लेशा	जेसी 829393एल	01 मई 2014

स्थायी सुबेदार (जीडी) & क्लर्क (एस डी)

नायब सुबेदार (जीडी)	जोमन सिंह	जेसी 829516एम	01 मई 2014
नायब सुबेदार (जीडी)	राजेन्द्र सिंह बिष्ट	जेसी 829517पी	05 मई 2014*
नायब सुबेदार (जीडी)	राकेश कुमार	जेसी 829518एक्स	01 मई 2014
नायब सुबेदार क्लर्क (एस डी)	शंकर सिंह	जेसी 829546के	01 मई 2014
नायब सुबेदार (जीडी)	बिरेन्द्र कुमार यादव	जेसी 829519ए	07 जून 2014@
नायब सुबेदार (जीडी)	फिलिप हेरेन्ज	जेसी 829520पी	31 जुलाई 2014\$

* वरिष्ठता 01 मई 2014 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ।

@वरिष्ठता 23 मई 2014 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ।

\$वरिष्ठता 01 जून 2014 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ।

नायब सुबेदार (जीडी) -क्लर्क (एस डी)

हवलदार (म्युजिशियन)	गोपी कृष्णन बी	2596380एनअब जेसी 829638डब्ल्यू	29 अप्रैल 2014
हवलदार क्लर्क (एस डी)	दुर्गेश कुमार	8035299एन अब जेसी 829639वाई	01 मई 2014
हवलदार (जीडी)	सर्वनन एस	8033028एक्स अब जेसी 829640एन	16 मई 2014\$
हवलदार (जीडी)	राम अवदेश प्रजापति	8033148 डब्ल्यू अब जेसी 829641 डब्ल्यू	01 मई 2014
हवलदार (जीडी)	वीर सिंह	8033228एन अब जेसी 829642वाई	01 मई 2014
हवलदार (जीडी)	केंद्रे शिवदास वैकटी	8033230एल अब जेसी 829643एफ	31 मई 2014#
हवलदार (जीडी)	बी विजय कुमार	8033253एम अब जेसी 829644के	10 जून 2014@

\$ वरिष्ठता 01 मई 2014 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ।

वरिष्ठता 23 मई 2014 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना।

@ वरिष्ठता 01 जून 2014 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना।

दीपक नारंग
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 160, दिनांक 10 जून 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

इन्फेन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फेन्ट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार विरेन्द्रा सिंह	(जे सी-420963 एफ)	01 अप्रैल 2015
सूबेदार के रैंक में		
नायब सूबेदार रतन जाना	(जे सी-421830 एक्स)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह	(जे सी-422209 वाई)	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार वीरपाल सिंह	(जे सी-422291 वाई)	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार राम आश्रया चौहान	(जे सी-422292 एफ)	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार सुबोध कुमार	(जे सी-422293 के)	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार ऋषि पाल	(जे सी-421858 एक्स)	22 मार्च 2015
नायब सूबेदार राजीव पी	(जे सी-422010 एक्स)	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार पी बी शाजी लाल	(जे सी-421724 वाई)	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार राम बिलकक्षना यादव	(जे सी-421859 ए)	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार एम डी मुजीबर रहमान	(जे सी-422007 एक्स)	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार मोहनन्दा पाठक	(जे सी-422009 एच)	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार कुमार नीलू	(जे सी-422212 वाई)	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार हरीश चन्द्रा जोशी	(जे सी-422233 पी)	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार गोलान्गी गोविन्दा राव	(जे सी-422394 एक्स)	01 अप्रैल 2015

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार शाहाबुद्दीन अंसारी	(14919677 एम अब जे सी-422764 एम)	27 फरवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 नवम्बर 2014 से दी जाती है।)		
हवलदार पवन सिंह	(14922049 एच अब जे सी-422725 पी)	20 फरवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है।)		
हवलदार जगरूपा राम	(14921154 एम अब जे सी-422766 एक्स)	01 मार्च 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 फरवरी 2015 से दी जाती है।)		
हवलदार मदन लाल गुर्जर	(14920830 के अब जे सी-422767 ए)	01 मार्च 2015
हवलदार रणजीत सिंह जाट	(14922190 के वाई जे सी-422768 एच)	01 मार्च 2015
हवलदार सुरेन्द्र ठाकुर	(14922475 डब्ल्यू अब जे सी-422769 एल)	01 मार्च 2015
हवलदार एम सेलवम	(14921021 डब्ल्यू अब जे सी-422770 ए)	24 मार्च 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 मार्च 2015 से दी जाती है।)		
हवलदार सजित कुमार पी	(14921550 एच अब जे सी-422771 एच)	24 मार्च 2015
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 मार्च 2015 से दी जाती है।)		
हवलदार बल बहादुर पुन	(14922371 पी अब जे सी-422722 एल)	24 मार्च 2015
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 मार्च 2015 से दी जाती है।)		
हवलदार ईश्वर सिंह	(14922388 एच अब जे सी-422773 एन)	24 मार्च 2015
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 मार्च 2015 से दी जाती है।)		
हवलदार सन्तोष कुमार साहु	(14918769 एम अब जे सी-422774 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2015

हवलदार प्रल्हाद सिंह यादव	(14921042 एम अब जे सी—422775 वाई)	01 अप्रैल 2015
हवलदार सुधीर कुमार तिवारी	(14921135 एफ अब जे सी—422776 एफ)	01 अप्रैल 2015
हवलदार अनिल टिकी	(14920573 एक्स अब जे सी—422777 के)	01 अप्रैल 2015
हवलदार बिनय मैथ्यू	(14920180 एफ अब जे सी—422778 एम)	01 अप्रैल 2015
हवलदार सी सथुरागिरी	(14921019 वाई अब जे सी—422779 पी)	01 अप्रैल 2015
हवलदार प्रियावर्ता प्रधान	(14921180 एन अब जे सी—422780 के)	01 अप्रैल 2015
हवलदार जाधव मोहन बंधु	(14922537 एल अब जे सी—422781 एम)	01 अप्रैल 2015

कवचित कोर

स्थाई रिसालदार के रैंक में

नायब रिसालदार	ससी कुमार मल्लापल्ली पी	(जेसी 245931ए)	*05 जनवरी 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	अजीत सिंह शेखावत	(जेसी 244697एच)	*26 नवम्बर 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	माधव कुमार पांडा	(जेसी 245256वाई)	*17 नवम्बर 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	नरेन्द्र सिंह बुजधाल	(जेसी 245395एच)	*12 सितम्बर 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	मुहम्मद नेकबत अली	(जेसी 244695एक्स)	*10 सितम्बर 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	वेद पाठक अजीत कुमार एल	(जेसी 245428एच)	*01 दिसम्बर 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	सैतान सिंह	(जेस 245430ए)	*01 दिसम्बर 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	के साई रेडी	(जेसी 244618एच)	*25 सितम्बर 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 सितम्बर 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	सरबजीत सिंह	(जेसी 244849वाई)	*10 नवम्बर 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	इंद्र जीत सिंह	(जेसी 244880एल)	*24 दिसम्बर 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	डान्डगे रविन्द्रा गबा	(जेसी 245763एम)	01 अक्टूबर 2014
नायब रिसालदार	मनोज कुमार	(जेसी 244968पी)	28 जनवरी 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			

नायब रिसालदार	शंकर सिंह शेखावत	(जेसी 244463 वाई)	*23 जनवरी 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	ओम प्रकाश	(जेसी 244758पी)	*08 दिसम्बर 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	प्रमोद कुमार सिंह	(जेसी 245083एम)	*16 जनवरी 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	बलास्तर सिंह तोमर	(जेसी 244798डब्ल्यू)	*16 दिसम्बर 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 नवम्बर 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	रविन्द्रा सिंह	(जेसी 243965पी)	01 दिसम्बर 2014
नायब रिसालदार	दिगविजय कुमार वर्मा	(जेसी 244136एन)	01 दिसम्बर 2014
नायब रिसालदार	प्रदीप कुमार मिश्रा	(जेसी 244137डब्ल्यू)	01 दिसम्बर 2014
नायब रिसालदार	ई सिवा कुमार	(जेसी 244708के)	01 दिसम्बर 2014
नायब रिसालदार	लालजी यादवा	(जेसी 244750एच)	*27 जनवरी 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	सुभाष चन्द	(जेसी 244813ए)	01 दिसम्बर 2014
नायब रिसालदार	राजू हुन्द्रे	(जेसी 244847एन)	01 दिसम्बर 2014
नायब रिसालदार	गगन सिंह	(जेसी 244884एफ)	*08 दिसम्बर 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	राजा राम गुर्जर	(जेसी 244946डब्ल्यू)	01 दिसम्बर 2014
नायब रिसालदार	राजेन्द्र सिंह शेखावत	(जेसी 245521के)	01 दिसम्बर 2014
नायब रिसालदार	रतनेश कुमार पाठक	(जेसी 245522एम)	01 दिसम्बर 2014
नायब रिसालदार	जीवन सिंह	(जेसी 245564 वाई)	*10 जनवरी 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	सुबोध सिंह	(जेसी 244905एम)	*29 दिसम्बर 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	मनोज कुमार सिंह	(जेसी 244632पी)	*17 दिसम्बर 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	रोशन लाल	(जेसी 244922एम)	*01 जनवरी 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	नरपत सिंह	(जेसी 245070पी)	*11 फरवरी 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	जितेन्द्र सिंह चॉन	(जेसी 245585पी)	*01 जनवरी 2015
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	केबल सिंह बघेल	(जेसी 245711डब्ल्यू)	*01 जनवरी 2015

* (रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)

नायब रिसालदार शंकर सिंह (जेसी 245452 वाई) *16 जनवरी 2015

* (रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)

नायब रिसालदार गनेश गिरी (जेसी 244443एल) 01 जनवरी 2015

नायब रिसालदार अशोक कुमार सिंह (जेसी 244444एन) 01 जनवरी 2015

नायब रिसालदार आर मुरुगनन्दम (जेसी 244881एन) *24 जनवरी 2015

* (रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)

नायब रिसालदार संजय कुमार (जेसी 245038ए) 01 जनवरी 2015

नायब रिसालदार वधेला नरेन्द्र सिन्हा (जेसी 245049एम) 01 जनवरी 2015

नायब रिसालदार सुखमन्दर सिंह (जेसी 245166एक्स) 01 जनवरी 2015

नायब रिसालदार जे मनोज कुमार (जेसी 245234ए) *10 जनवरी 2015

* (रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सतपाल सिंह (जेसी 245248ए) 01 जनवरी 2015

नायब रिसालदार उपेन्द्र सिंह भदोरिया (जेसी 245259एम) 01 जनवरी 2015

नायब रिसालदार पिलू राम साहू (जेसी 245260एफ) 01 जनवरी 2015

नायब रिसालदार बनवारी लाल जाट (जेसी 245268एन) 01 जनवरी 2015

नायब रिसालदार जोगिन्दर सिंह (जेसी 245281एक्स) 01 जनवरी 2015

नायब रिसालदार प्रवीन एस एस (जेसी 245350एच) *10 जनवरी 2015

* (रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)

नायब रिसालदार आनंद कुमार टी (जेसी 245510एक्स) 01 जनवरी 2015

नायब रिसालदार कार्तिक चन्द्र मंडल (जेसी 245523पी) 01 जनवरी 2015

नायब रिसालदार राजेन्द्र कुमार (जेसी 245524एक्स) 01 जनवरी 2015

नायब रिसालदार बिनेन्द्र कुमार दिक्षित (जेसी 245525ए) 01 जनवरी 2015

नायब रिसालदार मनोहर सिंह राठोड़ (जेसी 245526एच) 01 जनवरी 2015

नायब रिसालदार पेडाडा गोविन्दा राव (जेसी 245635पी) 01 जनवरी 2015

नायब रिसालदार कुलकर्णी चन्द्राकान्त एन (जेसी 245636एक्स) 01 जनवरी 2015

नायब रिसालदार यशबीर चन्दर (जेसी 245637ए) 03 जनवरी 2015

* (रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)

नायब रिसालदार साहब सिंह (जेसी 245640ए) *03 जनवरी 2015

* (रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)

नायब रिसालदार गाडे माहादेव अर्जुन (जेसी 245860के) 01 जनवरी 2015

नायब रिसालदार ओमबीर (जेसी 245943पी) 01 जनवरी 2015

नायब रिसालदार आर मुरुगन (जेसी 246076एच) *26 जनवरी 2015

* (रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जी थिरुमलाई कान्नन (जेसी 246170एम) *12 फरवरी 2015

* (रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)

नायब रिसालदार	बनबारी सिंह	(जेसी 244339एक्स)	01 फरवरी 2015
नायब रिसालदार	राजेन्द्र प्रसाद	(जेसी 244668एन)	01 फरवरी 2015
नायब रिसालदार	हरीश चन्द्र प्रसाद	(जेसी 244759एक्स)	*11 फरवरी 2015

* (रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)

नायब रिसालदार	मुकेश	(जेसी 244760एम)	*11 फरवरी 2015
---------------	-------	-----------------	----------------

* (रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)

नायब रिसालदार	जोधा कथत	(जेसी 245133एम)	*02 फरवरी 2015
---------------	----------	-----------------	----------------

* (रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)

नायब रिसालदार	लक्ष्मण सिंह शेखावत	(जेसी 245181एम)	*02 फरवरी 2015
---------------	---------------------	-----------------	----------------

* (रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)

नायब रिसालदार	किरण पाल	(जेसी 245638एच)	*04 फरवरी 2015
---------------	----------	-----------------	----------------

* (रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)

नायब रिसालदार	खुशाल सिंह बिष्ट	(जेसी 245688एन)	01 फरवरी 2015
नायब रिसालदार	प्रसेनजीत चक्रवर्ती	(जेसी 245701एम)	01 फरवरी 2015
नायब रिसालदार	रामानंद	(जेसी 245750पी)	*06 फरवरी 2015

* (रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)

नायब रिसालदार	एन कृष्णा मुर्ती	(जेसी 245945ए)	01 फरवरी 2015
नायब रिसालदार	राजेश कुमार	(जेसी 244860एक्स)	01 मार्च 2015
नायब रिसालदार	श्री राजू एस	(जेसी 245851एच)	01 मार्च 2015
नायब रिसालदार	विनय कुमार	(जेसी 245852एल)	01 मार्च 2015
नायब रिसालदार	राजेन्द्र कुमार	(जेसी 246272एच)	01 मार्च 2015

राजीव जौहरी
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 161, दिनांक 10 जून 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:-

नियमित सेना

सेना शिक्षा कोर

सुबेदार मेजर रैंक में

सुबेदार	गिरजा शंकर सिंह	जे सी 803367 एम	01 जनवरी 2015
सुबेदार	रामनिवास	जे सी 803391एच	01 जनवरी 2015
सुबेदार	पारस नाथ	जे सी 803393एन	01 जनवरी 2015
सुबेदार	गोविन्द नारायण जरगर	जे सी 803395वाई	01 जनवरी 2015
सुबेदार	रमेश कुमार	जे सी 803400वाई	@02 फरवरी 2015
सुबेदार	सुभाष चन्द्र	जे सी 803403एम	01 मार्च 2015
सुबेदार	प्रीतम सिंह	जे सी 803414वाई	01 मार्च 2015
सुबेदार	जसपाल सिंह	जे सी 803415एफ	01 अप्रैल 2015
@सुबेदार मेजर के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी।			

सुबेदार रैंक में

नायब सुबेदार	मिर्जा सगीर बेग	जे सी 804269वाई	01 नवम्बर 2014
--------------	-----------------	-----------------	----------------

नायब सुबेदार	कृष्ण चन्द	जे सी 804286वाई	01 दिसम्बर 2014
नायब सुबेदार	देवकी नन्दन	जे सी 804185एल	@28 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	निथियानन्थन डी	जे सी 804291के	01 दिसम्बर 2014
@ सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 दिसम्बर 2014 से दी जायेगी ।			
नायब सुबेदार	पद्म चरण साहु	जे सी 804293पी	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	कविता माणिक्या राव	जे सी 804294एक्स	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	आदेश कुमार शर्मा	जे सी 804295ए	#05 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	जीवन चन्द्र पान्डे	जे सी 804296एच	#05 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	तिलक राज	जे सी 804297एल	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	राम प्रसाद	जे सी 804298एन	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	प्रमोद कुमार शर्मा	जे सी 804301एच	#05 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	राम किशोर मौर्या	जे सी 804302एल	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	रामानन्द सिंह	जे सी 804303एन	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	देशमुख राजेन्द्र हरिश्चन्द्र	जे सी 804304डब्ल्यू	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	ईश्वर चन्द्र सिंह	जे सी 804305वाई	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	किशोर सिंह रतनू	जे सी 804306एफ	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	रमेश चन्द	जे सी 804307के	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	अनिल कुमार सिंह	जे सी 804308एम	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	लोकनाथ स्वाई	जे सी 804309पी	#17 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	भास्कर	जे सी 804311एम	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	ललित किशोर	जे सी 804313एक्स	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	सतीश कुमार सिंह	जे सी 804314ए	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	लक्ष्मी नारायण पाण्डे	जे सी 804315एच	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	नन्दा बल्लभ पाठक	जे सी 804316एल	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	रणजीत सिंह	जे सी 804317एन	#26 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	प्रदीप कुमार	जे सी 804318डब्ल्यू	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	योगेश कुमार अत्री	जे सी 804319वाई	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	नरपत सिंह राठोर	जे सी 804320एन	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	राजेन्द्र सिंह	जे सी 804321डब्ल्यू	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	राज कुमार	जे सी 804323एफ	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	सुकान्त कुमार दाश	जे सी 804325एम	#05 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	आसित कमलाकांत भट्टाचारजी	जे सी 804326पी	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	देवेन्द्र सिंह कुशवाह	जे सी 804327एक्स	रु 03 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	जोखन राय	जे सी 804328ए	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	दिगर सिंह	जे सी 804329एच	रु 21 जनवरी 2015

नायब सुबेदार	अशोक कुमार	जे सी 804330एक्स	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	अजय कुमार सिंह	जे सी 804331ए	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	थोमस पी भी	जे सी 804335डब्ल्यू	#19 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	खगेश्वर साहू	जे सी 804336वाई	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	वी सुधाकर चंगावल्ली	जे सी 804337एफ	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	एम श्रीनिवासुल रेड्डि	जे सी 804338के	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	कृष्ण चन्द्र प्रधान	जे सी 804340एफ	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	भूप चंद	जे सी 804342एम	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	वासूदेव राव हनुमन्तु	जे सी 804343पी	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	चौधरी सुभाष चन्द्र	जे सी 804344एक्स	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	शेख करिमुल्ला	जे सी 804345ए	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	चन्द्र शेखर भट्ट	जे सी 804346एच	#02 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	गौरी शंकर तिवारी	जे सी 804347एल	#09 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	रबिन्द्र प्रसाद	जे सी 804348एन	#02 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	फकीर चरण नायक	जे सी 804349डब्ल्यू	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	प्रमोद कुमार यादव	जे सी 804353वाई	#02 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	हेमन्त कुमार परिडा	जे सी 804354एफ	#30 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	राजेन्द्र सिंह	जे सी 804358एक्स	#21 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	आनन्द बल्लभ	जे सी 804359ए	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	सतीश कुमार	जे सी 804360पी	# 01 मार्च 2015
नायब सुबेदार	दुर्गा प्रसाद सिंह	जे सी 804361एक्स	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	शिवानन्द	जे सी 804362ए	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	अब्दुल रशीद एलाचोला	जे सी 804363एच	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	पट्टिम सिंह	जे सी 804364एल	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	देवेन्द्र सिंह रावत	जे सी 804365एन	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	नीरज कुमार शर्मा	जे सी 804367वाई	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	धीरेन्द्र सिंह	जे सी 804368एफ	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	चन्द्र पाल सिंह	जे सी 804369के	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	देवेन्द्र कुमार	जे सी 804370वाई	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	शम्भु सिंह	जे सी 804373एम	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	राधाकृष्णन पी	जे सी 804374पी	# 01 मार्च 2015
नायब सुबेदार	नरेन्द्र सिंह	जे सी 804375एक्स	#01 फरवरी 2015
नायब सुबेदार	प्रकाश एन	जे सी 804376पी	# 01 मार्च 2015
नायब सुबेदार	राकेश कुमार	जे सी 804377एच	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	जगदीश प्रसाद राय	जे सी 804378एल	01 जनवरी 2015

नायब सुबेदार	महेश पाल सिंह	जे सी 804379एन	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	नरेंद्र छोटेराय	जे सी 804380एच	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	लुकिन्दर सिंह	जे सी 804381एल	#05 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	नारायण कुट्टी एम के	जे सी 804382एन	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	सुरिन्द्र कुमार	जे सी 804384वाई	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	विदया सागर राय	जे सी 804385एफ	01 जनवरी 2015
नायब सुबेदार	पिट्टु पी सुब्बा रेड्डी	जे सी 804386के	01 जनवरी 2015

सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जायेगी ।

नायब सुबेदार	जीतेन्द्र सिंह राजौरा	जे सी 804387एम	@01 मार्च 2015
नायब सुबेदार	जसबीर सिंह	जे सी 804388पी	01 फरवरी 2015
नायब सुबेदार	जय कुमार एन एस	जे सी 804389एक्स	@02 मार्च 2015
नायब सुबेदार	सोमवीर	जे सी 804395एल	@02 फरवरी 2015
नायब सुबेदार	जगरूप सिंह	जे सी 804397डब्ल्यू	@02 फरवरी 2015
नायब सुबेदार	श्रीनिवास उपाध्याय यू बी	जे सी 804398वाई	@02 फरवरी 2015
नायब सुबेदार	राजेन्द्र पाल	जे सी 804399एफ	@23 फरवरी 2015
नायब सुबेदार	मनजीत सिंह बलहारा	जे सी 804400एल	@02 फरवरी 2015
नायब सुबेदार	उदाय भान सिंह	जे सी 804401एन	01 फरवरी 2015
नायब सुबेदार	अनिल कुमार	जे सी 804402डब्ल्यू	@01 मार्च 2015
नायब सुबेदार	सरजीत सिंह राठौड	जे सी 804403वाई	@02 फरवरी 2015
नायब सुबेदार	राम सिंह	जे सी 804405के	01 फरवरी 2015

@ सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी ।

नायब सुबेदार	अंगरा सुब्बा राव	जे सी 804406एम	\$02 मार्च 2015
नायब सुबेदार	राम कुमार	जे सी 804408एक्स	01 मार्च 2015
नायब सुबेदार	सतेन्द्र राय	जे सी 804409ए	01 मार्च 2015
नायब सुबेदार	प्रबोध कुमार परिजा	जे सी 804410पी	\$02 मार्च 2015

\$ सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जायेगी ।

नायब सुबेदार	संजीव सिंह	जे सी 804413एच	01 अप्रैल 2015
नायब सुबेदार	सुनिल कुमार एन	जे सी 804417वाई	01 अप्रैल 2015
नायब सुबेदार	सुरेन्द्र कुमार	जे सी 804419के	01 अप्रैल 2015
नायब सुबेदार	एजाजुद्दीन	जे सी 804532वाई	01 नवम्बर 2014

नायब सुबेदार रैंक में

हवलदार@ लिपिक	विनोद यादव	(सेनांक 9511306वाई अब जे सी 805065वाई)	01 जनवरी 2015
हवलदार	मंतोष कुमार सिंह	(सेनांक 9512471डब्ल्यू अब जे सी 805067के)	01 जनवरी 2015
हवलदार	प्रेम कुमार सुब्बा	(सेनांक 9512475एम अब जे सी 805068एम)	01 जनवरी 2015

हवलदार	राधेश्याम प्रताप सिंह	(सेनांक 9512489एम अब जे सी 805069पी)	01 जनवरी 2015
हवलदार	हेमन्त सिंह रावत	(सेनांक 9512496एच अब जे सी 805070के)	@ 05 जनवरी 2015
हवलदार	आर राजेश	(सेनांक 9512498एन अब जे सी 805071एम)	@09 जनवरी 2015
हवलदार	एम बी वेंकटेश्वरा राव	(सेनांक 9512502एल अब जे सी 805072पी)	01जनवरी 2015
हवलदार	बिभूति भूषण साहु	(सेनांक 9512505वाई अब जे सी 805073एक्स)	01जनवरी 2015
हवलदार	श्री प्रेम देव द्विवेदी	(सेनांक 9512509पी अब जे सी 805074ए)	01जनवरी 2015
हवलदार	अनिल कुमार यादव	(सेनांक 9512511एम अब जे सी 805075एच)	01जनवरी 2015
हवलदार	श्री दीपक पांडे	(सेनांक 9512513एक्स अब जे सी 805076एल)	01जनवरी 2015
हवलदार	सतीश कुमार	(सेनांक 9512515एच अब जे सी 805077एन)	01जनवरी 2015
हवलदार	पी डी बिजू	(सेनांक 9512517एन अब जे सी 805078डब्ल्यू)	01जनवरी 2015
हवलदार	विनोद कुमार पी	(सेनांक 9512520एन अब जे सी 805079वाई)	01जनवरी 2015
हवलदार	संजय कुमार मिश्र	(सेनांक 9512523एफ अब जे सी 805080एन)	01जनवरी 2015
हवलदार	ललित मोहन जोशी	(सेनांक 9512524के अब जे सी 805081डब्ल्यू)	01जनवरी 2015
हवलदार	विजय कुमार	(सेनांक 9512526पी अब जे सी 805082वाई)	01जनवरी 2015
हवलदार	प्रकाश चन्द	(सेनांक 9512527एक्स अब जे सी 805083एफ)	01जनवरी 2015
हवलदार	कृष्ण चंद	(सेनांक 9512534 एन अब जे सी 805084के)	01जनवरी 2015
हवलदार	दीनानाथ	(सेनांक 9512535डब्ल्यू अब जे सी 805085एम)	01जनवरी 2015
हवलदार	कुलदीप सिंह	(सेनांक 9512538के अब जे सी 805086पी)	01जनवरी 2015
हवलदार	नवीन कुमार	(सेनांक 9512541के अब जे सी 805087एक्स)	01जनवरी 2015
हवलदार	राज सिंह	(सेनांक 9512542एम अब जे सी 805088ए)	01जनवरी 2015
हवलदार	बलराम सिंह	(सेनांक 9512543पी अब जे सी 805089एच)	01जनवरी 2015
हवलदार	पोटर पदमसिंह सत्यबीरसिंह	(सेनांक 9512546एच अब जे सी 805090एक्स)	01जनवरी 2015
हवलदार	संजय कुमार पांडे	(सेनांक 9512547एल अब जे सी 805091ए)	@12 जनवरी 2015
हवलदार	सुभाष सिंह	(सेनांक 9512549डब्ल्यू अब जे सी 805092एच)	@12 जनवरी 2015
हवलदार	केशव चन्दर	(सेनांक 9512554एफ अब जे सी 805093एल)	01 जनवरी 2015
हवलदार	संजय कुमार	(सेनांक 9512559ए अब जे सी 805094एन)	@07 जनवरी 2015
हवलदार	पवन राज	(सेनांक 9512561एक्स अब जेसी 805095डब्ल्यू)	01 जनवरी 2015
हवलदार	कल्याण सिंह महार	(सेनांक 9512562ए अब जे सी 805096वाई)	01 जनवरी 2015
हवलदार	सहदेव सिंह	(सेनांक 9512563एच अब जे सी 805097एफ)	@11 फरवरी 2015
हवलदार	श्यामवीर सिंह	(सेनांक 9512564एल अब जे सी 805098के)	01 जनवरी 2015
हवलदार	अनिल कुमार सिंह राघव	(सेनांक 9512567वाई अब जे सी 805099एम)	01 जनवरी 2015
हवलदार	सुबोध कुमार सिंह	(सेनांक 9512569के अब जे सी 805100डब्ल्यू)	01 जनवरी 2015
हवलदार	धर्मन्द्र सिंह	(सेनांक 9512576ए अब जे सी 805101वाई)	01 जनवरी 2015
हवलदार	नरेश सिंह सांगवान	(सेनांक 9512577एच अब जे सी 805102एफ)	01 जनवरी 2015
हवलदार	दलीप सिंह	(सेनांक 9512578एल अब जे सी 805103के)	01 जनवरी 2015

हवलदार	शाजी एम	(सेनांक 9512579एन अब जे सी 805104एम)	01 जनवरी 2015
हवलदार	श्री सूर्यकान्त श्रीवास्तव	(सेनांक 9512581एल अब जे सी 805105पी)	01 जनवरी 2015
हवलदार	सुनिल कुमार शर्मा	(सेनांक 9512582एन अब जे सी 805106एक्स)	01 जनवरी 2015
हवलदार	राघवेन्द्र सिंह	(सेनांक 9512584वाई अब जे सी 805107ए)	01 जनवरी 2015
हवलदार	अभय नारायण मिश्रा	(सेनांक 9512585एफ अब जे सी 805108एच)	01 जनवरी 2015
हवलदार	वलिगोंडा राघवेन्द्र	(सेनांक 9512587एम अब जे सी 805109एल)	@23 जनवरी 2015
हवलदार	के वेंकट रंगा राव	(सेनांक 9512589एक्स अब जे सी 805110ए)	01 जनवरी 2015
हवलदार	रणधीर सिंह	(सेनांक 9512590एम अब जे सी 805111एच)	@12 जनवरी 2015
हवलदार	प्रेम गांधी	(सेनांक 9512591पी अब जे सी 805112एल)	01 जनवरी 2015
हवलदार	मनमोहन सिंह	(सेनांक 9512594एच अब जे सी 805113एन)	@01 फरवरी 2015
हवलदार	दीपक कुमार बक्शी	(सेनांक 9512595एल अब जे सी 805114डब्ल्यू)	01 जनवरी 2015
हवलदार	मधु पी	(सेनांक 9512596एन अब जे सी 805115 वाई)	01 जनवरी 2015
हवलदार	सुधीर डी ए	(सेनांक 9512598वाई अब जे सी 805116एफ)	01 जनवरी 2015
हवलदार	वेणुगोपाल शिवदासन	(सेनांक 9512599एफ अब जे सी 805117के)	01 जनवरी 2015
हवलदार	निर्देश कुमार राय	(सेनांक 9512613एच अब जे सी 805118एम)	01 जनवरी 2015
हवलदार	सुनील कुमार कोटनाला	(सेनांक 9512615एन अब जे सी 805119पी)	@02 जनवरी 2015
हवलदार	रामानुग्रह सिंह	(सेनांक 9512616डब्ल्यू अब जे सी 805120 के)	01 जनवरी 2015
हवलदार	चूडामणि	(सेनांक 9512617वाई अब जे सी 805121एम)	@03 जनवरी 2015
हवलदार	मुकेश कुमार शर्मा	(सेनांक 9512618एफ अब जे सी 805122पी)	01 जनवरी 2015
हवलदार	प्रदीप कुमार बिसेन	(सेनांक 9512619के अब जे सी 805123एक्स)	01 जनवरी 2015
हवलदार	घनश्याम मोहंता	(सेनांक 9512621एफ अब जे सी 805124ए)	01 जनवरी 2015
हवलदार	सुनील कुमार राय	(सेनांक 9512628एल अब जे सी 805125एच)	@14 जनवरी 2015
हवलदार	संजीव कुमार पांडा	(सेनांक 9512629एन अब जे सी 805126एल)	01 जनवरी 2015
हवलदार	अरुण कुमार	(सेनांक 9512630एच अब जे सी 805127एन)	01 जनवरी 2015
हवलदार	सुरेन्द्र कुमार शर्मा	(सेनांक 9512631एल अब जे सी 805128डब्ल्यू)	01 जनवरी 2015
हवलदार	विरेन्द्र कश्यप	(सेनांक 9512633डब्ल्यू अब जे सी 805129वाई)	01 जनवरी 2015
हवलदार	उमेश कुमार	(सेनांक 9512637एम अब जे सी 805130एन)	01 जनवरी 2015
हवलदार	संजय कुमार सिंह	(सेनांक 9512639एक्स अब जे सी 805131डब्ल्यू)	@02 जनवरी 2015
हवलदार	मलकीत सिंह	(सेनांक 9512640एम अब जे सी 805132वाई)	@06 जनवरी 2015
हवलदार	लक्ष्मीकान्त भट्ट	(सेनांक 9512642एक्स अब जे सी 805133एफ)	01 जनवरी 2015
हवलदार	रणजीत सिंह	(सेनांक 9512643ए अब जे सी 805134के)	01 जनवरी 2015
हवलदार	दुर्गा माधव महापात्र	(सेनांक 9512646एन अब जे सी 805135एम)	01 जनवरी 2015
हवलदार	अजय कुमार सिंह	(सेनांक 9512647डब्ल्यू अब जे सी 805136पी)	01 जनवरी 2015
हवलदार	नितिन अवस्थी	(सेनांक 9512648वाई अब जे सी 805137एक्स)	01 जनवरी 2015
हवलदार	रविनन्दन प्रताप सिंह	(सेनांक 9512649एफ अब जे सी 805138ए)	01 जनवरी 2015

हवलदार	अभिजीत राय	(सेनांक 9512650डब्ल्यू अब जे सी 805139एच)	01 जनवरी 2015
हवलदार	हेमराज सिंह नरुका	(सेनांक 9512651वाई अब जे सी 805140एक्स)	01 जनवरी 2015
हवलदार	राजेश कुमार	(सेनांक 9512652एफ अब जे सी 805141ए)	01 जनवरी 2015
हवलदार	गोबर्धन सिंह	(सेनांक 9512653के अब जे सी 805142एच)	01 जनवरी 2015
हवलदार	रूप किशोर पाली	(सेनांक 9512659एल अब जे सी 805143एल)	01 जनवरी 2015
हवलदार	मनोज कुमार सिंह चौहान	(सेनांक 9512565एन अब जे सी 805144एन)	#20 फरवरी 2015
@नायब सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाएगी। रुनायब सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जनवरी 2015 से दी जाएगी।			
हवलदार/ लिपिक	अनंग किशोर महापात्र	(सेनांक 9511307एफ अब जे सी 805145डब्ल्यू)	@02 फरवरी 2015
हवलदार	प्रकाश देव	(सेनांक 9512662एल अब जे सी 805146वाई)	@02 फरवरी 2015
हवलदार	सरूप सिंह राणा	(सेनांक 9512663एन अब जे सी 805147एफ)	01 फरवरी 2015
हवलदार	कुलवंत सिंह	(सेनांक 9512664डब्ल्यू अब जे सी 805148के)	@04 मार्च 2015
हवलदार	राकेश सिंह घोसी	(सेनांक 9512666एफ अब जे सी 805149एम)	01 फरवरी 2015
हवलदार	महेन्द्र प्रसाद	(सेनांक 9512670के अब जे सी 805150एफ)	@02 फरवरी 2015
हवलदार	जितेन्द्र सिंह	(सेनांक 9512672पी अब जे सी 805151के)	01 फरवरी 2015
हवलदार	सारथी प्रसाद बेहेरा	(सेनांक 9512487एफ अब जे सी 805152एम)	\$21 फरवरी 2015
@नायब सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाएगी। \$ नायब सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 फरवरी 2015 से दी जाएगी।			
हवलदार	अजोय कुमार सिंह	(सेनांक 9512673एक्स अब जे सी 805153पी)	@02 मार्च 2015
हवलदार	नारसी दास	(सेनांक 9512674ए अब जे सी 805154एक्स)	01 मार्च 2015
हवलदार	उमाकान्त पाठक	(सेनांक 9512676एल अब जे सी 805155ए)	01 मार्च 2015
हवलदार	दिलीप कुमार पाण्डेय	(सेनांक 9512677एन अब जे सी 805156एच)	@10 मार्च 2015
हवलदार	बसंत कुमार	(सेनांक 9512680एन अब जे सी 805158एन)	@02 मार्च 2015
हवलदार	परवेन्दर कुमार पराशर	(सेनांक 9512681डब्ल्यू अब जे सी 805159 डब्ल्यू)	01 मार्च 2015
हवलदार	अनिल पटियाल	(सेनांक 9512682 वाई अब जे सी 805160एल)	@02 मार्च 2015
हवलदार	उमा शंकर चौबे	(सेनांक 9512689एच अब जे सी 805161एन)	@02 मार्च 2015
हवलदार	राजेन्द्र सिंह	(सेनांक 9512693एल अब जे सी 805162डब्ल्यू)	01 मार्च 2015
@नायब सुबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाएगी।			
हवलदार	अशोक प्रधान सिंह	(सेनांक 9512694एन अब जे सी 805163वाई)	01 अप्रैल 2015
हवलदार	विनोद सिंह	(सेनांक 9512696वाई अब जे सी 805165के)	01 अप्रैल 2015
हवलदार	सत्यवीर शर्मा	(सेनांक 9512697एफ अब जे सी 805166एम)	01 अप्रैल 2015
हवलदार	कल्पित कुमार बिष्ट	(सेनांक 9512702एफ अब जे सी 805167पी)	01 अप्रैल 2015

अलका जोशी
अवर सचिव

वायु सेना शाखा

सं. 162, दिनांक 11 जून 2015—राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दी गयी तिथि से प्रसन्नतापूर्वक निम्नलिखित पद पर पदोन्नति है।

सी एस ओ (ई)

नाम तथा पीए संख्या श्री एवं श्रीमती	पदोन्नति की तिथि
ए एल नॉनग्रुम 31546	18 दिसंबर 14
अशोक कुमार 31750	18 दिसंबर 14
अवतार सिंह 31751	18 दिसंबर 14
सुरेन्द्र सिंह 32070	17 दिसंबर 14
राजेश्वर 32070	17 दिसंबर 14

सी जी ओ (ई)

एम. सी निनमा 37345	10 जून 13
जी. एस दिल्लीन 29661	11 नवंबर 13
गोरधन सिंह 31744	14 अक्टूबर 13
जेम आर स्टेरलिंग 29675	06 मई 13
वी आर आवरदिमथ 29902	04 नवंबर 13
एस के सूर्यवंशी 30760	20 सितंबर 13
ओम राजू 28746	06 अगस्त 13
अंजू आहूजा 34134	23 अगस्त 13
बी एस नेगी 30272	07 नवंबर 13
एम फल्लेपोगुल 34454	29 अक्टूबर 13
ए के षर्मा 34402	03 दिसंबर 13
एन के नागपाल 31667	15 जुलाई 14
नीलम गुप्ता 34248	04 जुलाई 14
सतवीर सिंह 34408	19 जून 14
एस के वत्स 34423	19 जून 14
अमर सिंह 34503	08 सितंबर 14
आर पी जादव 32041	22 अक्टूबर 14
एस एस बिष्ट 34449	20 अप्रैल 15

सी जी ओ (ए)

गंगा वासी 35464	12 फरवरी 14
बोनिफेस लगरा 36046	01 नवंबर 13
जसवंत सिंह 35549	20 सितंबर 13
शिव सागर 36045	20 दिसंबर 12
आर नॉम्बेवथी 35689	04 अक्टूबर 12
कोटा रमेश 35868	18 अक्टूबर 12
बसविंदर कौर 31193	16 अप्रैल 12
जी पदमावथी 34535	18 जनवरी 12
ओमपाल सिंह 35548	08 जून 11

एस इंदरजीत 35908	19 जून 14
राम सुंदर 35470	18 नवंबर 13
राम सूरत 37400	02 फरवरी 10
राम पाल 37398	02 दिसंबर 10
विनोद कुमार सोनकर 37401	10 जनवरी 11

ए एल आई ओ

एस वी बाबलेश्वर 29982	19 अगस्त 10
ललिथामा 30678	19 अगस्त 10
सुरजीत कौर 36792	09 सितंबर 10
डी उमेश्वर 36884	17 सितंबर 10
एन मुरलीधर 37470	01 सितंबर 10
के एस मलिनी 30673	25 नवंबर 10
कुमारी के एस उषा 35854	24 नवंबर 10
बलजीतसिंह राणा 28966	11 जुलाई 11

ए डी (ओ एल)

आर एल पान्डे 31912	12 जनवरी 89
एस सुब्रामनी 31261	05 जनवरी 90
ए डी घागरे 31647	11 जून 90
लोक पाल 31670	30 नवंबर 90
एन के शर्मा 31583	06 जनवरी 98
रेखा शर्मा 31651	25 मार्च 11
बीएम पुष्पावती, 31822	08 दिसंबर 14

आरोन पामई
निदेशक पीसी (पी)

सेना शाखा

सं. 163, दिनांक 11 जून 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सेवानिवृत्त होने पर अपना रैंक बनाये रखने और वर्दी पहनने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

सेवानिवृत्ती

लै0 कर्नल जे एल नर्स

(टीए-42209)

(इन्फैन्ट्री)

28 फरवरी 2015

भारत भूषण
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 27th June 2015

D(MS) SECTION

No. 154, dated 5th June 2015—The President of India has made the following appointments on his Honorary Personal Staff with effect from 01 Nov 2014: —

HONORARY ARMY ADC

INFANTRY

IC-30702N Lt Gen Philip Campose, AVSM**, VSM

Vice

IC-30503A Lt Gen JP Nehra, PVSM, AVSM** (Retired)

ARTY: AAD (4:1)

IC-30710M Lt Gen AK Misra, AVSM, ARTY

Vice

IC-30408N Lt Gen VK Narula, AVSM, SM, ARTY (Retired)

The President of India has made the following appointments on his Honorary Personal Staff with effect from 01 Mar 2015: —

HONORARY ARMY ADC

ARMOURED

IC-31348W Lt Gen Rajan Bakhshi, PVSM, UYSM

Vice

IC-31324M Lt Gen K Surendra Nath, PVSM, AVSM**, SM, VSM (Retired)

REVATI RAMAN
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 155, dated 5th June 2015—The President is pleased to make the following appointments :—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

TO BE LT

Vineet Kumar	TA-42956	(Infantry)	06 Dec 2014
Kuldeep Rana	TA-42957	(Infantry)	16 Dec 2014
Manivasagan T	TA-42958	(Infantry)	23 Dec 2014
Abhijeet Mahajan	TA-42959	(Infantry)	06 Jan 2015

B B JOSHI
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 156, dated 5th June 2015—The President is pleased to make the following promotions :—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

TO BE LT COL

Maj Nidhikant Dhyani	TA-42441	(Infantry)	09 Mar 2015
Maj Nirdesh Sah	TA-42447	(Infantry)	30 Mar 2015
Maj KS Chauhan	TA-42449	(Infantry)	30 Mar 2015

B B JOSHI
Under Secy

No. 157, dated 8th June 2015—The President is pleased to make the following promotions:-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

MAJ TO BE LT COL

PERS NO	NAME	ARMS	DATE OF PROMOTION
IC-56175	SUMIT KUMAR	AOC	21 Oct 2013
IC-65107	AMIT SHARMA	AEC	02 May 2014
SC00397	SURENDRA SINGH	AAD	08 Dec 14
SC00398	VENKATESAN R	EME	08 Dec 14
SC00399	GNANA SEKAR K	AC	08 Dec 14
SC00400	SANJAY KUMAR	SIGS	08 Dec 14
SC00401	SUNDER BAHADUR CHHETRI	INF	08 Dec 14
SC00402	DINESH KUMAR PATHAK	AOC	08 Dec 14
SC00404	RAJ KAPOOR	SIGS	08 Dec 14
SC00405	RAVINDER SINGH	AAD	08 Dec 14
SC00407	SATPAL SINGH	ASC	08 Dec 14
SC00409	SATVINDER SINGH	INT	08 Dec 14
SC00410	BALAM SINGH	AOC	08 Dec 14
SC00411	SENTHIL KUMAR R	ARTY	08 Dec 14
SC00412	SURENDRA SINGH NEGI	INF	08 Dec 14
SC00413	DHARMVIR SINGH	ARTY	08 Dec 14
SC00416	TONDUP WANGAIL	INF	08 Dec 14
SC00417	JOSHI PADMADATT BHUSHAN	INF	08 Dec 14
SC00418	SUNIL KUMAR TYAGI	ENGRS	08 Dec 14
SC00419	N THIAGARAJAN	SIGS	08 Dec 14
SC00420	ABDUL RAHEEM	ASC	08 Dec 14
SC00421	VIVEK MOY GOSWAMI	INF	08 Dec 14
SC00426	SUNIL KUMAR GR	ARTY	08 Dec 14
SC00427	ASHOK KUMAR TOMAR	EME	08 Dec 14
SC00431	GURINDER SINGH SANDHU	EME	08 Dec 14

CAPT TO BE MAJ

IC No	Name	Arm/ Service
70778	ABHISHEK GARGMUKH	INF
70779	ATUL KUMAR RAI	AC
70780	KUNDAN KUMAR	INF
70781	AJIT SINGH NEGI	INF
70782	UDIT PANT	INF
70783	BHAWESH RANJAN	INF
70784	ADITYA SHARMA	ARTY
70785	JASKARAN SINGH	ARTY

IC No	Name	Arm/ Service
70786	ABHINAV MARWAL	ENGRS
70787	LALIT MOHAN PALARIYA	INF
70789	SHETE UMESH BANDOPANT	INF
70790	S P DEEPAK	ARTY
70791	KUMAR VAIBHAV	AAD
70792	SANTANU BAURI	INF
70793	GAURAV GREWAL	EME
70794	ANKIT KHATTRI	INF
70795	ANAND KUMAR N	ARTY
70796	JEEWAN SINGH	INF
70797	SHAILENDRA SINGH CHOUDHARY	ARTY
70798	VISHAL NANDA	INF
70799	VINAY RAI	INF
70800	ABHINIT KUMAR GAUR	EME
70801	SRINIVASAN S	MECH INF
70802	LAKSHAY	INF
70803	ARUN ABEY MATHEW	INF
70804	BHUPINDER SINGH, SC	INF
70805	ABHINAV SRIBVASTAVA	AAD
70806	SUMIT SHEORAN	AC
70807	PANKAJ DAHIYA	ENGRS
70808	BANDHE RAJESH SHRIRAM	INF
70809	SHAURYA RANA	INF
70810	ALOKIK DOGRA	INF
70811	ABUSAYEED G PATEL	ARTY
70812	VIKAS KUMAR SINGH	INF
70813	AMIT D WARANG	INF
70814	DEEPAK BHATT	INF
70815	PRINCE B RAMESH	ENGRS
70817	ASHUTOSH KUMAR PANDEY	INF
70818	PRAMODA P PRABHU	INF
70819	WADHEKAR SUDHAKAR RAMDAS	INF
70820	ASHOK BHARDWAJ	MECH INF
70822	AKSHAY KISHORE DEKHANE	INF
70823	SHARAD CHANDRA SINGH	ARTY
70824	AJIT KUMAR PRADHAN	INF
70825	HARMALKAR NIKHIL PRAKASH	AAD
70826	AKHILESH CHAUHAN	INF
70827	HARPREET SINGH	ENGRS
70828	DALVI JEETENDRA KHANDU	AC
70829	RAVI KANT KUSHWAHA	INF
70830	AMBRISH KUMAR UPADHYAY	INF

IC No	Name	Arm/ Service
70831	SACHIN KUMAR	ASC
70832	PRATYUSH KUMAR SINGH	EME
70833	BHANU TEJA A	AAD
70834	AVINASH KUMAR SINGH	INF
70835	MARTIN ARVIND S	ARTY
70836	C A AMIT PRASAD	AC
70837	AMIT SEMWAL	INF
70838	DEEPAK MEHTA	ARTY
70839	JITENDRA PRAJAPATI	INF
70840	SANDEEP DHULL	MECH INF
70841	BHUPESH SINGH CHUPHAL	AAD
70842	KALYANBABU MAIMOMCHA	INF
70843	VIPIN CHANDRA DANDRIYAL	INF
70844	ANIL KUMAR	INF
70845	DALVI NAKUL JAYANT	INF
70846	AVNEESH ANAND JHA	AAD
70847	SANDEEP BHARTIYA	INF
70848	GAURAVJEET CHAWLA	EME
70849	ALOK KUMAR MONDAL	ARTY
70850	ANOOP V	INF
70851	ABHISHEK KULKARNI	ENGRS
70852	SHAILENDRA SINGH PATEL	ASC
70853	SANDEEP SHARMA	INF
70854	MAKAN INDRAPRATAP SINGH NIRMAL SINGH	AC
70855	ASHISH AWASTHI	INF
70856	RAJIV KUMAR	ARTY
70857	JAGPREET SINGH SODHI	ARTY
70858	ROHIT SHEORAN	INF
70859	PRASHANT PRIYADARSHI	ARTY
70860	DEEPAK KUMAR SAMAL	ARTY
70861	ANKIT MISRA	ARTY
70862	RAMASHAYAM SAI ANVESH	INF
70863	SANDEEP KUMAR	ARTY
70864	D R SANDEEP	ARTY
70865	VISHWNATH SINGH	ARTY
70866	VINEET JAGDEV	INF
70867	VICKY GAHLIAN	INF
70868	NAVPREET SINGH BAATH	INF
70869	AMIT BHARDWAJ	ENGRS
70870	PRIYANK SATISH NIMBALKAR	INF
70871	BALRAJ SINGH RANDHAWA	ENGRS
70872	SATISH KUMAR SINGH	ASC
70873	KUMAR SAURABH	ARTY

IC No	Name	Arm/ Service
70874	PARITOSH NATH SHUKLA	ARTY
70875	S PROBIR SINGHA	INF
70876	PRASHANT KISHORE MISHRA	AC
70877	RAJNEESH MEHTA	INF
70878	NANDLAL	ARTY
70879	PAWAN KUMAR SINGH	AAD
70880	ANUP PRATAP SINGH	ARTY
70881	GANESH NATARAJAN	MECH INF
70882	SAHIL	ARTY
70883	VIJAY KUMAR	AAD
70884	DEBDULAL MAITY	ARTY
70885	DEEPAK RASTOGI	INF
70886	VIKAS SHARMA	INF
70887	YASHAWANT A ABHYANKAR	ARTY
70888	NARAHARI V	ARTY
70889	PRABHAT KUMAR	ARTY
70890	ASHOK KUMAR SINGH	ENGRS
70891	DEEPAK KUMAR MULIA	INF
70893	VINEETH V	INF
70894	DINESH SINGH	INF
70895	DEEPAK MISHRA	ARTY
70896	KULKARNI ADITYA DATTATRAYA	INF
70898	AJITH V NAIR	ARTY
70899	AJAY SINGH BERWAL	EME
70900	SAURABH KESRI	ENGRS
70901	MOHD ALI ARZOO SHANAWAZ	ARTY
70902	ADITYA MALHOTRA	AC
70903	YASHVIR	INF
70904	MADHU MANISH	ARTY
70905	NARENDER SINGH	INF
70907	SUBHASH CHANDRAN NAIR B	AAD
70908	TUSHAR SINGH	EME
70909	VAIBHAV UPASNI	ENGRS
70910	MANISH KUMAR KADIAN	INF
70911	CHANDRA PRAKASH SINGH	INF
70912	IRAGAVARAPU V S RANGANADH	ARTY
70913	K PARTHIBAN	ARTY
70914	Y ASHISH KUMAR	INF
70915	RAHUL MAHAJAN	INF
70916	R S OBED	ASC
70917	SANJAY BISHT	INF
70918	ANGAD KUMAR	ARTY

IC No	Name	Arm/ Service
70919	ISHITAB VASHISHT	AC
70920	NEERAJ BENIWAL	INF
70921	SANDEEP KUMAR NEHRA	INF
70922	NEELABH BHARADWAJ	INF
70923	SOURABH SIROHI	INF
70924	VIVEK KUMAR	ARTY
70925	RAHUL CHANDRAN	ARTY
70926	VISHWANATH	ARTY
70927	SUJEET KUMAR	ARTY
70928	ASHUTOSH SHARMA	ARTY
70929	NARESH KUMAR MAHLA	ARTY
70930	VIKRAM GAUR	INF
70931	ROHIT RATTAN	INF
70932	S S BABU	AC
70933	RAMAN KUMAR	INF
70934	ROHAN THAMPI	INF
70935	RAJEEV DEMRA	INF
70936	ROOPAK KUMAR THAKUR	INF
70937	SHREEDHAR HIREMATH	INF
70938	SUMIT SARDANA	ARTY
70939	JANI A C	ARTY
70940	RAVINDER SINGH BISHT	INF
70941	VISHAL DWIVEDI	INF
70944	PULAKESH ROY	AEC
70945	RAKESH CHANDRA BHATT	EME
70946	ANUBHAV THAPA	INF
70947	AVANISH SHUKLA	INF
70948	VIKAS RANA	ARTY
70949	AKHIL SUHAG	INF
70950	DEEPAK KHURANA	AAD
70951	NAVEEN SHARMA	AOC
70952	KARAN KALRA	AC
70953	SANDEEP KUMAR YADAV	ARTY
70954	RAHUL SETH	INF
70955	ANVER RAZA KAZMI	ARTY
70956	WAIKHOM HEMANTA SINGH	AOC
70957	RAVINDRA NEGI	EME
70958	KUNAL PAL	SIGS
70959	MUKESH NEGI	MECH INF
70960	BIJENDER SINGH	ASC
70961	ARORA ABHIJITSINGH MAHENDERSINGH	INF
70962	CHARANJIT SINGH	INF
70963	K L RAGHVENDRA	ARTY

IC No	Name	Arm/ Service
70964	SIDDHARTH SAURAV	ARTY
70965	JYOTISH KUMAR MANGALAM	INF
70966	UDAI SINGH PARMAR	INF
70967	TAPADIA AKASH ASHOK	INF
70968	PUSHPENDRA SINGH RAJPUT	MECH INF
70969	ANIL KUMAR	ARTY
70970	GAURAV SHARMA	ARTY
70971	DESHMUKH VIKRANT AJIT	INF
70972	CHANDAN KUMAR	ARTY
70973	AMRITESH VIKRAM	ENGRS
70974	HARSH WARDHAN	AAD
70975	PRASHANT SAWANT	ENGRS
70976	KUMAR GAURAV	INF
70977	PULKIT DEWAN	EME
70978	ARUN D S	ARTY
70979	HARSHA G R	AC
70980	KUMAR GAURAV	ARTY
70981	VIJAY THAPA	INF
70982	MANMATH KHANDUAL	ARTY
70983	RAHUL RANA	INF
70984	ROHIT KUMAR BARIK	AC
70985	DHARMENDRA SINGH	AOC
70986	BIRANCHI NARAYAN TRIPATHY	AAD
70987	MOHIT KUMAR JAIN	ARTY
70988	VIRENDRA SINGH	INF
70989	RAJ KUMAR	INF
70990	LINSON LAWRENCE	INF
70991	TUSHAR SHARMA	ARTY
70992	GOOTY BALAJI NIRANJAN	ARTY
70993	S SHYAM SASEETHAR	ENGRS
70994	PRIYANK SRIVASTAVA	INF
70995	RAIPURE VISHAL BHAGWAN	MECH INF
70996	DEEPAK NANDAL	INF
70997	SAURABH SINGH	INF
70998	AMARBIR SINGH BHINDER	INF
70999	RAMAN BHARDWAJ	ARTY
71000	RUPAK KUMAR	ARTY
71001	SHWETANK SARAN	AC
71002	SUDIPTO SAHA	ENGRS
71003	ALPHY YELDHO K	AAD
71005	T R SWAMYDASS	ARTY
71006	GAURAV NEGI	INF

IC No	Name	Arm/ Service
71007	RAHUL	ARTY
71008	DILIP SINGH SHEKHAWAT	INF
71010	JAPENDER PAL SINGH	INF
71011	VARUN KUMAR CHAUDHARY	ARTY
71012	RANBIR SINGH	ARTY
71013	R NAVEEN KUMAR	INF
71014	ASHWANI KUMAR	EME
71015	DEEPAK SINGH MANHAS	AAD
71016	MANISH KUMAR PANDEY	ARTY
71017	ANUJ KUMAR	AC
71018	AVINASH KUMAR	INF
71019	ANUPAM SHARMA	ASC
71020	RANA RAVINDER SINGH	ENGRS
71021	SHINDE DHANRAJ DILIP	ARTY
71022	GOTHE SAURABH ANIL	INF
71023	S PRAVEEN KUMAR	AC
71024	VIKRAM SHEKHAWAT	INF
71025	NIKHIL RATHORE	INF
71026	NAGESH PRASHAR	ENGRS
71027	PIYUSH KAUSHAL	AAD
71028	HEEMANSHU YADAV	INF
71029	HIMANSHU ALE	INF
71030	DIVESH POSWAL	INF
71031	ANIL KUMAR LOOHACH	ASC
71032	ULLAS KUMAR V	INF
71033	RAJBIR	INF
71034	ATUL DINESH MIDHA	MECH INF
71035	SHWETEJ	INF
71036	ABHINEET	INF
71037	LOKENDRA SINGH SHEKHAWAT	INF
71038	SANTOSH NEGI	INF
71039	SUNIL SANGWAN	INF
71040	VARUN KUMAR GUNDAVARAPU	EME
71041	PAVNEET NARULA	AAD
71042	DEEPAK SINGH BIST	INF
71043	PRASHANT SANWAL	INF
71044	ANIMESH RAWAT	INF
71045	LOKESH CHOUHAN	ARTY
71046	RAVINDER SINGH MANHAS	INF
71047	SHISHANK SHARMA	AC
71048	DHRUV RAJAN	INF
71049	AKASH PANDEY	INF
71050	RAHUL KUMAR RAI	INF

IC No	Name	Arm/ Service
71051	AMIT SAXENA	AAD
71052	SHASHI KISHOR	ARTY
71053	SONAM KUMAR JAISWAL	EME
71054	ANURAG UPADHYAY	ARTY
71055	PRABIR GOGOI	INF
71056	RAJBLOCHAN PRADHAN	ARTY
71057	KULDEEP SHARMA	INF
71058	SAKSHAM SHARMA	INF
71059	VIKASH KUMAR	ARTY
71060	ARUNDEEP SINGH	ENGRS
71061	VIJAY KUMAR SHARMA	ARTY
71062	GAURAV BISHT	ARTY
71063	VISHNU DATTA TRIVEDI	INF
71064	SHAILENDRA SINGH MEHTA	ENGRS
71065	JITENDER SINGH	ENGRS
71066	HARSHWARDHAN DADHICH	INF
71067	RAVI KUMAR	INF
71068	TANUJ NAUTIYAL	INF
71069	ROHIT PORWAL	ARTY
71070	LIBU ABRAHAM	ARTY
71071	ASHISH MISHRA	ARTY
71072	KAMAL THAWANI	AC
71074	RAJESH JOSHI	AAD
71075	SAHIL KHURANA	ARTY
71076	VIKAS KATOCH	INF
71077	ALOK KUMAR PANDEY	MECH INF
71079	BHUPINDER SINGH UJJWAL	AC
71080	ANKIT NEGI	INF
71081	VIPIN KUMAR GAUR	INF
71082	PRAVEEN KUMAR PAREKH	ARTY
71083	SURENDRA SINGH	INF
71084	ASHWIN SHAH	INF
71085	ANOGH KUMAR CHANDA	INF
71086	JAGDISH SOMAPPA RACHANNAVAR	ENGRS
71087	VANKUL SHARMA	INF
71088	S GAUTHAM	ARTY
71089	VIKRAM SINGH KADIAN	INF
71090	SHIVESH SINGH THAPA	INF
71091	SIDDHARTH SINGH	AC
71092	ATUL YADAV	INF
71093	KSHITIJ SHUKLA	AAD
71094	AMIT KUMAR	INF

IC No	Name	Arm/ Service
71095	VIJENDRA SINGH SHEKHAWAT	ARTY
71096	DALJEET SINGH DILLO	INF
71097	NISHANT KUMAR	INF
71098	UMESH CHANDRA JOSHI	ARTY
71099	HARISH SHARMA	ARTY
71100	HARISH KUMAR VIJENDRAN	INF
71101	ASHISH RANJAN DUBEY	INF
71102	SRIKANTH L	ENGRS
71103	GADGIL SACHIN SHRIKANT	ARTY
71104	VM VIKRAM VEERARAGHAVAN	ARTY
71105	UPKAR TIWARI	ARTY
71106	TARUN KUMAR	MECH INF
71107	RAGHAV KHANDURI	INF
71108	YADVINDER SINGH BHAAU	AC
71109	SAPTARSHI SARKAR	AAD
71110	SOORAJ R	ARTY
71111	DABLU MISHRA	EME
71112	RADHESHYAM YADAV	EME
71113	SURENDER SINGH BISHT	ENGRS
71114	DEO AMEYA GAJANAN	SIGS
71115	MALLINATHA	SIGS
71116	TRIBHUVAN BISHT	EME
71117	GAURAV PANT	ENGRS
71118	SHEBIN B KUTTY	EME
71119	SARETH VR	EME
71120	PRIYESH SRIVASTAVA	ENGRS
71121	RAVINDER BHAKHER	EME
71122	CHANDAN VISHWAKARMA	ENGRS
71123	MADHUR MALIK	SIGS
71124	SANDEEP KUMAR	EME
71125	ASHISH DHANKAR	SIGS
71126	VIRENDRA KESHARI	SIGS
71127	KULDEEP SINGH	ENGRS
71128	NEELKANT KUMAR	SIGS
71129	DAKSH DEEP VISHNOI	ENGRS
71130	M SURENDRA KUMAR	EME
71131	GAURAV RAJ	SIGS
71132	ARSHDEEP SINGH GILL	SIGS
71133	VIVEK NEGI	EME
71134	DEEPANSHU BALOONIE	ENGRS
71135	VISHAL MAMGAIN	SIGS
71136	RIJESH JAYARAJAN	AAD
71137	S KOCHELVAN	EME

IC No	Name	Arm/ Service
71138	HIMANSHU RAWAT	EME
71139	VARUN SHARMA	SIGS
71140	ANAND B	EME
71141	RAHUL HERMON	SIGS
71142	VIRAAJ GULATI	EME
71143	JUGAL SHARMA	ENGRS
71144	LAKSHAY JAIN	INF
71145	ANIRUDHA RAMESH KUMAR SUNKARA	INF
71146	NAIR SAINATH SOMANATHAN	ENGRS
71147	ABHISHEK RANADE	ASC
71148	SRIRAAM S V	SIGS
71149	RAJAT BAHL	ENGRS
71150	ASHISH SHAH	EME
71151	GAGANDEEP MISHRA	ENGRS
71152	LAKSH SHARMA	SIGS
71153	MOHIT KUMAR SHARMA	SIGS
71154	SUYASH RAGHUVANSHI	EME
71155	ANURAG KUMAR	EME
71156	RONALD DANIEL D'SOUZA	ENGRS
71157	NAMRAM ASHOKUMAR MEITEI	ENGRS
71158	ANKUR GUPTA	EME
71159	M KRISHNA CHAITANYA	EME
71160	MANISH NAIR	ENGRS
71161	SANKALP SONI	SIGS
71162	PRASHANT NEMA	SIGS
71163	DEEPAK JAIN	SIGS
71164	PA APPACHA	SIGS
71165	ABHINEET KUMAR	SIGS
71166	SHOBHIT MEHTA	SIGS
71167	HIMANSHU SINGH	SIGS
71168	ABHISHEK BISWAS	EME
71169	SUSHIL KUMAR	SIGS
71170	SINGAM JEEVAN SINGH	ENGRS
71171	VIKRAM JIT SINGH DAHIYA	EME
71172	ANKIT BUDHRAJA	SIGS
71173	ARUNBHASKAR K	EME
71174	R VAMSHI KRISHNAN	ENGRS
71175	KSHETRIMAYUM CHANGKHOMBA	ENGRS
71176	O JOTIN KUMAR	ARTY
71177	VIPLAV BHATTACHARYA	EME
71178	DEEPAK SINGH	ENGRS
71179	DEEPANJAN BANDYOPADHYAY	EME

IC No	Name	Arm/ Service
71180	PATIL GURURAJ PRALHAD	ENGRS
71181	VIVEK SUBRAMANIAN	EME
71182	KALE VIKRANT KHANDERAO	ARTY
71183	SATYEN KUMAR	EME

----- 13 Dec 14 -----

75233	KAPGATE SACHIN KISAN	EME
75234	BHAGWAT ROHIT RAJAN	ARTY
75235	SANDEEP DHAWAN	ENGRS
75236	ARUN KUMAR	EME
75237	RAMANDEEP SINGH	EME
75238	SAURABH JOSHI	ENGRS
75239	ABHIMANYU SINGH	SIGS
75240	VIVEK KUMAR PANDEY	ENGRS
75241	PILLAY FRANKLIN WILLIAM	ENGRS
75242	PUNEET SHARMA	AAD
75243	PRAMOD KUMAR DUBEY	ENGRS
75244	RAJESH RANA	ENGRS
75246	ANAND SIHAG	INF
75247	BIKRAMJIT SINGH SHAHID	EME
75248	KARAN PANWAR	ENGRS
75249	DEVENDRA SINGH	AC
75250	GURVIKRAM SINGH SARNA	EME
75251	AJAY SALARIA	SIGS
75253	ABHIMANYU JOSHI	EME
75254	DINESH V NAYAK	EME
75255	BHAVESH KUMAR	ENGRS
75256	CHANDAN SOBTI	ENGRS
75258	SARVESH KUMAR SWARANKAR	ENGRS
75259	KERMINDER SINGH	INF
75260	ASHISH DALAL	INF
75261	MANDEEP SINGH DILAWRI	SIGS
75262	VIKRAM ERNEST PAWAR	ENGRS
75263	ABHISHEK MISHRA	EME
75264	RAVINDRA KUMAR	ENGRS
75265	BAKORAY SAMEER PRADEEP	SIGS
75266	ASHIT KUMAR RANA	ENGRS
75267	ABHIJEET MOHAPATRA	ENGRS
75268	AGARWAL AKASH SUSHIL	ENGRS
75269	ABHISHAK AGARWAL	ENGRS
75270	ASHISH NEGI	EME
75271	ARUN S NAIR	ENGRS
75272	DESHMUKH UPENDRA DEEPAK	ARTY
75273	KASARABADA RAVITEJA	ARTY

IC No	Name	Arm/ Service
75274	NAGARKAR KARAN NITIN	ENGRS
75275	VISWANATH V S	ENGRS
75276	ANUBHAV SINHA	SIGS
75277	SUMIT KUMAR TIWARI	ENGRS
75278	SHYAM K M	ENGRS
75279	RAHUL BAREJA	ENGRS
75280	KARTHICK RAJKUMAR A	ENGRS
75281	ARUN KUMAR MISHRA	ENGRS
75282	SAURABH GARG	ENGRS
75283	KARAN SINGH	EME
75284	MOHAMMED AYUB SUBEDAR	EME
75285	RAHUL VYAS	INF
75286	SHUKLA SUDHANSHU	ENGRS
75287	RISHABH BAJPAI	ENGRS
75288	ARJUN SOOD	ENGRS
75289	RAHUL NAIR	EME
75290	MRINAL AGARWAL	ENGRS
75291	SHIVANAND C HIPPARAGI	EME
75292	CHINMAY NAIR	SIGS
75293	NIPUN SIROHI	EME
75294	RIPUDAMAN SINGH	EME

----- 14 Dec 14 -----

IC No.	Name	Arm	Date of Subs Maj
72959	AMRIT PAL SINGH	INF	18 OCT 13
72960	RAJINDER RATHORE	ARTY	18 OCT 13
72961	BHASKAR JOSHI	AOC	18 OCT 13
72962	CH JACOB	INF	18 OCT 13
72963	GURAMAR SINGH	AAD	18 OCT 13
72964	KISHOR SINGH	ARTY	18 OCT 13
72965	SHRINIDHI C J	AAD	18 OCT 13
72966	SUNIL KUMAR	INF	18 OCT 13
72967	ANSHUMAN SHARMA	INF	18 OCT 13
72968	GINSONLAL TONSING	INF	18 OCT 13
72969	MAHENDER SINGH	ARTY	18 OCT 13
72970	ARUN KUMAR VASHISTH	AC	18 OCT 13
72972	NAIR RAJEEV SASHIDHARAN	INF	18 OCT 13
72973	YOGESH LAD	INF	18 OCT 13
72974	LALIT MOHAN SHARMA	INF	18 OCT 13
72975	SUMIT JOSHI	ASC	18 OCT 13
72976	UDAIVIR SINGH SANGWAN	AOC	18 OCT 13
73578	VIKRAM MEHRA	ARTY	22 OCT 14
73635	SATYA SHARAN ATMARAM	EME	20 OCT 12

SPECIAL COMMISSION

CAPT TO BE MAJ

SC NO	NAME	ARM
00550	VIJAY FEDRICKS	ARTY
00551	BRIJISH KUMAR	AC
00552	PRALAY GANGOPADHYA	SIGS
00553	VIKAS KUMAR RANA	INF
00554	MAHENDER SINGH GAUR	AAD
00555	SANJAY KUMAR	MECH
00556	RAJEEV KS	ARTY
00557	RAVI RAWAT	INF
00558	VINAYAKUMAR BM	ARTY
00559	RAJESH KUMAR PAL	EME
00560	UMED SINGH RANA	INF
00561	SANJAY KUMAR T	ARTY
00562	VIRENDER SINGH	INF
00563	RAJIV KUMAR SINGH	ENGRS

----- 07 Jun 2014 -----

SC NO	NAME	ARM
00564	RAJESH KUMAR SINGH CHAUHAN	INF
00565	ASHWANI KUMAR	INF
00566	KOPPULA SATYANARAYANA	AAD
00567	PRADEEP M	ENGRS
00568	ROOP SINGH NEGI	INF
00569	RAJIV RANJAN	EME
00570	SREEJESH S	ARTY
00571	VINOD KADIAN	AC
00572	ASHRAM PRASAD SHARMA	SIGS
00573	ANAND G PANICKER	ENGRS
00574	MOHAN CHANDRA	INF
00575	HARPREET SINGH	ARTY
00576	RAVINDER SINGH TANWAR	ENGRS
00577	AMAR NATHH	ARTY
00578	MADHU A T	EME
00579	JADEJA BHAGIRATH	EME
00580	RAJ KISHOR KANWASI	ARTY
00581	SOMENDRA KUMAR SHARMA	INF
00582	SOURAV CHAKRABORTY	INF
00583	DURLOV KUMAR MEDHI	ARTY
00584	MOORKKANATTIL ANTHONY JOY	INF
00585	RAJ KUMAR SHARMA	MECH

----- 13 Dec 2014 -----

SHORT SERVICE COMMISSION

CAPT TO BE MAJ

SS NO	NAME	ARM	Initial Date of Seniority	Course	Adjusted Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs rank of Maj
44255	MANJU DEVI	SIGS	21 Sep 08	SSCW-04(T)	21 Oct 08	21 Oct 14

PERMANENT COMMISSION

LT TO BE CAPT

IC No.	Name	Arm	Date of Subs Capt
72959	AMRIT PAL SINGH	INF	18 Oct 09
72960	RAJINDER RATHORE	ARTY	18 Oct 09
72961	BHASKAR JOSHI	AOC	18 Oct 09
72962	CH JACOB	INF	18 Oct 09
72963	GURAMAR SINGH	AAD	18 Oct 09
72964	KISHOR SINGH	ARTY	18 Oct 09
72965	SHRINIDHI C J	AAD	18 Oct 09
72966	SUNIL KUMAR	INF	18 Oct 09
72967	ANSHUMAN SHARMA	INF	18 Oct 09
72968	GINSONLAL TONSING	INF	18 Oct 09
72969	MAHENDER SINGH	ARTY	18 Oct 09
72970	ARUN KUMAR VASHISTH	AC	18 Oct 09
72972	NAIR RAJEEV SASHIDHARAN	INF	18 Oct 09
72973	YOGESH LAD	INF	18 Oct 09
72974	LALIT MOHAN SHARMA	INF	18 Oct 09
72975	SUMIT JOSHI	ASC	18 Oct 09
72976	UDAIVIR SINGH SANGWAN	AOC	18 Oct 09
73578	VIKRAM MEHRA	ARTY	22 Oct 10
73635	SATYA SHARAN ATMARAM	EME	20 Oct 08
73640	TAKDIR SINGH	INF	20 Apr 11
73641	RAKESH SHAH	INF	20 Apr 11
73649	KAVINDER GURUNG	INF	20 Apr 11
73661	VISHAL GULERIA	INF	20 Apr 11
73695	ANKUSH SINGH	ARTY	20 Apr 11
73701	ABHISHEK BHUTANI	ARTY	20 Apr 11
73716	ATUL KUMAR	MECH	20 Apr 11
73747	RAHUL KUMAR	ENGRS	20 Apr 11

IC No	Name	Arm/Services
77078	VIKRAM	INF
77079	SUDEEP KUMAR	INF
77080	DHARMPAL SINGH	INF
77081	AVINASH PANDEY	INF
77082	KRISHNAKANT JOSHI	AVN
77083	NISHEET DOGRA	AC
77084	PRAVEEN KUMAR SINGH	EME
77085	DIGVIJAY SHARMA	ENGRS
77086	KALLA RAM SINGH	ASC
77087	DUSHYANT BAKSHI	ARTY
77088	RAHUL GAUTAM	MECH
77089	MUKESH KUMAR SHARMA	AOC
77090	PRITAM SINGH RAWAT	ARTY
77091	CHANDRAKANT SINGH MALARA	AC
77092	NARENDER RANA	ARTY
77093	ALANKAR THORAT	ARTY
77094	SUNIL PATEL	ARTY
77095	KAPIL KUMAR PHOGAT	SIGS
77096	MAHINDER GOUD K	INF
77097	DEEPAK REDHU	INF
77098	AKASH SHEKHAWAT	ARTY
77099	NAVIN KUMAR	ASC
77100	SUNIL SHEORAN	INF
77101	VISHAV VIJAY SHARMA	ENGRS
77102	HAU LIAN PAU SUANTE	INF
77103	KOLEKAR PRAVIN GOVARDHANRAO	AC
77104	NAVEEN KUMAR	INF
77105	SHASHI KUMAR	INF
77106	SUBHASH CHANDER	ARTY
77107	DHEERENDRA SINGH RATHORE	ARTY
77108	ARUN KUMAR	ENGRS
77109	DIVEKAR SAURABH SADANAND	ARTY
77110	RAJU SINGH	INF
77111	ARUNODAI KUMAR SINGH	ASC
77112	SYAM KRISHNAN S	SIGS
77113	SURENDRA SINGH RATHORE	ARTY
77114	PARDEEP KUMAR	MECH
77115	PANKAJ SINGH	INF

IC No	Name	Arm/Services
77116	SUNNY KUMAR ATTRI	ENGRS
77117	HARMAN DEEP SINGH	AAD
77118	CHANDRA BHUSHAN UPADHYAY	ARTY
77119	HIMANSHU SINGH BISHT	AOC
77120	RAVI KANT GAURAV	INF
77121	PRAKASH MEENA	SIGS
77122	DEEPAK KUMAR MALIK	EME
77123	ANUBHAV VATSAYAN	INF
77124	BRIJESH KUMAR	ARTY
77125	EESHAAN SINGH DOD	ARTY
77126	VIKAS UPADHYAY	ENGRS
77127	HARVINDER BHARDWAJ	INT
77128	SONAR SHWETAL DEVIDAS	AAD
77129	VIKRAM DEV SINGH	ASC
77130	AMIT	INF
77131	MANOJ KUMAR MAKOR	AC
77132	NITIN THAPLIYAL	ARTY
77133	KUMAR GOURAV DOGRA	INF
77134	SHILADITYA SINGH RANAWAT	INF
77135	ASAD KHAN M H	ARTY
77136	JAI SINGH	ARTY
77137	SACHIN PARMAR	INF
77138	RAMESH SANGWAN	INF
77139	MOHIT DUTT SINGH	ARTY
77140	BHANU PRATAP KAPILASHARMI	INF
77141	SIVAKUMAR REDDY A	EME
77142	KULKARNI SURAJ RAGHAVENDRA	ARTY
77143	ABHISHEK KUMAR	INT
77144	MANOJ BHANDARI	MECH
77145	MAYANK SHUKLA	INF
77146	APPAYYA M C	INF
77147	JANAK SUHAG	AOC
77148	CHIRAG JAIN	ARTY
77149	MOHIT MALIK	ENGRS
77150	ARMAAN VARAN OHRI	AC
77151	BALJINDER SINGH	INF
77152	KARANPUNIT SINGH	ENGRS

IC No	Name	Arm/Services
77153	ONKAR SINGH	ARTY
77154	DHRUV MOHAN DHINGRA	INF
77155	UTEKAR SACHIN SURESH	ARTY
77156	GANESH MEHRA	ARTY
77157	AJAY CHAND	ASC
77158	MANOJ GODARA	ASC
77159	JYOTISHK TIWARI	AAD
77160	SUMIT SHARMA	SIG
77161	SAGAR VIJAY PATIL	ARTY
77162	ABHIMANYU SINGH NIRWAN	INF
77163	PRADEEP SINGH BANKOTI	INF
77164	ADITYA BHADARIA	INF
77165	ABHISHEK SHARMA	ARTY
77166	SIDDHARTH BORA	AAD
77167	AKASH TRIPATHI	INF
77168	RAJENDRA KUMAR YADAV	AAD
77169	TIWARI PRAVESHKUMAR KAMALAKANT	ASC
77170	RATNESH KUMAR SINGH	ARTY
77171	SACHIN LAXMAN RATHOD	ARTY
77172	DEEPENDRA SINGH KHEECHEE	ARTY
77173	AMBARISH RAJA MISHRA	INF
77174	RAJA RAM	ENGRS
77175	VIJAY KUMAR CHOUBEY	INF
77176	DIGVIJAY SINGH CHAUHAN	INF
77177	DIGVIJAY SINGH THAKUR	MECH
77178	KAUSHAL PANT	EME
77179	SHER SINGH RANAWAT	INF
77180	SANDEEP PATHANIA	AOC
77181	ARPIT GULERIA	SIGS
77182	DEEPAK KUMAR SINGH	ENGRS
77183	MAINAK GANGULY	ASC
77184	HARI PARKASH	INF
77185	PIYUSH MATTU	INT
77186	BANDGAR AJINKYA RAJARAM	ARTY
77187	SANDEEP KUMAR	AAD
77188	SANDESH SADASHIV MORE	ARTY
77189	KUNAL PANDEY	AAD
77190	GOVIND SHUKLA	INF

IC No	Name	Arm/Services
77191	PRAVEEN KUMAR YADAV	ARTY
77192	JAIDEEP RAWAT	ENGRS
77193	NITESH VIJ	AC
77194	PRASHANT	INF
77195	BINDUSHEKHAR SINGH	INF
77196	SHEKHAR THAPA	AOC
77197	RAHUL YADAV	ARTY
77198	RANJEET KUMAR SINGH	ARTY
77199	PRAVEEN KUMAR	INF
77200	SHIVAM MITTAL	AC
77201	DHARAMBEER SINGH	INF
77202	ASHUTOSH KUMAR	ENGRS
77203	RAJMOHAN ACHARYA	ARTY
77204	PRAVEEN KUMAR	ARTY
77205	PURAN TAMANG	ARTY
77206	ISHAN DHIMAN	INF
77208	DEVANSH MISHRA	ASC
77209	VIKAS KUMAR	INF
77210	DIXANT KUMAR GUPTA	ARTY
77211	KULDIP SINGH	ARTY
77212	ABHISHEK	EME
77213	SANTOSH MUTUM	ASC
77214	RAHUL KHAJURIA	INF
77215	VIVEK TOMAR	ENGRS
77216	RAMAN THAKUR	SIGS
77217	ABHISHEK JAYAPAL BANAWANE	AOC
77218	AMIT SINGH	ARTY
77219	MOHIN NAWAZ	INF
77220	SUMIT SHARMA	INF
77221	PRINCE KUMAR SINGH	INF
77222	YAMAK BHARDWAJ	AC
77223	GULZAR AHMAD MIR	MECH
77224	YOGENDRA YADAV	AAD
77225	BHUVANESH KARMCHANDANI	ARTY
77226	VIKRAM SINGH	EME
77227	SAGAR THAPA	INF
77228	YOGESH KUMAR	ARTY

IC No	Name	Arm/Services
77229	NEERAJ BHARDWAJ	ARTY
77230	SURAJ KUMAR PANDA	INT
77231	PRITAM MISHRA	AC
77232	SAJAL KUMAR YADAV	EME
77233	KULDEEP SINGH TANWAR	INF
77234	RANDEEP SINGH	INF
77235	BIRENDER SINGH	INF
77236	SUDHAKAR PRASAD S	ARTY
77237	MAHENDRA SAGAR	ARTY
77238	ANISH CHANDRAN C	ARTY
77239	KADAM VAIBHAV KRISHNA	INF
77240	VEER VIKRAM KASWAN	INF
77241	JAIDEEP	INF
77242	VIKRANT MEHTA	ARTY
77243	VS RAVI	ASC
77244	VIKRAM KUMAR JHA	AAD
77245	GAURAV KAUSHAL	AAD
77246	SABYASACHI PANDA	EME
77247	ANKUR THAKUR	INF
77248	PAWANDEEP SINGH	ASC
77249	MARUVADA MANAS	INF
77250	DIGVIJAY SINGH	MECH
77251	RAM KUMAR V	INF
77252	PATIL AAKASH MAHADEV	ENGRS
77253	SHIV PARAM SINGH	ARTY
77254	VAISAKH V B	SIGS
77255	KONA LAKSHMI NARAYANA GANGADHAR	ARTY
77256	VIJAY SINGH	ARTY
77257	PRANIT NEWAR	ENGRS
77258	PURAN SINGH	AOC
77259	PRATHAMESH PRADEEP JOSHI	ENGRS
77260	ROBIN ABRAHAM	INF
77261	BHUVANESH PANDEY	INF
77262	SHRIKANT DATTATRAY GORE	INF
77263	DIVYANSH SINGH	AAD
77264	AJAY	INF
77265	VIPIN KUMAR YADAV	ARTY
77266	SANJEEV KUMAR	ARTY

IC No	Name	Arm/Services
77267	KURHADE SUMEET UTTAM	ARTY
77268	UJJAIN SUJITSINH RAMBILASSINH	AOC
77269	AKHILESH SINGH	SIGS
77270	PREM SINGH RAWAT	INF
77271	DHEERAJ SATIJA	INF
77272	KANVA ARWARI	MECH
77273	KISLAY RATHORE	INF
77274	YAYANK NAITHANI	EME
77275	AMIT CHAUDHARY	INF
77276	SAHIL BHARDWAJ	SIGS
77277	BARUN KUMAR	ARTY
77278	MOHITE VIJENDRA SHANTARAM	ARTY
77279	NAVEEN KUMAR MALIK	AOC
77280	RAM LAKHAN TEWATIA	ENGRS
77281	AVINASH KUMAR	ASC
77282	HARPREET SINGH	ARTY
77283	BIJENDRA SINGH	ASC
77284	NARENDRA SINGH VERMA	ARTY
77285	VISHRUT S PAGAR	INF
77286	JANARDAN GAIKWAD	ENGRS
77287	ROHAN IYER	INF
77288	GAURAV SINGH	AC
77289	PRADEEP RAWAT	INT
77290	VIKAL NAGPAL	ARTY
77291	SAHIL SHARMA	INF
77292	DATTATRAYA R BIRAJDAR	ASC
77293	AMAN	ENGRS
77294	AJAY KUMAR	MECH
77295	SANTHOSH S R	INF
77296	GAURAV SINGH	INF
77297	SHAILESH PANDEY	INF
77298	SIDDHARTHA SARKAR	ARTY
77299	JAYESH KUMAR CHANDEL	SIGS
77300	ROHIT MASIH	INF
77301	VIKRAM DUTT	EME
77302	HARENDRA SINGH CHAUHAN	ARTY
77303	ASHISH SINGH CHANDEL	AOC

IC No	Name	Arm/Services
77304	NAMAN NARULA	ENGRS
77305	MANPREET SINGH	ARTY
77306	UDAYVIR SINGH RANA	ARTY
77307	M NAGARJUN REDDY	EME
77308	RISHABH RAJ	ARTY
77309	SATENDRA KUMAR	AOC
77310	V MANOJ KUMAR	INF
77311	SUSHIL KUMAR THAPA	INF
77312	KARTIKEY	ENGRS
77313	MAHENDRA SINGH	ASC
77314	ANKUSH RANA	AOC
77315	SHITLENDRA PRATAP MISHRA	INF
77316	BHIM RAJ BHANDARI	INF
77317	PANKAJ KUMAR	ARTY
77318	DEEP KARAN BASSI	INF
77319	HARI NARAYAN PAL	INF
77320	SURAJ RANA	INF
77321	JITENDRA KUMAR MISHRA	ARTY
77322	ASHISH SHUKLA	ARTY
77323	AMARJOT SINGH	AC
77324	APOORV TIWARI	ARTY
77325	HIRA SINGH	ASC
77326	ARUN RAHAR	AAD
77327	CHANCHAL SINGH	ARTY
77328	ANIL KUMAR	ARTY
77329	MURALI ALLU	EME
77330	KALE PUSHKAR NARAYAN	ARTY
77331	KUNDAN KUMAR	ARTY
77332	N KARTHIK REDDY	ENGRS
77333	P MURALIKRISHNA RAO	MECH
77334	PRASOON SHARMA	INF
77335	PRAVEEN NAIR	ARTY
77336	ADITYA MALIK	ENGRS
77337	NAVEEN	INF
77338	GAUTHAM S	AOC
77339	RAJ KUMAR THAPA	ASC
77340	SUKHDEEP SINGH	INF
77341	ANKIT RANA	INF

IC No	Name	Arm/Services
77342	JATIN PABBY	ARTY
77343	RAJA SAKET	INF
77344	APURV A PANDEY	EME
77345	SAPKAL PRABHUDAS BALIRAM	SIGS
77346	DEEPAK SINGAL	AOC
77347	PARAM HANS	AAD
77348	ACHYUTH R NAIR	ARTY
77349	K V V N V J RAMA CHARAN TEJA	ASC
77350	SINGH VIVEKKUMAR KAMALPRATAP	ENGRS
77351	KISHORE SINGH	INF
77352	SRINIDHI G	SIGS
77353	ROHIT SINGH RATHORE	ARTY
77354	DIGAMBER SINGH	INF
77355	VINAYAK VIJAY	INF
77356	VIJAY PANWAR	AC
77357	AMIT LAKHERA	MECH
77358	AZHAR MAJID	INF
77359	ARASAR K DEV JAMWAL	ARTY
77360	SUBHASHIS PAUL YOGI	ARTY
77361	MOHINDER PARTAP SINGH	AC
77362	ASHISH RANA	ASC
77363	VISHAL SHARMA	INF
77364	KISHORE JIT BARUAH	INF
77365	NIRMAL SINGH	INF
77366	BOLAGANI KIRAN KUMAR	AAD
77367	VIVEK KUMAR SINGH YADAV	AVN
77368	NEERAJ PATHAK	ARTY
77369	RAHUL BISWA	INF
77370	WASNIK MANISH EKNATHRAO	ENGRS
77371	UPINDER SINGH	INF
77372	ROHIT NAYYAR	AC
77373	CHETAN PRAJAPATI	ARTY
77374	SAURABH PANDEY	EME
77375	DHIRAJ SINGH HYANKI	INF
77376	SHAKTI SWORUP MISHRA	AAD
77377	AKHIL RANA	INF
77378	NILAM PRADHAN	ENGRS

IC No	Name	Arm/Services
77379	MISHRA SHITAL LALIT	ARTY
77380	CH J D HARI KRISHNA	ENGRS
77381	DHANAJAY SINGH	ASC
77382	PIYUSH SHARMA	ARTY
77383	SATHE ALOK PRASANNA	INF
77384	SACHIN KUMAR	AAD
77385	RAM MOHAN	AOC
77386	NEERAJ KUMAR	ARTY
77387	PARANJPE AJINKYA SUNIL	INF
77388	DEEPAK SINGH NEGI	INF
77389	SUDHENDU DWIVEDI	ARTY
77390	SANDEEP SINGH	INF
77391	AMIT KUMAR	INF
77392	SACHIN KUMAR SHARMA	ARTY
77393	ABHIMANYU SINGH	MECH
77394	ARUN KUMAR SINGH	INF
77395	GAGANDEEP SINGH SOHAL	INF
77396	DUSHYANT SINGH	AC
77397	YOGESH FAGERIA	ASC
77398	VIKRANT	INF
77399	TARUN	ENGRS
77400	HARMANDEEP SINGH MAHAL	AOC
77401	BALENDER KUMAR PANDEY	ARTY
77402	INDERPREET SINGH	INF
77403	VIVEK KUMAR PANT	EME
77404	GURU DUTT	SIGS
77405	DUDAPAKA SAI KRISHNA	ARTY
77406	SUJAN S BANERJEE	ARTY
77407	SUMEET SINGH	ARTY
77408	KAMAL LOCHAN SAHU	EME
77409	ABHINAV MAHNA	INF
77410	ANKIT THAPLIYAL	ARTY
77411	KANWALPAL SINGH KAHLOON	ARTY
77412	RAVI KUMAR PENTAKOTA	ENGRS
77413	PRASUN PANDE	INF
77414	ROHIT NAIR	AC
77415	LOOKENDRA SINGH TOMAR	ASC
77416	YOGESH KUMAR	AAD

IC No	Name	Arm/Services
77417	SAURABH VERMA	AOC
77418	PRABHAT SINGH RAGHAV	INF
77419	LEIHAORUNGBAM DHANASHYAM SINGH	ARTY
77420	RUDRA BAHADUR THAPA	INF
77421	GARWIT PANDEY	INF
77422	DEEP KUMAR THAPA	ENGRS
77423	PARAS KANWAR	EME
77424	VIKAS DHONCHAK	ENGRS
77425	SURJYA KANTA DAS	ARTY
77426	RAMESH CHANDRA JOSHI	INF
77427	NIPUN PRASHAR	SIGS
77428	DAYANANDA NONGTHOMBAM	INF
77429	VERY JOY KAPFOH	INF
77430	VIJAY SINGH RATHORE	INF
77431	ROHAN SHARMA	ASC
77432	PRASHIL PURUSHOTHAMAN	ARTY
77433	KAPSHIKAR VISHAL SHASHANK	AAD
77434	VIVEK SOLANKI	INT
77435	MANU PANDE	MECH
77436	GHARPURE MOHIT ANAND	MECH
77437	RABEESH A	ARTY
77438	DALJIT SINGH	AC
77439	ANIRUDDH KUMAR JAIN	AOC
77440	KUNAL KASHYAP	ARTY
77441	UTSAV SURYAVANSHI	INF
77442	SALMAN KHAN SALMANI	ENGRS
77443	ARUN SINGH	INT
77444	AMRIT PAL SINGH RATHORE	INF
77445	PARMAR CHINTAN NARENDRA	ARTY
77446	MANISH SINGH TANWAR	SIGS
77447	HITESH KUMAR SONIK	ARTY
77448	PRAVEEN KUMAR YADAV	EME
77449	SOURAV SINGH JADAUN	ARTY
77450	GAUTAM H S	ARTY
77451	ASHIT ANAND	ARTY
77452	DINKER SINGH NEGI	AVN
77453	ALOK KUMAR SINGH	ARTY

IC No	Name	Arm/Services
77454	AMARDEEP TYAGI	INF
77455	PUSHPENDRA KUMAR	INF
77456	SANJAY KUMAR SHEORAN	AC
77457	VISHWAS SHARMA	ARTY
77458	NIKHIL CHANDEL	ASC
77459	CHANDAN SINGH NEGI	ARTY
77460	PANKAJ KUMAR	INF
77461	JAYANT CHAUDHARY	ASC
77462	ANAND BUTOLIA	INF
77463	J N NANDAKUMAR	INF
77464	RAJESH TEWARI	SIGS
77465	RAJENDRA SINGH	AAD
77466	SAJIN S	ARTY
77467	NARENDER KUMAR	INF
77468	SURESH BABU R	ARTY
77469	SIDDHARTHA HEGDE	INF
77470	UPENDER SINGH	AC
77471	ROOPAK KUMAR RAI	MECH
77472	PRASHANT KUMAR SHUKLA	ENGRS
77473	SIDDHARTH BHATIA	INF
77474	RAHUL KUMAR MISHRA	ENGRS
77475	YUVRAJ SINGH RAWAT	ARTY
77476	SOURAV BASU	INF
77477	BHUVAN SHREE RATHOUR	ARTY
77478	KETAN SHARMA	ENGRS
77479	DON BOSCO FRANCIS	AAD
77480	AMAN CHOTANI	ARTY
77481	AJAY E	INF
77482	AMARDEEP KR BURNWAL	INF
77483	SHIRAZ VERMA	ARTY
77484	BHOOPANDRA SINGH	EME
77485	DEVANJAN BHATTACHARJEE	ARTY
77486	NAVEEN NEGI	AAD
77487	ROHIT SHEORAN	INF
77488	HIMMAT SINGH	INF
77489	LIJO JOSE	INF
77490	RAJARSHI CHAUDHURI	INF
77491	KHUNDRAKPAM JOTIN SINGH	ASC

IC No	Name	Arm/Services
77492	SHANTANU SINGH	ARTY
77493	AMIT SINGH	ASC
77494	VIVEK BHATT	INF
77495	RISHABH BHARDWAJ	AOC
77496	RAHUL DUTTA	ARTY
77497	AMIT KUMAR THAKUR	SIGS
77498	ASHAY PAL	AAD
77499	SOURAV SHARMA	ARTY
77500	NARENDER	AVN
77501	SUSHIL KUMAR	INF
77502	PANKAJ CHAUHAN	EME
77503	NEERAJ KUMAR	EME
77504	PUNEET SHARMA	ENGRS
77505	ANUJ MAHANT	INF
77506	IRENGBAM GREGORY SINGH	EME
77507	MANISH KUMAR	SIGS
77508	ANAND PRAKASH MISHRA	ENGRS
77509	AMAN KUMAR	SIGS
77510	SAURABH PATHAK	AC
77511	SUSHIL KUMAR YADAV	ENGRS
77512	JAYESH RANA	ENGRS
77513	ANIL KUMAR	SIGS
77514	GIRISH CHAND RAMOLA	INF
77515	JIVITESH	ENGRS
77516	RAVI SANGWAN	ENGRS
77517	DAMANDEEP SINGH	SIGS
77518	AMIT KUMAR SINGH	AOC
77519	SACHIN SINGH KUNTAL	AOC
77520	ASHUTOSH KUMAR MISHRA	EME
77521	T RAKESH	ENGRS
77522	RANDHEER SINGH	INF
77523	ANUPAM TIWARI	SIGS
77524	ANKUSH PANDEY	MECH INF
77525	ASHISH RAWAT	SIGS
77526	UMESH KUMAR RAGHAV	EME
77527	D V KARTHIKEYAN	EME
77528	VIPUL KAUSHIK	MECH INF

IC No	Name	Arm/Services
77529	ATUL BHARDWAJ	ENGRS
77530	BHANU PRATAP SINGH	SIGS
77531	AVINASH KUMAR SHRIVASTAVA	ENGRS
77532	SIDDHESH R KUMBHAR	ENGRS
77533	VARUN SHUKLA	ARTY
77534	AMIT GUNDAPPA KUMBHAR	ENGRS
77535	VIJAY KUMAR THAKUR	EME
77536	KONJENGBAM BIJENDRA SINGH	AAD
77537	BAIKUNTH KAUSHIK	EME
77538	SAGAR GAUTAM	EME
77539	HARSH TANGAR	INF
77540	KISHAN MISHRA	SIGS
77541	SUMIT	SIGS
77542	MAHAJAN ONKAR KIRAN	ENGRS
77543	GUNJAN KUMAR	ENGRS
77544	SHEETAL SINGH	EME
77545	VIKAS CHALOTRA	SIGS
77546	GAURAV TEWARI	ENGRS
77547	HIMANSHU YADAV	AAD
77548	DIXYANT MANN	EME
77549	KASHYAP KUMAR	EME
77550	VINAY CHANDRA	EME
77551	RITESH YADAV	EME
77552	GURJYOT SINGH DEOL	ARTY
77553	PANKAJ MADAD	ENGRS
77554	ROHIT KUMAR	EME
77555	CHANDAN KUMAR	SIGS
77556	ANKUR SHARMA	SIGS
77557	VISHWAJEET RANA	AOC
77558	PRAMOD PRASAD	INF
77559	RAVI KUMAR SHUKLA	SIGS
77560	SANU MONDAL	EME
77561	RAHUL ARORA	AAD
77562	ANUJ KUMAR SHARMA	EME
77563	PANKAJ SHARMA	SIGS
77564	HARPREET SINGH	ENGRS
77565	ANOOP SINGH GAHLAN	SIGS
77566	YOGESH PANDEY	ENGRS

IC No	Name	Arm/Services
77567	NIKHIL DHIMAN	ENGRS
77568	TRILOK SINGH KHERWAL	ENGRS
77569	ANUGRAH KUKRETI	ARTY
77570	SHASHI NATH BHAGAT	SIGS
77571	SANDIP YADAV	EME
77572	DESHDEEPAK BAHL	ENGRS
77573	YUGAL SHARMA	INF
77574	ABHISHEK R	INF
77575	AZIZ KHAN	AC
77576	ABHIMANYU SINGH SHEKHAWAT	SIGS
77577	VARUN JEET SINGH	EME
77578	MUKESH KHANKA	INF
77579	RAJDEEP KAPOOR	SIGS
77580	DEEPAK KUMAR YADAV	AOC
77581	MANISH KUMAR	EME
77582	PANKAJ DHAMI	SIGS
77583	SAYAK MITRA	INT
77584	M WAHED JANI	MECH INF
77585	SHENDKAR HEMANT SOPAN	ARTY
77586	UMESH SHARMA	INF
77587	THOSAR ASHWAJIT ABHAYKUMAR	ARTY
77620	HANUMANTHU SANTOSH KUMAR	AEC

----- 08 DEC 2014 -----

78126	GADILA SIDDHARTH REDDY	SIGS
78161	NILAY KUMAR	AC
78214	RAHUL SHARMA	SIGS
78237	RAHUL DHARMAWAT	INT
78270	NITIN BISHT	ENGRS
78271	GOVIND GHINTALA	EME
78319	S GUHAN	SIGS

----- 10 JUN 2014 -----

78830	RATAN SINGH	SIGS
78831	DINESH CHAND	ARTY
78832	HARDEEP SINGH	INF
78834	VASUDEVAN V ELAYATH	ARTY
78835	AVINASH SEHRAWAT	ENGRS
78838	ANUJ KUMAR	EME

IC No	Name	Arm/Service
78839	VISHAL SHRMA	INF
78840	SURAJ MISHRA	EME
78841	ANKUR KUMAR PAL	INF
78842	ALOK PRATAP SINGH	AAD
78843	JOTPAL SINGH CHEEMA	AC
78844	VINEET RUHIL	SIGS
78845	PRABHJOT SINGH SAINI	INF
78846	HARMEET SINGH RANDHAWA	ENGRS
78847	GAURAV RAGHUVANSHI	SIGS
78848	RISHABH PATIAL	SIGS
78849	SHAILENDRA KUMAR	ARTY
78850	VIVEK SAHRAWAT	SIGS
78852	GAURAV KUMAR	AVN
78853	JASPREET SINGH JANGLA	ARTY
78854	ANUJ CHOPRA	INF
78856	ALLWIN SAGAYA RAJ D	ENGRS
78857	GAURAV BAPAT	INF
78858	MAYANK GUPTA	ENGRS
78859	ROHIT KUMAR SINGH	ARTY
78860	ASHISH HOODA	MECH
78861	TARU AGARWAL	INF
78862	TEZENDER MALIK	EME
78863	RAHUL DHIMAN	EME
78864	DEEPAK YADAV	ARTY
78865	KANOJIYA BHARAT KALLULAL	INF
78867	RAVI TRIPATHI	ENGRS
78868	DEEPANKAR MIGLANI	INF
78869	BALAGOPAL P M	EME
78870	MD SAHWAJ ALAM	INF
78871	NIPUN KUMAR	ENGRS
78872	RAHUL SHARMA	ARTY
78873	KESHAV SINGH	INF
78874	KANWARBIR S DHOT	AC
78875	SACHIN KASHYAP B K	ARTY
78876	JAIDEV SINGH CHAMPAWAT	ENGRS
78877	MAYANK ASHOK	EME
78879	HAVINDER KUMAR	EME
78880	SAHIL CHAWLA	SIGS

IC No	Name	Arm/Service
78881	RAHUL KUMAR PANDEY	INT
78882	NIRAJ KUMAR	INF
78883	JOSHI MANGESH SHARAD	EME
78884	CHAITENYA DALAL	AOC
78885	SANDEEP MEHTA	INF
78886	SARVESH AGAR	EME
78887	ROBIN TYAGI	AOC
78888	VINEET BINDAL	AOC
78889	BABER LIYAQAT	SIGS
78890	VIKRAM SINGH	ENGRS
78891	KARAN SHARMA	AC
78892	JAGATI RUDRA BHUWAN	ARTY
78894	ANIL KUMAR SHARMA	ASC
78895	KAMAL SWAIN	ENGRS
78896	BHUPINDER SAINI	EME
78897	AVTAR SINGH NARWAL	AVN
78901	S NARESH	EME
78902	ISHAN VASHISHT	ENGRS
78903	HIMANSHU CHOUDHARY	AOC
78904	PRASHANT SINGH	SIGS
78905	NIKHIL MADHAV SAWANT	ENGRS
78907	PARTH PRABAL	ENGRS
78908	CHANDAN SINGH MEHTA	INF
78909	PRATEEK SHRIVASTAVA	EME
78910	VIVEK ANAND GUPTA	INF
78911	VIKAS RANA	ARTY
78912	EZHILAN T	INF
78913	ANURAG KUMAR	ENGRS
78915	DINESH KUMAR YADAV	ARTY
78916	BIJOY KUMAR CHETIA	ASC
78917	PUNEET MOUN	ENGRS
78918	PRATIK SINGH RAO	SIGS
78919	NIMIT NIROULA	AAD
78920	GURUCHARAN RV	ENGRS
78921	RASHI RAJ MALIK	INF
78922	TAKHELMAYUM SHATISH	SIGS
78923	DESAI SALIL	ARTY

IC No	Name	Arm/Service
78924	PRABHDEEP SINGH	ENGRS
78925	NARENDAR K	INF
78926	SUMANTO LAHIRI	ARTY
78927	PRASHANT NENWANI	INF
78928	LAKSHAY SACHDEVA	MECH
78930	RAVDEEP SINGH	ARTY
78931	KR ANURAJ	SIGS
78932	MAHIDHAR SINGH	EME
78933	ASHWIN TYAGI	EME
78934	SANCHIT KIRPAL SINGH	SIGS
78935	SANJEEV TIWARI	ASC
78936	NAKUL PRATAP PANDEY	EME
78937	SAKET	EME
78938	KRISHNANUNNI T E	ARTY
78939	YUVRAJ SUCHINDRA PARANJPE	AAD
78940	SAKSHAM SHARMA	SIGS
78941	JATIN SINGH	ASC

----- 14 DEC 2014 -----

PERMANENT COMMISSION (SC)

LT TO BE CAPT

00716	ASHOK KUMAR	INF
00717	SURENDRA SINGH MAHRA	ENGRS
00718	AJAY SINGH THAPA	INF
00719	BALDEV SINGH	ASC
00720	GYAN BAHADUR THAPA	INF
00721	RAKESH RANA	INF
00722	DEEPAK RAJ	ARTY
00723	MUKESH C	ARTY
00724	SUDHEESH T	ENGRS
00725	PATIL SATISH KALLANAGOUDA	INF
00726	GHULAM DASTAGER	AC
00727	RAMAKANT BEHERA	AAD
00728	ANIL KUMAR YADAV	INF
00729	BHISHAM DEV	ASC
00730	SATYA PRAKASH	ARTY
00731	AJAY SHUKLA	INF
00732	NARESH KUMAR SAKLANI	ASC
00733	BINU J	SIGS
00734	AGRAHARAPU NAGESWARA RAO	ARTY
00735	T KISHORE KUMAR	ARTY

SC No.	Name	Arm/Service
00736	SHINDE DHANANJAY VIJAY KUMAR	ENGRS
00737	DHARMENDRA SINGH	EME
00738	RANJAN SINGH	AC
00739	RANBIR SINGH	AOC
00740	PAWAN KUMAR YADAV	INF
00741	PRAVESH KUMAR SINGH	EME
00742	PURAN SINGH YADAV	INF
00743	JITENDRA SINGH	ENGRS
00744	MISHRA BRIJESH KUMAR TRILOKINATH	EME
00745	PATIL DIGAMBAR SAKHARAM	ARTY
00746	SURINDER KUMAR SHARMA	INF

.....08 DEC 2014.....

SANKAR BOSE

Dy Dir

MS-8C

No. 158, dated 9th June 2015—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

CORPS OF ENGINEERS

MADRAS ENGINEER GROUP

TO BE SUBSTANTIVE SUB MAJ CLKs (SD)

Rank/Trade	Name	JC No	Date of Substantive Promotion	Promotion Order No & Date
SUB/CLK (SD)	Kadam Dadasaheb Bandu	JC-308299L	02/10/2014#	J/28/CA2(C) dt 02 Sep 2014

TO BE SUBSTANTIVE SUB CLKs (SD)

NB SUB/CLK (SD)	Ramesh Babu CP	JC309656P	01/10/2014	J/25/CA2(C) dt 15 Jul 2014
NB SUB/CLK (SD)	Vinod Kumar V	JC309657X	01/10/2014	
NB SUB/CLK (SD)	Veluchamy P	JC309658A	01/10/2014	
NB SUB/CLK (SD)	Dilip Kumar Singh	JC309659H	01/10/2014	
NB SUB/CLK (SD)	Savale Deelip Ganapat	JC309660X	01/10/2014	
NB SUB/CLK (SD)	M Sebastin Selva	JC309662H	01/10/2014	
NB SUB/CLK (SD)	A Velumurugan	JC309663L	01/10/2014	
NB SUB/CLK (SD)	M Sebastian	JC309686M	01/10/2014	
NB SUB/CLK (SD)	Sudhakaran G	JC309687P	01/10/2014	
NB SUB/CLK (SD)	Shobanath Yadav	JC309688X	01/10/2014	
NB SUB/CLK (SD)	Uttam Kumar Sinha	JC309689A	01/10/2014	
NB SUB/CLK (SD)	P Thiruppathi	JC309690P	04/10/2014@	
NB SUB/CLK (SD)	A Veerappan	JC309707X	01/10/2014	
NB SUB/CLK (SD)	Ponnusamy D	JC309708A	01/10/2014	

Granted Seniority in the rank of Sub Maj wef 27 Jul 2014 without effect on pay and allce.

@ Granted Seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allce.

TO BE SUBSTANTIVE SUB MAJ CLKs (SD)

Rank/Trade	Name	JC No	Date of Substantive Promotion	Promotion Order No & Date
SUB/CLK (SD)	MOHAN SINGH	JC308339F	12/08/2014@	J/22/CA2(C) dt 05 Jun 2014
SUB/CLK (SD)	SUNIL KUMAR SINGH	JC308341Y	01/08/2014	
SUB/CLK (SD)	VASUDEV	JC308348H	01/08/2014	

TO BE SUBSTANTIVE SUB CLKs (SD)

NB SUB/CLK (SD)	KANHEYALAL	JC309200W	01/08/2014#	J/23/CA2(C) dt 05 Jun 2014
NB SUB/CLK (SD)	DILBAG SINGH	JC309524F	01/08/2014	
NB SUB/CLK (SD)	SHIJU KK	JC309525K	01/08/2014	
NB SUB/CLK (SD)	SHAJEESH P	JC309529A	01/08/2014	
NB SUB/CLK (SD)	SURESH BABU P	JC309530P	01/08/2014	
NB SUB/CLK (SD)	NM GANESAN	JC309531X	01/08/2014	
NB SUB/CLK (SD)	K PRADEEP KUMAR	JC309532A	01/08/2014	

@ Granted Seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug 2014 without effect on pay and allce.

Granted Seniority in the rank of Sub wef 04 Apr 2014 without effect on pay and allce.

TO BE SUBSTANTIVE SUB MAJ SKsT

SUB/SKT	RAJENDER KUMAR	JC330752X	04/07/2014 \$	JCO/15/CA2(SKT) DT 30 MAY 2014
---------	----------------	-----------	---------------	-----------------------------------

TO BE SUBSTANTIVE SUB SKsT

NB SUB/SKT	S JAYA CHANDRA KURUPATHAM	JC331591M	02/07/2014 @	JCO/16/CA2(SKT) DT 30 MAY 2014
NB SUB/SKT	DAISON KV	JC331741X	30/07/2014 #	JCO/17/CA2(SKT) DT 19 JUL 2014

\$ Granted Seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allce.

@ Granted Seniority in the rank of Sub wef 30 Apr 2014 without effect on pay and allce.

Granted Seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allce.

TO BE SUBSTANTIVE SUB MAJ CLKs (SD)

SUB/CLK (SD)	SHANKAR SINGH	JC 308351H	04/09/2014@	J/26/CA2(C) dt 01 Aug 2014
SUB/CLK (SD)	PADMENDRA SINGH BISHT	JC 308376P	01/09/2014	
SUB/CLK (SD)	DILIP ROY	JC 308377X	10/09/2014@	
SUB/CLK (SD)	ROHTAS SINGH	JC 308379H	03/09/2014@	

TO BE SUBSTANTIVE SUB CLKs (SD)

Rank/Trade	Name	JC No	Date of Substantive promotion	Promotion Order No & Dt
NB SUB/CLK (SD)	J GANESH	JC309562X	01/09/2014	J/25/CA2(C) dt 15 Jul 2014
NB SUB/CLK (SD)	ARUN KUMAR MISHRA	JC309563A	01/09/2014	
NB SUB/CLK (SD)	GOVINDA PRASAD SEN	JC309566N	01/09/2014	
NB SUB/CLK (SD)	SIVA KUMAR P	JC309567W	01/09/2014	
NB SUB/CLK (SD)	PRADEEP KUMAR K	JC309568Y	01/09/2014	
NB SUB/CLK (SD)	SHEK SHIRAJUDDIN AHMED	JC309569F	01/09/2014	
NB SUB/CLK (SD)	PARMAR GIRISH KUMAR	JC309570W	01/09/2014	
NB SUB/CLK (SD)	AS SHAJAHAN	JC309571Y	08/09/2014#	
NB SUB/CLK (SD)	V RAJADURAI	JC309650N	01/09/2014	
NB SUB/CLK (SD)	MARI MUTHU V	JC309651W	01/09/2014	
NB SUB/CLK (SD)	GOURANGA KHANDUALA	JC309652Y	01/09/2014	
NB SUB/CLK (SD)	K SELVAM	JC309653F	02/09/2014	
NB SUB/CLK (SD)	PARBODH SINGH	JC309654K	01/09/2014	
NB SUB/CLK (SD)	ARUN KUMAR SINGH	JC309655M	01/09/2014	

@ Granted Seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allce.

Granted Seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allce.

TO BE SUBSTANTIVE SUB MAJ (GD)

Rank	Name	JC No	Date of Substantive Promotion	Date of seniority without effect on pay and allces
Sub (GD)	V GOVINDASAMY	JC308956K	01 SEP 2014	01 SEP 2014
Sub (GD)	GIREESAN AP	JC308959X	01 SEP 2014	01 SEP 2014
Sub (GD)	M B MANI	JC308955F	02 AUG 2014	01 AUG 2014#

Granted Seniority in the rank of Sub Maj wef 01 AUG 2014 without effect on pay and allce.

TO BE SUBSTANTIVE SUB (GD)

Rank/Trade	Name	JC No	Date of Substantive Promotion	Date of seniority without effect on pay and allces
Nb Sub (GD)	RAJESH	JC310180A	01 AUG 2014	01 AUG 2014
Nb Sub (GD)	RANJITH KUMAR G	JC310181H	01 AUG 2014	01 AUG 2014
Nb Sub (GD)	SHYJU K	JC310182L	01 AUG 2014	01 AUG 2014
Nb Sub (GD)	L CHANDRA KANTH	JC310184W	01 AUG 2014	01 AUG 2014
Nb Sub (GD)	ARJUN MARATHE	JC310185Y	01 AUG 2014	01 AUG 2014
Nb Sub (GD)	MATTI POTURAJU	JC310186F	01 AUG 2014	01 AUG 2014
Nb Sub (GD)	PUNDLIK CHOPADE	JC310187K	01 AUG 2014	01 AUG 2014

Rank/Trade	Name	JC No	Date of Substantive Promotion	Date of seniority without effect on pay and allces
Nb Sub (GD)	D SIVAPANDI	JC310206K	01 AUG 2014	01 AUG 2014
Nb Sub (GD)	DEVADAS CB	JC310208P	01 AUG 2014	01 AUG 2014
Nb Sub (GD)	SUDARSANAN NAIR K	JC310209X	01 AUG 2014	01 AUG 2014
Nb Sub (GD)	R SAGADEVAN	JC310210M	01 AUG 2014	01 AUG 2014
Nb Sub (GD)	RAGESAN PADIYIL MANBRON	JC310211P	01 AUG 2014	01 AUG 2014
Nb Sub (GD)	CHACKO P	JC310212X	01 AUG 2014	01 AUG 2014
Nb Sub (GD)	SHOLYMON MATHEW	JC310214H	01 AUG 2014	01 AUG 2014
Nb Sub (GD)	BINO CHERIAN	JC310215L	01 AUG 2014	01 AUG 2014
Nb Sub (GD)	JANEESH ET	JC310216N	01 AUG 2014	01 AUG 2014
Nb Sub (GD)	MANE CHANDRAKANT BHAGWAN	JC310218Y	01 AUG 2014	01 AUG 2014
Nb Sub (GD)	R MUTHUKRISHNAN	JC310219F	01 AUG 2014	01 AUG 2014
Nb Sub (GD)	S NARAYANA SAMY	JC310220W	01 AUG 2014	01 AUG 2014
Nb Sub (GD)	DHANDAPANI B	JC310221Y	01 AUG 2014	01 AUG 2014
Nb Sub (GD)	A JAGADEESWARA RAO	JC310222F	01 AUG 2014	01 AUG 2014
Nb Sub (GD)	SHANMUGAM G	JC310224M	01 SEP 2014	01 SEP 2014
Nb Sub (GD)	MANNIVANNAN	JC310225P	03 SEP 2014	01 SEP 2014*
Nb Sub (GD)	GANESAN T	JC310226X	01 SEP 2014	01 SEP 2014
Nb Sub (GD)	M RAVI	JC310227A	01 SEP 2014	01 SEP 2014
Nb Sub (GD)	KAVALLA BHIMA RAO	JC310228H	01 SEP 2014	01 SEP 2014
Nb Sub (GD)	R KRISHNA MOORTHY	JC310229L	01 SEP 2014	01 SEP 2014
Nb Sub (GD)	PS SHYAM PRASANTH	JC310230A	01 SEP 2014	01 SEP 2014
Nb Sub (GD)	K SANKAR	JC310231H	01 SEP 2014	01 SEP 2014
Nb Sub (GD)	PRAVEEN KUMAR TK	JC310241M	01 SEP 2014	01 SEP 2014
Nb Sub (GD)	D ANTHONY	JC310242P	01 SEP 2014	01 SEP 2014
Nb Sub (GD)	TARAGAR MOHAMMADALI	JC310243X	05 SEP 2014	01 SEP 2014*
Nb Sub (GD)	S MURALI MOHAN REDDY	JC310247N	01 SEP 2014	01 SEP 2014
Nb Sub (GD)	VINOD KUMAR T	JC310259H	01 SEP 2014	01 SEP 2014
Nb Sub (GD)	K SATISH KUMAR	JC310260M	01 SEP 2014	01 SEP 2014
Nb Sub (GD)	ASHOK KUMAR BAXLA	JC310261A	02 SEP 2014	01 SEP 2014*
Nb Sub (GD)	BABU P	JC310263L	01 SEP 2014	01 SEP 2014
Nb Sub (GD)	RAVADA SRINIVASA RAO	JC310264N	01 SEP 2014	01 SEP 2014

Rank/Trade	Name	JC No	Date of Substantive Promotion	Date of seniority without effect on pay and allces
ANb Sub (GD)	P SREENIVAS RAO	JC310265W	01 SEP 2014	01 SEP 2014
Nb Sub (GD)	A KASI VENKATA RATNAM	JC310266Y	01 SEP 2014	01 SEP 2014
Nb Sub (GD)	RADHAKRISHNA GARUDA	JC310278N	01 SEP 2014	01 SEP 2014
Nb Sub (GD)	MALLANA GOUD P	JC310279W	01 SEP 2014	01 SEP 2014
Nb Sub (GD)	SANKAR S	JC310281N	01 SEP 2014	01 SEP 2014
Nb Sub (GD)	MD KHAJA RAFIUDDIN	JC310282W	01 SEP 2014	01 SEP 2014

* Granted Seniority in the rank of Sub wef 01 SEP 2014 without effect on pay and allce.

ANURAG SHARMA
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 159, dated 9th June 2015—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PIONEER CORPS

TO BE SUBSTANTIVE SUB MAJ (GD)

Rank	Name	Personal No	Date of Promotion/ substantive Rank of Sub Maj
Sub (GD)	Mali Khan Singh	JC-829410A	01 Oct 2013
Sub (GD)	P Mallesha	JC-829393L	01 May 2014

TO BE SUBSTANTIVE SUB (GD) & CLK (SD)

Nb Sub (GD)	Joman Singh	JC-829516M	01 May 2014
Nb Sub (GD)	Rajendra Singh Bisht	JC-829517P	05 May 2014*
Nb Sub (GD)	Rakesh Kumar	JC-829518X	01 May 2014
Nb Sub Clk (SD)	Shankar Singh	JC-829546K	01 May 2014
Nb Sub (GD)	Birender Kumar Yadav	JC-829519A	07 Jun 2014@
Nb Sub (GD)	Philip Herenj	JC-829520P	31 Jul 2014\$

* Granted seniority wef 01 May 2014 without effect on pay & allces.

@ Granted seniority wef 23 May 2014 without effect on pay & allces.

\$ Granted seniority wef 01 Jun 2014 without effect on pay & allces.

TO BE NB SUB {(GD) & CLK (SD)}

Rank	Name	Army No Now JC No	Date of Promotion
Hav Musn	Gopi Krishnan B	2596380N Now JC-829638W	29 Apr 2014
Hav Clk (SD)	Durgesh Kumar	8035299N Now JC-829639Y	01 May 2014
Hav (GD)	Sarvanan S	8033028X Now JC-829640N	16 May 2014\$
Hav (GD)	Ram Awadesh Prajapati	8033148W Now JC-829641W	01 May 2014
Hav (GD)	Veer Singh	8033228N Now JC-829642Y	01 May 2014
Hav (GD)	Kendre Shivdas Venkati	8033230L Now JC-829643F	31 May 2014#
Hav (GD)	B Vijaya Kumar	8033253M Now JC-829644K	10 Jun 2014@

\$ Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 May 2014 without effect on pay & Allces.

Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 23 May 2014 without effect on pay & Allces.

@ Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Jun 2014 without effect on pay & Allces.

DEEPAK NARANG
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 160, dated 10th June 2015—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR MAJOR (GD)

SUB VIRENDRA SINGH	(JC-420963F)	01 st Apr 2015
To be Substantive Subedar (GD)		
NB SUB RATAN JANA	(JC-421830X)	01 st Jan 2015
NB SUB NARENDRA SINGH	(JC-422209Y)	01 st Mar 2015
NB SUB VEERPAL SINGH	(JC-422291Y)	01 st Mar 2015
NB SUB RAM ASHRAYA CHAUHAN	(JC-422292F)	01 st Mar 2015
NB SUB SUBODH KUMAR	(JC-422293K)	01 st Mar 2015
NB SUB RISHI PAL	(JC-421858X)	22 nd Mar 2015
NB SUB RAJEEV P	(JC-422010X)	01 st Apr 2015
NB SUB PB SHAJI LAL	(JC-421724Y)	01 st Apr 2015
NB SUB RAM BILAKSHNA YADAV	(JC-421859A)	01 st Apr 2015
NB SUB MD MUJIBAR RAHAMAN	(JC-422007X)	01 st Apr 2015
NB SUB MOHANANDA PATHAK	(JC-422009H)	01 st Apr 2015
NB SUB KUMAR NEELU	(JC-422212Y)	01 st Apr 2015
NB SUB HARISH CHANDRA JOSHI	(JC-422233P)	01 st Apr 2015
NB SUB GOLLANGI GOVINDA RAO	(JC-422394X)	01 st Apr 2015

To be Naib Subedar

HAV SAHABUDDIN ANSARI (14919677M Now JC-422764M) 27th Feb 2015*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 22 Nov 2014 without effect on pay and allowances)

HAV PAWAN SINGH (14922049H Now JC-422765P) 20th Feb 2015*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances)

HAV JAGRUPA RAM	(14921154M Now JC-422766X)	01 st Mar 2015*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 23 Feb 2015 without effect on pay and allowances)		
HAV MADAN LAL GUJAR	(14920830K Now JC-422767A)	01 st Mar 2015
HAV RANJEET SINGH JAT	(14922190K Now JC-422768H)	01 st Mar 2015
HAV SURENDER THAKUR	(14922475W Now JC-422769L)	01 st Mar 2015
HAV M SELVAM	(14921021W Now JC-422770A)	24 th Mar 2015*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 11 Mar 2015 without effect on pay and allowances)		
HAV SAJITH KUMAR P	(14921550H Now JC-422771H)	24 th Mar 2015*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 11 Mar 2015 without effect on pay and allowances)		
HAV BAL BAHADUR PUN	(14922371P Now JC-422772L)	24 th Mar 2015*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 11 Mar 2015 without effect on pay and allowances)		
HAV ISHWER SINGH	(14922388H Now JC-422773N)	24 th Mar 2015*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 11 Mar 2015 without effect on pay and allowances)		
HAV SANTOSH KUMAR SAHU	(14918769M Now JC-422774W)	01 st Apr 2015
HAV PRAHLAD SINGH YADAV	(14921042M Now JC-422775Y)	01 st Apr 2015
HAV SUDHIR KUMAR TIWARI	(14921135F Now JC-422776F)	01 st Apr 2015
HAV ANIL TIRKI	(14920573X Now JC-422777K)	01 st Apr 2015
HAV BINOY MATHEW	(14920180F Now JC-422778M)	01 st Apr 2015
HAV C SATHURAGIRI	(14921019Y Now JC-422779P)	01 st Apr 2015
HAV PRIYABRATA PRADHAN	(14921180N Now JC-422780K)	01 st Apr 2015
HAV JADHAV MOHAN BANDU	(14922537L Now JC-422781M)	01 st Apr 2015

ARMD CORPS

TO BE SUBSTANTIVE RIS

NAIB RISALDAR SASI KUMAR MALLAPPALLI P	(JC245931A)	*05 Jan 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Apr 2013 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR AJEET SINGH SHEKHAWAT	(JC244697H)	*26 Nov 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR MADHAB KUMAR PANDA	(JC245256Y)	*17 Nov 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR NARINDER SINGH BUJDHAL	(JC245395H)	*12 Sep 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Aug 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR MD NEKBAT ALI	(JC244695X)	*10 Sep 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR VEDPATHAK AJIT KUMAR L	(JC245428H)	*01 Dec 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR SAITAN SINGH	(JC245430A)	*01 Dec 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR K SAI REDDY	(JC244618H)	*25 Sep 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 07 Sep 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR SARBJIT SINGH	(JC244849Y)	*10 Nov 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR INDRA JEET SINGH	(JC244880L)	*24 Dec 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)		

NAIB RISALDAR DANDGE RAVINDRA GABA	(JC245763M)	*01 Oct 2014
NAIB RISALDAR MANOJ KUMAR	(JC244968P)	*28 Jan 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 05 Oct 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR SHANKAR SINGH SHEKHAWAT	(JC244463Y)	*23 Jan 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 12 Oct 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR OM PRAKASH	(JC244758P)	*08 Dec 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR PRAMOD KUMAR SINGH	(JC245083M)	*16 Jan 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR BALASTAR SINGH TOMAR	(JC244798W)	*16 Dec 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 23 Nov 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR RAVENDRA SINGH	(JC243965P)	01 Dec 2014
NAIB RISALDAR DIGVIJAY KUMAR VERMA	(JC244136N)	01 Dec 2014
NAIB RISALDAR PRADEEP KUMAR MISHRA	(JC244137W)	01 Dec 2014
NAIB RISALDAR E SIVA KUMAR	(JC244708K)	01 Dec 2014
NAIB RISALDAR LALJI YADAVA	(JC244750H)	*27 Jan 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR SUBHASH CHAND	(JC244813A)	01 Dec 2014
NAIB RISALDAR RAJU HUNDRE	(JC244847N)	01 Dec 2014
NAIB RISALDAR GAGAN SINGH	(JC244884F)	*08 Dec 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR RAJA RAM GURJAR	(JC244946W)	01 Dec 2014
NAIB RISALDAR RAJENDAR SINGH SHEKHAWAT	(JC245521K)	01 Dec 2014
NAIB RISALDAR RATNESH KUMAR PATHAK	(JC245522M)	01 Dec 2014
NAIB RISALDAR JEEVAN SINGH	(JC245564Y)	*10 Jan 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR SUBODH SINGH	(JC244905M)	*29 Dec 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 03 Dec 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR MANOJ KUMAR SINGH	(JC244632P)	*17 Dec 2014
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 06 Dec 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR ROSHAN LAL	(JC244922M)	*01 Jan 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 06 Dec 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR NARPAT SINGH	(JC245070P)	*11 Feb 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 06 Dec 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR JITENDRA SINGH CHAUN	(JC245585P)	*01 Jan 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 06 Dec 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR KEBAL SINGH BAGHEL	(JC245711W)	*01 Jan 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 06 Dec 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR SHANKAR SINGH	(JC245452Y)	*16 Jan 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 14 Dec 2014 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR GANESH GIRI	(JC244443L)	01 Jan 2015
NAIB RISALDAR ASHOK KUMAR SINGH	(JC244444N)	01 Jan 2015
NAIB RISALDAR R MURUGANANDAM	(JC244881N)	*24 Jan 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR SANJAY KUMAR	(JC245038A)	01 Jan 2015

NAIB RISALDAR VAGHELA NARENDRA SINHH	(JC245049M)	01 Jan 2015
NAIB RISALDAR SUKHMINDER SINGH	(JC245166X)	01 Jan 2015
NAIB RISALDAR J MANOJ KUMAR	(JC245234A)	*10 Jan 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR SATPAL SINGH	(JC245248A)	01 Jan 2015
NAIB RISALDAR UPENDRA SINGH BHADOURIY	(JC245259M)	01 Jan 2015
NAIB RISALDAR PILU RAM SAHU	(JC245260F)	01 Jan 2015
NAIB RISALDAR BANWARI LAL JAT	(JC245268N)	01 Jan 2015
NAIB RISALDAR JOGINDER SINGH	(JC245281X)	01 Jan 2015
NAIB RISALDAR PRAVEEN SS	(JC245350H)	*10 Jan 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR ANAND KUMAR T	(JC245510X)	01 Jan 2015
NAIB RISALDAR KARTIK CHANDRA MANDAL	(JC245523P)	01 Jan 2015
NAIB RISALDAR RAJENDER KUMAR	(JC245524X)	01 Jan 2015
NAIB RISALDAR BINENDRA KUMAR DIXIT	(JC245525A)	01 Jan 2015
NAIB RISALDAR MANOHAR SINGH RATHOR	(JC245526H)	01 Jan 2015
NAIB RISALDAR PEDADA GOVINDA RAO	(JC245635P)	01 Jan 2015
NAIB RISALDAR KULKARNI CHANDRAKANT N	(JC245636X)	01 Jan 2015
NAIB RISALDAR YASHBIR CHANDER	(JC245637A)	*03 Jan 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR SAHAB SINGH	(JC245640A)	*03 Jan 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR GADE MAHADEO ARJUN	(JC245860K)	01 Jan 2015
NAIB RISALDAR OMBIR	(JC245943P)	01 Jan 2015
NAIB RISALDAR R MURUGAN	(JC246076H)	*26 Jan 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR G THIRUMALAI KANNAN	(JC246170M)	*12 Feb 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR BANBARI SINGH	(JC244339X)	01 Feb 2015
NAIB RISALDAR RAJENDRA PRASAD	(JC244668N)	01 Feb 2015
NAIB RISALDAR HARISH CHANDRA PRASAD	(JC244759X)	*11 Feb 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR MUKESH	(JC244760M)	*11 Feb 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR JODHA KATHAT	(JC245133M)	* 02 Feb 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR LAXMAN SINGH SHEKHAWAT	(JC245181M)	*02 Feb 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR KIRAN PAL	(JC245638H)	*04 Feb 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR KHUSHAL SINGH BISHT	(JC245688N)	01 Feb 2015
NAIB RISALDAR PRASENJIT CHAKRABARTY	(JC245701M)	01 Feb 2015

NAIB RISALDAR RAMANAND	(JC245750P)	*06 Feb 2015
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances)		
NAIB RISALDAR N KRISHNA MOORTHY	(JC245945A)	01 Feb 2015
NAIB RISALDAR RAJESH KUMAR	(JC244860X)	01 Mar 2015
NAIB RISALDAR SREE RAJU S	(JC245851H)	01 Mar 2015
NAIB RISALDAR VINAY KUMAR	(JC245852L)	01 Mar 2015
NAIB RISALDAR RAJENDER KUMAR	(JC246272H)	01 Mar 2015

RAJEEV JAUHARI
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 161, dated 10th June 2015—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

ARMY EDUCATIONAL CORPS

TO BE SUBEDAR MAJOR

Rank	Name	Army No	Date of Promotion/Date of Assumption
Sub	Girja Shankar Singh	JC-803367M	01-01-2015
Sub	Ram Niwas	JC-803391H	01-01-2015
Sub	Paras Nath	JC-803393N	01-01-2015
Sub	Govind Narayan Zargar	JC-803395Y	01-01-2015
Sub	Ramesh Kumar	JC-803400Y	@02-02-2015
Sub	Subhash Chander	JC-803403M	01-03-2015
Sub	Pritam Singh	JC-803414Y	01-03-2015
Sub	Jaspal Singh	JC-803415F	01-04-2015
@ Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances.			

TO BE SUBEDAR

Nb Sub	Mirza Sagir Baig	JC-804269Y	01-11-2014
Nb Sub	Krishan Chand	JC-804286Y	01-12-2014
Nb Sub	Devaki Nandan	JC-804185L	@28-01-2015
Nb Sub	Nithiyananthan D	JC-804291K	01-12-2014
@ Granted seniority in the rank of Sub wef 27 Dec 2014 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub	Padma Charana Sahu	JC-804293P	01-01-2015
Nb Sub	Kagitha Manikya Rao	JC-804294X	01-01-2015
Nb Sub	Adesh Kumar Sharma	JC-804295A	# 05-01-2015
Nb Sub	Jiwan Chandra Pandey	JC-804296H	#05-01-2015
Nb Sub	Tilak Raj	JC-804297L	01-01-2015
Nb Sub	Ram Prasad	JC-804298N	01-01-2015

Nb Sub	Pramod Kumar Sharma	JC-804301H	#05-01-2015
Nb Sub	Ram Kishor Maurya	JC-804302L	01-01-2015
Nb Sub	Rama Nand Singh	JC-804303N	01-01-2015
Nb Sub	Deshmukh Rajendra Harischchandra	JC-804304W	01-01-2015
Nb Sub	Ishwar Chandra Singh	JC-804305Y	01-01-2015
Nb Sub	Kishore Singh Ratanoo	JC-804306F	01-01-2015
Nb Sub	Ramesh Chand	JC-804307K	01-01-2015
Nb Sub	Anil Kumar Singh	JC-804308M	01-01-2015
Nb Sub	Lokanath Swain	JC-804309P	#17-01-2015
Nb Sub	Bhaskar	JC-804311M	01-01-2015
Nb Sub	Lalit Kishore	JC-804313X	01-01-2015
Nb Sub	Satish Kumar Singh	JC-804314A	01-01-2015
Nb Sub	Laxmi Narayan Pandey	JC-804315H	01-01-2015
Nb Sub	Nanda Ballabh Pathak	JC-804316L	01-01-2015
Nb Sub	Ranjit Singh	JC-804317N	#26-01-2015
Nb Sub	Pradip Kumar	JC-804318W	01-01-2015
Nb Sub	Yogesh Kumar Attri	JC-804319Y	01-01-2015
Nb Sub	Narpat Singh Rathore	JC-804320N	01-01-2015
Nb Sub	Rajender Singh	JC-804321W	01-01-2015
Nb Sub	Raj Kumar	JC-804323F	01-01-2015
Nb Sub	Sukanta Kumar Dash	JC-804325M	#05-01-2015
Nb Sub	Ashit Kamlakant Bhattacharjee	JC-804326P	01-01-2015
Nb Sub	Devendra Singh Kushwah	JC-804327X	#03-01-2015
Nb Sub	Jokhan Rai	JC-804328A	01-01-2015
Nb Sub	Digar Singh	JC-804329H	#21-01-2015
Nb Sub	Ashok Kumar	JC-804330X	01-01-2015
Nb Sub	Ajay Kumar Singh	JC-804331A	01-01-2015
Nb Sub	Thomas PV	JC-804335W	#19-01-2015
Nb Sub	Khageswar Sahu	JC-804336Y	01-01-2015
Nb Sub	V Sudhakar Changavalli	JC-804337F	01-01-2015
Nb Sub	M Sreenivasula Reddy	JC-804338K	01-01-2015
Nb Sub	Krishna Chandra Pradhan	JC-804340F	01-01-2015
Nb Sub	Bhup Chand	JC-804342M	01-01-2015
Nb Sub	Vasudeva Rao Hanumanthu	JC-804343P	01-01-2015
Nb Sub	Chaudhary Subhash Chandra	JC-804344X	01-01-2015

Nb Sub	Shaik Krimullah	JC-804345A	01-01-2015
Nb Sub	Chandra Shekher Bhatt	JC-804346H	#02-01-2015
Nb Sub	Gauri Shankar Tiwari	JC-804347L	#09-01-2015
Nb Sub	Rabindra Prasad	JC-804348N	#02-01-2015
Nb Sub	Fakir Chand Naik	JC-804349W	01-01-2015
Nb Sub	Pramod Kumar Yadav	JC-804353Y	#02-01-2015
Nb Sub	Hemant Kumar Parida	JC-804354F	#30-01-2015
Nb Sub	Rajender Singh	JC-804358X	#21-01-2015
Nb Sub	Anand Ballabh	JC-804359A	01-01-2015
Nb Sub	Satish Kumar	JC-804360P	#01-03-2015
Nb Sub	Durga Prasad Singh	JC-804361X	01-01-2015
Nb Sub	Shiva Nand	JC-804362A	01-01-2015
Nb Sub	Abdul Rasheed Elachola	JC-804363H	01-01-2015
Nb Sub	Padum Singh	JC-804364L	01-01-2015
Nb Sub	Devendra Singh Rawat	JC-804365N	01-01-2015
Nb Sub	Neeraj Kumar Sharma	JC-804367Y	01-01-2015
Nb Sub	Dhirendra Singh	JC-804368F	01-01-2015
Nb Sub	Chandra Pal Singh	JC-804369K	01-01-2015
Nb Sub	Devender Kumar	JC-804370Y	01-01-2015
Nb Sub	Shambhu Singh	JC-804373M	01-01-2015
Nb Sub	Radhakrishnan P	JC-804374P	#01-03-2015
Nb Sub	Narendra Singh	JC-804375X	#01-02-2015
Nb Sub	Prakash N	JC-804376P	#01-03-2015
Nb Sub	Rakesh Kumar	JC-804377H	01-01-2015
Nb Sub	Jagdish Prasad Ray	JC-804378L	01-01-2015
Nb Sub	Mahesh Pal Singh	JC-804379N	01-01-2015
Nb Sub	Narendra Chhotaray	JC-804380H	01-01-2015
Nb Sub	Lukinder Singh	JC-804381L	#05-01-2015
Nb Sub	Narayanan Kutty MK	JC-804382N	01-01-2015
Nb Sub	Surinder Kumar	JC-804384Y	01-01-2015
Nb Sub	Vidya Sagar Rai	JC-804385F	01-01-2015
Nb Sub	Pittu V Subba Reddy	JC-804386K	01-01-2015
#Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub	Jitender Singh Rajora	JC-804387M	\$01-03-2015
Nb Sub	Jasbir Singh	JC-804388P	01-02-2015

Nb Sub	Jaya Kumar NS	JC-804389X	\$02-03-2015
Nb Sub	Somvir	JC-804395L	\$02-02-2015
Nb Sub	Jagroop Singh	JC-804397W	\$02-02-2015
Nb Sub	Shrinivasa Upadyaya UB	JC-804398Y	\$02-02-2015
Nb Sub	Rajender Pal	JC-804399F	\$23-02-2015
Nb Sub	Manjit Singh Balhara	JC-804400L	\$02-02-2015
Nb Sub	Uday Bhan Singh	JC-804401N	01-02-2015
Nb Sub	Anil Kumar	JC-804402W	\$01-03-2015
Nb Sub	Sarjeet Singh Rathore	JC-804403Y	02-02-2015
Nb Sub	Ram Singh	JC-804405K	01-02-2015
\$ Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub	Angara Subba Rao	JC-804406M	@02-03-2015
Nb Sub	Ram Kumar	JC-804408X	01-03-2015
Nb Sub	Satendra Rai	JC-804409A	01-03-2015
Nb Sub	Prabodha Kumar Parija	JC-804410P	@02-03-2015
@Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub	Sanjeev Singh	JC-804413H	01-04-2015
Nb Sub	Sunil Kumar N	JC-804417Y	01-04-2015
Nb Sub	Surender Kumar	JC-804419K	01-04-2015
Nb Sub/Clk	Ajajuddin	JC-804532Y	01-09-2014

TO BE NAIB SUBEDAR

Hav/Clk	Vinod Yadav	(9511306Y Now JC-805065Y)	01-01-2015
Hav	Mantush Kumar Singh	(9512471W Now JC-805067K)	01-01-2015
Hav	Prem Kumar Subba	(9512475M Now JC-805068M)	01-01-2015
Hav	Radheshyam Pratap Singh	(9512489M Now JC-805069P)	01-01-2015
Hav	Hemant Singh Rawat	(9512496H Now JC-805070K)	@05-01-2015
Hav	R Rajesh	(9512498N Now JC-805071M)	@09-01-2015
Hav	MB Venkateswara Rao	(9512502L Now JC-805072P)	01-01-2015
Hav	Bibhuti Bhusan Sahoo	(9512505Y Now JC-805073X)	01-01-2015
Hav	Sri Prem deo Dwivedi	(9512509P Now JC-805074A)	01-01-2015
Hav	Anil Kumar Yadav	(9512511M Now JC-805075H)	01-01-2015
Hav	Sri Deepak Pandey	(9512513X Now JC-805076L)	01-01-2015
Hav	Satish Kumar	(9512515H Now JC-805077N)	01-01-2015
Hav	PD Biju	(9512517N Now JC-805078W)	01-01-2015
Hav	Vinod Kumar P	(9512520N Now JC-805079Y)	01-01-2015
Hav	Sanjay Kumar Mishra	(9512523F Now JC-805080N)	01-01-2015
Hav	Lalit Mohan Joshi	(9512524K Now JC-805081W)	01-01-2015

Hav	Vijay Kumar	(9512526P Now JC-805082Y)	01-01-2015
Hav	Prakash Chand	(9512527X Now JC-805083F)	01-01-2015
Hav	Krishan Chand	(9512534N Now JC-805084K)	01-01-2015
Hav	Dinanath	(9512535W Now JC-805085M)	01-01-2015
Hav	Kuldip Singh	(95125538K Now JC-805086P)	01-01-2015
Hav	Naveen Kumar	(9512541K Now JC-805087X)	01-01-2015
Hav	Raj Singh	(9512542M Now JC-805088A)	01-01-2015
Hav	Balram Singh	(9512543P Now JC-805089H)	01-01-2015
Hav	Potter Padamsingh Satyabirsingh	(9512546H Now JC-805090X)	01-01-2015
Hav	Sanjay Kumar Pandey	(9512547L Now JC-805091A)	@12-01-2015
Hav	Subhash Singh	(9512549W Now JC-805092H)	@12-01-2015
Hav	Keshav Chander	(9512554F Now JC-805093L)	01-01-2015
Hav	Sanjay Kumar	(9512559A Now JC-805094N)	@07-01-2015
Hav	Pawan Raj	(9512561X Now JC-805095W)	01-01-2015
Hav	Kalyan Singh	(9512562A Now JC-805096Y)	01-01-2015
Hav	Sahdev Singh	(9512563H Now JC-805097F)	@11-02-2015
Hav	Shyamvir Singh	(9512564L Now JC-805098K)	01-01-2015
Hav	Anil Kumar Singh Raghav	(9512567Y Now JC-805099M)	01-01-2015
Hav	Subodh Kumar Singh	(9512569K Now JC-805100W)	01-01-2015
Hav	Dharmendra Singh	(9512576A Now JC-805101Y)	01-01-2015
Hav	Naresh Singh Sangwan	(9512577H Now JC-805102F)	01-01-2015
Hav	Dilip Singh	(9512578L Now JC-805103K)	01-01-2015
Hav	Shaji M	(9512579N Now JC-805104M)	01-01-2015
Hav	Sri Suryakant Shrivastava	(9512581L Now JC-805105P)	@07-01-2015
Hav	Sunil Kumar Sharma	(9512582N Now JC-805106X)	01-01-2015
Hav	Raghvendra Singh	(9512584Y Now JC-805107A)	01-01-2015
Hav	Abhay Narain Mishra	(9512585F Now JC-805108H)	01-01-2015
Hav	Valigonda Raghavendar	(9512587M Now JC-805109L)	@23-01-2015
Hav	K Venkata Ranga Rao	(9512589X Now JC-805110A)	01-01-2015
Hav	Randhir Singh	(9512590M Now JC-805111H)	@12-01-2015
Hav	Prem Gandhi	(9512591P Now JC-805112L)	01-01-2015
Hav	Man Mohan Singh	(9512594H Now JC-805113N)	@01-02-2015
Hav	Deepak Kumar Bakshi	(9512595L Now JC-805114W)	01-01-2015
Hav	Madhu P	(9512596N Now JC-805115Y)	01-01-2015
Hav	Sudheer DA	(9512598Y Now JC-805116F)	01-01-2015
Hav	Venugopal Sivadasan	(9512599F Now JC-805117K)	01-01-2015
Hav	Nirdesh Kumar Roy	(9512613H Now JC-805118M)	01-01-2015
Hav	Sunil Kumar Kotnala	(9512615N Now JC-805119P)	@02-01-2015
Hav	Ramanugrah Singh	(9512616W Now JC-805120K)	01-01-2015
Hav	Chuda Mani	(9512617Y Now JC-805121M)	@03-01-2015
Hav	Mukesh Kumar Sharma	(9512618F Now JC-805122P)	01-01-2015
Hav	Pradeep Kumar Bisen	(9512619K Now JC-805123X)	01-01-2015

Hav	Ghanashyam Mohanta	(9512621F Now JC-805124A)	01-01-2015
Hav	Sunil Kumar Roy	(9512628L Now JC-805125H)	@ 14-01-2015
Hav	Sanjib Kumar Panda	(9512629N Now JC-805126L)	01-01-2015
Hav	Arun Kumar	(9512630H Now JC-805127N)	01-01-2015
Hav	Surender Kumar Sharma	(9512631L Now JC-805128W)	@ 10-01-2015
Hav	Virendra Kashyap	(9512633W Now JC-805129Y)	01-01-2015
Hav	Umesh Kumar	(9512637M Now JC-805130N)	01-01-2015
Hav	Sanjay Kumar Singh	(9512639X Now JC-805131W)	@ 02-01-2015
Hav	Malkeet Singh	(9512640M Now JC-805132Y)	@ 06-01-2015
Hav	Lakshmi Kant Bhatt	(9512642X Now JC-805133F)	01-01-2015
Hav	Ranjeet Singh	(9512643A Now JC-805134K)	01-01-2015
Hav	Durga Madhab Mohapatra	(9512646N Now JC-805135M)	01-01-2015
Hav	Ajay Kumar Singh	(9512647W Now JC-805136P)	01-01-2015
Hav	Nitin Awasthi	(9512648Y Now JC-805137X)	01-01-2015
Hav	Ravinandan Pratap Singh	(9512649F Now JC-805138A)	01-01-2015
Hav	Abhijeet Rai	(9512650W Now JC-805139H)	01-01-2015
Hav	Raj Singh Naruka	(9512651Y Now JC-805140X)	01-01-2015
Hav	Rajesh Kumar	(9512652F Now JC-805141A)	01-01-2015
Hav	Gobardhan Singh	(9512653K Now JC-805142H)	01-01-2015
Hav	Roop Kishor Pali	(9512659L Now JC-805143L)	01-01-2015
Hav	Manoj Kumar Chauhan	(9512565N Now JC-805144N)	#20-02-2015
@Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances.			
# Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Jan 2015 without effect on pay and allowances.			
Hav/Clk	Ananga Kishor Mohapatra	(9511307F Now JC-805145W)	@ 02-02-2015
Hav	Prakash Dev	(9512662L Now JC-805146Y)	@ 02-02-2015
Hav	Sarup Singh Rana	(9512663N Now JC-805147F)	01-02-2015
Hav	Kulwant Singh	(9512664W Now JC-805148K)	@ 04-03-2015
Hav	Rakesh Singh Ghosi	(9512666F Now JC-805149M)	01-02-2015
Hav	Mahendra Prasad	(9512670K Now JC-805150F)	@ 02-02-2015
Hav	Jitender Singh	(9512672P Now JC-805151K)	01-02-2015
Hav	Sarathi Prasad Behera	(9512487F Now JC-805152M)	\$ 21-02-2015
@Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances.			
\$Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Feb 2015 without effect on pay and allowances.			
Hav	Ajoy Kumar Singh	(9512673X Now JC-805153P)	@ 02-03-2015
Hav	Narsi Dass	(9512674A Now JC-805154X)	01-03-2015
Hav	Uma Kant Pathak	(9512676L Now JC-805155A)	01-03-2015
Hav	Dilip Kumar Pandey	(9512677N Now JC-805156H)	@ 10-03-2015
Hav	Basant Kumar	(9512680N Now JC-805158N)	@ 02-03-2015
Hav	Parvender Kumar Prasher	(9512681W Now JC-805159W)	01-03-2015

Hav	Anil Patial	(9512682Y Now JC-805160L)	@02-03-2015
Hav	Uma Shankar Choubey	(9512689H Now JC-805161N)	@02-03-2015
Hav	Rajinder Singh	(9512693L Now JC-805162W)	01-03-2015
@Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances			
Hav	Ashok Pradhan Singh	(9512694N Now JC-805163Y)	01-04-2015
Hav	Vinod Singh	(9512696Y Now JC-805165K)	01-04-2015
Hav	Satyaveer Sharma	(9512697F Now JC-805166M)	01-04-2015
Hav	Kalpita Kumar Bisht	(9512702F Now JC-805167P)	01-04-2015

ALKA JOSHI
Under Secy

AIR FORCE BRANCH

No. 162, dated 11th June 2015—The President is pleased to make the following promotions:—

TO BE CSO (E)

Name & PA No (Shri/Smt)	Date of promotion
AL Nongrum, 31546	18 Dec 14
Ashok Kumar, 31750	18 Dec 14
Avtar Singh, 31751	18 Dec 14
Surendra Singh, 31743	17 Dec 14
Rajeshwar, 32070	17 Dec 14

TO BE CGO (E)

MC Ninama, 37345	10 Jun 13
GS Dhillon, 29661	11 Nov 13
Gordhan Singh, 31744	14 Oct 13
Jem R Sterling, 29675	06 May 13
VR Avardimath, 29902	04 Nov 13
SK Suryavanshi, 30760	20 Sep 13
OM Raju, 28746	06 Aug 13
Anju Ahuja, 34134	23 Aug 13
BS Negi, 30272	07 Nov 13
M Pallepogulu, 34454	29 Oct 13
AK Sharma, 34402	03 Dec 13
NK Nagpal, 31667	15 Jul 14
Neelam Gupta, 34248	04 Jul 14
Satveer Singh, 34408	19 Jun 14
SK Vatsa, 34423	19 Jun 14
Amar Singh, 34503	08 Sep 14
RP Jadhav, 32041	22 Oct 14
SS Bisht, 34449	20 Apr 15

TO BE CGO (A)

Name & PA No (Shri/Smt)	Date of promotion
Ganga Wasi, 35464	12 Feb 14
Boniface Lakra, 36046	01 Nov 13
Jaswant Singh, 35549	20 Sep 13
Shiv Sagar, 36045	20 Dec 12
R Nombavathy, 35689	04 Oct 12
Kota Ramesh, 35868	18 Oct 12
Balwinder Kaur, 31193	16 Apr 12
G Padmavathi, 34535	18 Jan 12
Om Pal Singh, 35548	08 Jun 11
S Indirjith, 35908	19 Jun 14
Ram Sunder, 35470	18 Nov 13
Ram Surat, 37400	02 Feb 10
Ram Pal, 37398	02 Dec 10
Vinod Kumar Sonkar, 37401	10 Jan 11

TO BE ALIO

SV Bableshtar, 29982	19 Aug 10
Lalithamma, 30678	19 Aug 10
Surjeet Kaur, 36792	09 Sep 10
D Umeshwar, 36884	17 Sep 10
N Muralidhara, 37470	01 Sep 10
KS Malini, 30673	25 Nov 10
Kum KS Usha, 35854	24 Nov 10
Baljeet Singh Rana, 28966	11 Jul 11

TO BE AD (OL)

RL Pandey, 31912	12 Jan 89
S Subramani, 31261	05 Jan 90
AD Ghogare, 31647	11 Jun 90
Lok Pal, 31670	30 Nov 90
NK Sharma, 31583-N	06 Jan 98
Rekha Sharma, 31 651	25 Mar 11
BM Pushpavathi, 31822-T	08 Dec 14

A PAMEI
Dir PC (P)

ARMY BRANCH

No. 163, dated 11th June 2015—The President is pleased to permit the under mentioned officer to retire with permission to retain his rank and wearing of uniform :—

TERRITORIAL ARMY

RETIREMENT

Lt Col JL Nurse

TA-42209

(Infantry)

28 Feb 2015

B B JOSHI
Under Secy

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in